


Tanjore Sarasvati Mahal Series No. 368

# ॥ मुकुन्दविलासः ॥

श्रीभगवन्तरायसूरिविरचितः

## MUKUNDA VILASA

by  
BHAGAVANTARAYA SURI



Published by

Thanjavur Maharaja Sarfoji's  
**SARASVATI MAHAL LIBRARY,**  
THANJAVUR.



1996 ]

[ Price : Rs. 35-00



Tanjore Sarasvati Mahal Series No. 368

SRI

# MUKUNDA VILASA

By

Sri BHAGAVANTARAYA SURI



Edited with introduction in English, Tamil & Sanskrit  
by

KAVITALLAJA - SAHITYA SIROMANI

Sri N. VENKATARAMANAN, B.Com.,  
(Guest Editor, Sarasvati Mahal, Thanjavur)



Published by

Thanjavur Maharaja Sarfoji's  
**SARASVATI MAHAL LIBRARY,**  
THANJAVUR..



[ Price : Rs. 35.00 ]

1996]

## **BIBLIOGRAPHICAL DATA**

---

<b>Title of the Book</b>	<b>...</b>	<b>MUKUNDAVILASA</b>
<b>Editor</b>	<b>...</b>	<b>Sri N. Venkataraman, B.Com.,</b>
<b>Publisher</b>	<b>...</b>	<b>Director Sarasvati Mahal Library, Thanjavur</b>
<b>Publication No.</b>	<b>...</b>	<b>368</b>
<b>Language</b>	<b>...</b>	<b>Sanskrit</b>
<b>Edition</b>	<b>...</b>	<b>1st Edition</b>
<b>Date of Publication :</b>		<b>March, 1996</b>
<b>Paper used</b>	<b>...</b>	<b>14.2 Kg. Seshasayee</b>
<b>Size of the Book</b>	<b>...</b>	<b>21 x 14 cm.</b>
<b>Printing type used</b>	<b>...</b>	<b>16 pt.</b>
<b>Number of pages</b>	<b>...</b>	<b>218</b>
<b>No. of copies</b>	<b>...</b>	<b>500</b>
<b>Price</b>	<b>...</b>	<b>Rs. 35/-</b>
<b>Printer</b>	<b>...</b>	<b>Star Print &amp; Pack, Thanjavur</b>
<b>Binding</b>	<b>...</b>	<b>Card Board</b>
<b>Subject</b>	<b>...</b>	<b>Literature</b>

॥ श्रीः ॥

# ॥ मुकुन्दविलासः ॥

श्रीभगवत्तरायसूरिविरचितः



वी.काम् - कवितल्लज - साहित्यशिरोमणि - इति विरुद्भाजा

श्री. एन. वेङ्कटरमणेन

संशोध्य आङ्गिल - तमिळ भाषायां विस्तृताऽमुखवर्णनपूर्वकं  
प्रकाशितः



प्रकाशनम्-

तञ्जावूर् महाराजाशारभोजीसरस्वतीमहालयेन  
प्रकाशितः

१९९६]

[मूल्यम् : रु. ३५-००

1st Edition : 1996.

प्रकाशिका-

तज्जापुरी शरभोजी महाराजस्य

सरस्वती महाल् ग्रन्थालय कार्यकारिणी समिति: तज्जावूद

तज्जापुरी

स्टार् प्रिण्ट ८ पेक् मुद्रणालये मुद्रितम्

## PUBLISHER'S PREFACE

---

---

I am glad that the Sarasvati Mahal Library brings out a rare manuscript 'MUKUNDA VILASA' of a wellknown poet, Sri. BHAGAVANTARAYA. The work Mukunda Vilasa describes the life of Lord Krishna.

Generally Sanskrit Literature is based on either Ramayana or Mahabharata or Puranas-except a few works like KADAMBARI, Dasa Kumara Charita etc. In this small piece of work, Lord Krishna's birth, his playful acts in his childhood, his sportive dance with gopies, fight with Jarasandha etc are narrated in 10 chapters, which is discussed at length in Srimad Bhagavata by Sukacharya. To suit the definitions of Mahakavya the descriptions of seasons, Township, rise and set of the Sun and the Moon, the ocean etc also are mentioned in the text.

The introduction in three languages viz. English, Tamil and Sanskrit by the guest editor, highlights the subject matter of this work in a nutshell. My thanks are due to the guest editor Sri N. Venkata Ramanan. B.Com., who is a retired Bank officer and has taken keen interest in editing this work.

I appreciate Sri S. Krishnamurthi Sastri, the Senior Sanskrit Pandit of Sarasvati Mahal who has reviewed the edited copy and improved the presentation of the subject matter.

Thiru. M. Uthirapathy, Administrative Officer of Sarasvati Mahal Library and Thiru. A. Panchanathan, M.A.M.L.I.S.. Publication Manager cum Librarian Grade-I of Sarasvati Mahal Library deserve appreciation for encouraging publication of rare Manuscripts of the Library.

Thanjavur,  
16—03—96.

**V. K. JEYAKODI, I.A.S.,**  
District Collector & Director i/c,  
Sarasvati Mahal Library.



## INTRODUCTION

Mukundavilasa of Bhagavantha Roya is a beautiful Kavya in Sanskrit with ten cantos. In a simple and delighted style it describes the story of Lord Krishna strictly following the Dasama Skandha of Srimad Bhagavatham

Kavya, indeed, is based only on the steady flow of imagination of vision with clear thinking of expression of suitable situations and emotions. In this Mukunda Vilasa, it is clear that the Poet Bhagavantha possessed with all the characteristics - viz. Genius (Prathibha)- Vyutpatti (Knowledge) and abhyasa (Practice) which are quite essential for a poet. In poetic fancy and force of diction Bhagavantha's genius is remarkable. His style and imagery are striky. Actually, the descriptions of seasons create brilliant images before our eyes. The importance of alankaras (Figures of speech) as stressed by Bhamaha, Kunthaka and other experts was fully felt by the poet. This Kavya is not only free from all defects (Doshas) narrated by eminent alankarikas, but is full of illustrious gunas which are said to be the life breath of Vaidarbhi style. The school of Vamana which emphasis the importance of "Riti" (word and

sense) is also taken into account by our poet. In some places we can enjoy the influence of "Dhwani" (Tone) which is considered as the soul of Kavya according to Anandavardhana. Not only that what a beauty is, the handling of "Ouchitya" (aptness) with full awarness is found in this Kavya. Really the art of beautifying the Kavya with Uthpreksha (Guess) alankara is worthy of all praise. There can't be second opinion as to the richness of the imagination in describing the nature, different kinds of seasons, raising sun, raising moon setting sun, ocean, city, war etc. etc. which are essential for a Maha Kavya.

The simple and lucid language with elegant style has been adopted in this Kavya in sweet and familiar metres.

The Poet Bhagavantha took materials from Srimad Bhagavatham of Sage Vyasa for the theme of his work. It is quite appropriate that he selected Lord Krishna as a hero of his work in the light of the Kavyalakshanas. (Viz: the hero should be much popular either in Ithihasas or Puranas with outstanding good qualities). In this peface, only the story portion - hints are given leaving the description of nature etc. as untouched. But, detailed description is given in Tamil.

## Note on the Author

---

How many poets were there, whose particulars of period and family are still uncertain. But, we are quite fortunate enough to have authoritative information given by our poet himself in his another work "Raghavabh-yudaya.

After the period of Cholas and Naicks, Maratta Kings ruled Thanjavur for about 179 years from 1676 A. D. to 1855 A. D. Our Poet's father Gangadhara Makhi was the Minister of the first Maratta King Ekoji or Venkoji who ruled from 1676 to 1683. He belonged to Bharadwaja Gothra with Maharashtra as his mother tongue. He had sound knowledge in Vedas and Vedangas. There were three sons to him by name Narasimha-rayya Makhi, Thrayambakaraya Makhi and Bhagavantharaya Makhi. Gangadhara Makhi made his eldest son as minister and retired from royal service.

Reputed King Shahaji ascended the throne after King Ekoji and ruled Thanjavur from 1684 to 1711. He was an outstanding ruler, Poet and lover of arts and sciences. Ah !! Sridhara Aiyaval, who is honoured with great reverence as Guru in Bhajana Sampradaya and he who did not accept the offer to his father's post as court poet in Mysore Palace has full heartedly written a Pucca Kavya on Abinava Bhoja. Shahaji with the title "Sahendra Vilasa." ||

Thanjavur kingdom was adorned by the minister Thrayambakaraya Makhi, who has written an elaborate commentary on Srimad Ramayanam of Sage Valmeek with the name DHARMAKUTA (Thathparya of Dharma) establishing the influance of Dharma Sastra found in it from top to bottom. (This rare work has already been published by Sarasvati Mahal Library)

Thrayambakaraya Makhi appointed his brother Narasimharaya's son Anandaraya Makhi as minister and retired from royal service. Eventhough our Poet did not occupy any post in the palace, he was well honoured by the king and Pandits. He has bestowed on us three works in different types, by name, Raghavabhyudaya Uttara Champu and Mukunda Vilasa. The first one, a drama in Sanskrit following Valmiki Ramayana with some modifications to suit different rasas has already been edited by Vedantha Siromani Brahmashri P. M. Padmanabha Sarma in the year 1985 by taking much pains in translating PRAKRUTH speeches of some characters into Sanskrit and was published by Thanjavur Sarasvati Mahal Library. Then, the second work Utthara Champu (Champu = Prose and Poetry combined) has also been brought to light by the same venerable Pandit Brahma Shri P. M. Padmanabha Sarma through the journals published by Sarasvati Mahal Library. Now I am, indeed, fortunate enough to edit the remaining work "MUKUNDAVILASA" Kavya with HIS grace and submit for your satisfaction and enjoyment.

## Short Notes on the Story

---

The poet begins his kavya with a salutation to Lord Somaskanda seated on bull Nandikeswara.

Then, the story with the marriage of Vasudeva with Devaki has been taken at the beginning. During the nice occasion of driving the chariot himself, Kamsa heard an invisible voice that the eighth son to be born to Devaki would be his killer. With great anger, he rushed at his sister with a sword on hand. Then as advised by Vasudeva, Kamsa stoped with his attempt. After some years the Seventh child was born to Rohini, another wife of Vasudeva, with the name Balarama. Now begins rainy season with its own beauty at a large. On an appeal from Devas and Bhoo Devi (god dess of earth) Lord Narayana decided to have a birth to Vasudeva couple as eighth son. Accordingly, Devaki gave birth to a peerless baby and it was taken to Gokulam and placed near Yasoda. The femal child born to her was taken to Mathura where Vasudeva and Devaki were placed in prison. When Kamsa was about to kill the child it sliped away from his hands and jumped to the sky with the form of Kathayani.

In the second canto the birthday celebration of Krishna, Poothanavadha, Sakatsura Vadha and Childhood-

LEELAS are described vividly and interestingly. Then comes Kishna's notorious and delightful balaleelas. Considering the dangerous incidents happened, Nandagopa shifted his residence to Brindavan. Here, the charming beauty of Brindavan is described by a conversation between Krishna and Balarama. On attaining the age of ten, Krishna was sent to Brindavan Forests with Balarama and Gopas to graze the milch cattle. The poet here took a chance of describing autumn season with his mastery in imagination. At the close of this canto kaliyadamana of Krishna finds a place.

The third canto starts with the samhara of Dhenukasura and Pralamba which is followed by heart touching descriptions of spring season and summer season as well. In conclusion, the leela of Krishna with Govardhana hill on his little finger is narrated.

The fourth canto starts with the discription of sunset and rising moon in a splendid manner. At the close the Rasaleela of Krishna with Gopies is delt with nicely.

Raising Sun becomes the subject matter in canto 5, to exhibit the talents of the author in imagining with a distinction. Kamsa afraid of his death, sent Akroora to bring Krishna and Balarama to Mathura where It was arranged to kill Krishna with several plans. When Akroora started with both of them the Gopies could not endure the seperation of Krishna. They chid the moon

Manmatha and "Thenral" winds for invoking their feelings.

Then comes the description of dewy season as a dialouge between Krishna and Balarama followed by Yamuna Varnanam. At this juncture, we find a short but sweet prayer by Akroora praising the glorious ten avatharas of Lord Vishnu.

Sri Krishna and Balarama entering the city Madhura began to converse each other about the majestic look of the buildings, towers and mansions. On their way to palace, the court washerman was killed by Sri Krishna for his wickedness.

At the same time, the man taking garlands on hand and an old bent lady with sandle cup were graciously treated by Sri Krishna for their good mannars, although they happened to be the servants of Kamsa.

Kuvalayapeeda, a war elephant in mad state rushed to Krishna while he entered the palace. Plucking its dantha Sri Krishna killed the elephant with ease and joy. In the presence of thousands of citizens it was arranged to hold a wrestling match in a ground to be played by Krishna with Chanoora and Mushtika. Both the wicked players were killed by Sri Krishna giving astonishment to one and all of the spectators. Kamsa who was sitting in the gallary was pushed down by

Sri Krishna and killed with a hurt in his chest. Devas from heaven showered flowers on Vaasudeva.

With the kind permission of Devendra, Vayu Bhagavan brought Indra-Sabha to earth as directed by Krishna. In this context, our poet takes an opportunity to describe the Deva Sabha on his own line of imagination. Ugrasena was made King of Mathura. Vasudeva sent Krishna and Balarama to sage Santheepa for learning after performing Upanayana. Sri Krishna brought the son of Guru alive who died long before, by killing Panchajana. The description of ocean finds a place here.

In eighth canto, Jarasandha's consultation with his ministers is narrated on political line. Sumathi one of them advised Jarasandha not to make a battle with Sri Krishna and appealed to have friendship instead. Jarasandha did not give his ears to the good advice and proceeded for a war. In this context Raja-Dharmas are enlightened by the poet through their conversation.

A dreadful battle took place between Jarasandha and Sri Krishna. At last, Jarasandha ran away from the field when he was unable to face Chakrayudha sent by Sri Krishna. Defeated Jarasandha attacked Sri Krishna on several days seventeen other times, but embraced full disappointment. To give peaceful life to Yadavas Krishna established DWARAKA in the midst of ocean.

Then Kalayavana was sent to attack Sri Krishna and he was also killed by Muchukunda, an Emperor and devotee of Narayana.

Balarama went to Gokulam in order to console Gopies who were grieved with separation of Sri Krishna. He draged the river Yamuna with his plough near him and enjoyed Jalakreeda with Gopies.

Tenth but last canto begins with Rukmini-Kalyana. Bheeshmaka, King of Vidarbha decided to give his daughter Rukmini in marriage to Sri Krishna. But Rukmi (Brother of Rukmini) arranged the marriage with Sisupala, King of Chedi. On the wedding day, Sri Krishna took away Rukmini while she came out of Devimandir. Conquering the enemies. Sri Krishna entered Dwaraka and his marriage was celebrated in a grand manner. He also married other seven princess by showing his valour. Then Narakasura was killed by Sri Krishna and sixteen thousand princess who were put in prison by him were released.

After destroying Sisupala and Danthavakthra Sri Krishna decided to return back to Sri Vaikuntham. On account of quarel between themselves, Yadavas died totally. At last, Sri Krishna took the form of Narayana and attained His own abode. Thus comes to a happy close the wonderful Kavya Mukundavilasa by Bhagavantha.

My grateful thanks are much due to Thiru V. K. Jayakodi, I. A. S., Collector and Director (i/c) of Thanjavur Sarasvati Mahal Library for having given a golden opportunity to publish this rare work.

Thanks are in no small measure due to Thiru K. Sankaranarayanan, Administrative Officer i/c. and Thiru A. Panchanathan, M. A., M. L. I. S., Publication Manager, of Sarasvati Mahal Library who were kind enough to encourage me in editing rare works.

Words are inadequate to express my grateful thanks to Thethiyur Shri S. Krishnamurthi Sastri, Senior Sanskrit Pandit, Sarasvati Mahal Library for rendering all sorts of help in editing this work.

I also owe a debt of gratitude to 'Star Print & Pack, Thanjavur' for their valuable help in printing neatly at a short time. It is also my duty to thank all Pandits and Staff of the Library for their hospitality shown every now and then. I will also be thankful to all readers who are benefited by reading this book.

N. VENKATARAMANAN, B. Com.,  
Siromani.



## ஆண்டு மூடியதை

---

உலகில் நாம் சாதாரணமாகப் பேசும் சொற்களையே கவி என்பவன் கையாளுகிறான். அவைகளின் பொருளையும் நம்மைப் போன்றே ஏற்கிறான் ஆனால், இவ்விரண்டினையும் ஓர் கவி தம் கவிதையில் தொகுத்து அமைப்பதில்தான் எத்தனை எத்தனை இண்பம் !! என்று மஹாகவி நீலகண்ட தீக்ஷிதர் வியங்கு பாராட்டுகிறார்.

“யானேவ ஶவ்஦ாந् வயமாலபாமः  
 யானேவ சார்஥ாந् வயமுலில்஖ாமः ।  
 தீரேவ விந்யாஸவிஶேபம஬வைः  
 ஸம்மோஹயந்தே கவயो ஜगந்தி” ॥

இவ்வண்மை எங்காட்டுக் கவிதைகளுக்கும் எம் மொழிக் கவிதைகளுக்கும் என்றும் பொருங்குவதாக அமைகிறது. எனவேதான், கவி என்பவன் தானாகப் பிறக்கிறானேயன்றி, தயாராவதில்லை என்று கூறுவார். அறுபத்து நான்கு கலைகளில் கவிதைப் புனைதலும் ஒன்று என்பது சிறப்பல்ல ஆனால் மகாகவிகளின் நூல்கள் ஓர் ஊட்டினுடைய, ஓர் சமூகத்தினுடைய சரித்திரத்தையே படைத்துவிடுகின்றன. மனிதனுடைய வயிற்றுப் பசிக்கு உணவு இன்றியமையாதது போன்று, மனப்பசிக்கு கவிதைகள் தேவைப்படுகின்றன. பிரமனின் உலகப்படைப்பினைக் கண்டு வியக்கிறோம். ஆனால், அவனையும் தம் கற்பனைத்

திறனால் கவி விஞ்சின்று தம் நூல்களை நமக்குப் பெற்றுத் தருகிறான். ஓர் கவியினுடைய மனதில் உதிக்கும் “பாவத்தின்” பிரதி பிம்பமே காப்பியமாகிறது.

நம் கண்களால் நேரில் பார்க்கப்பட்ட பொருள்களோ அல்லது நிகழ்ச்சிகளோ ஓர் கவிதையின் வாயிலாக வருங்கால், நாம் சொல் லோணாத இன்பத்தைப் பெறுகிறோம். ஓர் நல்ல காப்பியம் படிக்கப் படிக்க, கணத்திற்குக் கணம் புதியது புதியதாக அமைவதைப் பார்க்கிறோம். சாஸ்திரங்களில் சொல்லுக்கு முக்கியத்துவம். புராணங்களில் பொருளுக்கு முக்கியத்துவம். ஆனால், ஓர் காப்பியத்திற்குச் சொல், பொருள் இரண்டுமே இன்றியமையாதவை என்பதால்தான் கவிச்சக்ரவர்த்தி காளிதாஸன் தம் நூலான ரகுவம்சத்தை இயற்றுங்கால், முதற்கண் பார்வதி பார்வதி பார்வதி களிடம் இவ்விரண்டையும் தந்தருள வேண்டுகிறான்.

“வார்஥ாவிவ ஸ்பூக்தௌ வார்஥ாப்திபத்யே ।

ஜகதः பிதரௌ வந்஦ே பார்த்தீபரமேஶ்வரௌ” ॥

### காப்பிய இலக்கணங்கள்

ஓர் கவியின் சீறப்புமிகு வருணனையோடு கூடிய படைப்பே காப்பியம் எனப்பெறும். அவைகளில் காதால் கேட்கப்படுவை ‘ச்ரவ்ய காவியம்’ என்றும், நாடக வடிவில் நடிக்கப்பட்டு, கண்களால் பார்க்கப்படுவை ‘த்ருச்ய காவ்யம்’ என்றும் கூறுவர்

அடிப்படையில், கவிஞரால் இயற்றப்படும் கலோகங்கள், சாஸ்திரப்படி அந்தந்த விருத்த லக்ஷணங்களுடன் யதிகளுடன் அமைக்கப்படவேண்டும். ஓர் சீறந்த காப்பியம் மாசற்ற “அனுப்ராஸம், யமகம், சித்ர பந்தம்” போன்ற சொல்லினிகளையும், உவமை போன்ற பொருள்னிகளையும் கொண்டிருக்கவேண்டும்

அத்துடன் சிலேஷ, ப்ரஸாதம், ஸமதா, மாதுர்யம் போன்ற குணங்களையும் உடையதாக அமைதல் வேண்டும். கவிதைச் சொற்களின் அமைப்பும், நடையும் கயமாக ஒலிக்கவேண்டும் காப்பியத்தில் படிப்பவர் மனதத்தொட்டு அந்தங்க ரஸானுபவத்தைத் தரவல்லவைகளாக ரஸம் பொருங்தி இருத்தல் அவசியம். ஒன்பது ரஸங்களில் ஏதாவது ஒன்று முக்கியமாகவும், மற்றவை அதனைத் தக்க அளவில் போவிப்பதைகளாகவும் மினிர வேண்டும். அது மட்டுமல்ல அக்கவிதையின் கருத்து ஆழமானதாகவும், அதனை ஆராய ஆராய புதுப்புது எண்ணங்களை எழுப்புவதாகவும், தவணி யின் முக்யத்வமும் கொண்டதாகவும் இருக்குமேயாகில் சாலச்சிறங்கத்து. அத்துடன் ஓர் காப்பியத்தில் இடம், காலம், சூழ்நிலை, பாத்திரங்கள், கதையின் போக்கு ரஸம், தவணி, படிப்பவர் ருசி இவைகளை மனதில்கொண்டு கவியினுடைய கற்பனைகள் தக்க அளவில் அமையவேண்டும். இதனாலே ‘ஒளசித்யம்’ (Aptness) என்பார்

எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக கவியினால் சமைக்கப்பெறும் நூலின் பயன் மிகவும் முக்கியமானதாகும் நற்புக்கேள்வே பெருஞ் செல்வகேள்வே ஓர் காப்பியத்தை இயற்றுவதால் கவிஞருக்கு ஏற் பட்டால் மட்டும் போதாது! அது அவனுக்கும், அந்நூலைப் படிப்பவர்க்கும் “இக-பா” என்மைகளைப் பயப்பதாகவும் அமைதல் வேண்டும்

இவ்வாராள காப்பியத் தகுதிகளைக் கூறி காப்பியத்தின் உயிர்நாடி (ஆத்மா) எது என்பதையும் நமக்கு வரையறுத்துக் கொடுத்த பாமஹர், மம்மடர், வித்யாதரர், வாக்படர், ஹேம சங்திரன், விசுவாதன், போஜன், தண்டி, ஐகன்னாதன், ஆனந்த வர்தனர், அப்பய்ய திச்சிதர் போன்ற மஹான்களின் சித்தாங்தங்களின் அடிப்படையில் இங்நூலாசிரியர் பகவந்தர் தம்முடைய

“ முகுந்த விலாஸம் ” - எனும் காப்பியத்தை தந்தருளியுள்ளார் என்பதைக்காண வியப்பாக உள்ளது.

ஓர் பெருங்காப்பியம் எனில், அது ஏதேனும் இதிஹாசம், புராணம், பிரசித்தமான சரித்திர நூல் இவைகளைத் தழுவி இயற்றப்படவேண்டும். அக்காப்பியத்தின் கதாநாயகன் நற்பண்புகள் அமைந்த ‘ஆதர்ச’ புருஷனாக இருக்கவேண்டும். அப் பெருங்காப்பியம், சருக்கங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு சுவையான விருத்தத்தில் அமைந்து, கடல், சூரியோதயம், சந்திரோதயம், பருவங்கள் போன்றவைபற்றிய இயற்கை வருணனைகளையும், அரசு பரம்பரை, அரண்மனை, நகரம், வேட்டை, ஜலக்ரீடை போன்றவை களின் வருணனையையும் கொண்டவைகளாக இருக்கவேண்டும் இவ்வாறு எத்தனை எத்தனை இலக்கணங்கள் வரையறுக்கப் பட்டுள்ளன? இத்துணை விதிகளையும் வழுவாமல் ஏற்று இங்நூலா சிரியர் தம் காப்பியத்தை மிக அருமையாக ஆக்கியுள்ளார்.

### நாவலாசிரியரப்பற்றி :

ஸம்ஸ்கிருத பாடங்களில்தான் எத்தனை எத்தனை காப்பியங்கள், நாடகங்கள்!! அவைகளின் காலம், இடம், ஆசிரியர் பற்றிய விவரங்கள் பெரும்பாலும் தெளிவாகக்கிடைப்பதில்லை நமது முகுந்த விலாஸத்திற்கு இக்குறை கிடையாது.

சோழ மன்னர்களாலும், பின்னர் நாயக மன்னர்களாலும் செங்கோலோச்சப்பட்ட தஞ்சைத் தரணி நாயக மன்னர்களால் கி. பி. 1676 முதல் 1855 முடிய கூமார் 179 ஆண்டுகள் சிறப்புற ஆளப்பட்டது. முதல்மாத்திய மன்னன் ஏகோஜி அல்லது வெங்கோஜி கி. பி. 1676-1683 ஆண்டு வருங்கால் நம் நூலாசிரியரின் தந்தையார் “கங்காதரமகி” என்பவர் அமைச்சர்

பெருமகனுக்த திகழ்ந்தார் இவர் பாரத்வாஜ கோத்திரத்தைச் சேர்ந்தவர் வேத வேதாங்கங்களைக் கற்றுணர்ந்தவர். மஹாராண்டிர மொழியைத் தாய் மொழியாகக் கொண்டவர் இவருக்கு நரசிம்ம மகி, திரியம்பக மகி, பகவந்தராய மகி, என்ற மூன்று குமாரர்கள் இருந்தனர் நாளடைவில் ஆஸ்மீகத்துறையில் அதிக நாட்டங் கொண்ட இவர் தம் மூத்த மகனுன் நரசிம்மாய மகியை அமைச்சராக்கி ஒய்வு பெற்றுர் ஏகோஜி மன்னாருக்குப் பிறகு ஷாஹஜி 1684-1711 காலத்தில் தஞ்சையை அரசாண்டார். அவர் சிறந்த அரசராகவும், பன்மொழிப்புலவராகவும், அனைத்து கலை களையும் வளர்ப்பவராகவும், பண்டதர்களை சிறப்பாக ஆதரிப்பவராக வும் விளங்கினார் சிவபெருமானின் அம்சமாக பஜீன ஸம்பிரதாய த்தில் குருவாகக் கொண்டு போற்றப்படும் பூநிதர அய்யாவாள் என்ற பெரியார் இவரைப் புக்கிஞ்து “ சஹாஜி விலாஸம் ” என்ற ஓர் காப்பியத்தையே எழுதியுள்ளார் எனில், இம்மன்னருடைய பெருமையைச் சொல்லவும் வேண்டுமோ !! ‘அபினவ போஜன்’ என்று புலவர் பெருமக்களால் பாராட்டப்பட்ட ஷாஹஜி மன்னருடைய அமைச்சராக விளங்கிய திரியம்பகராய மகி மிகவும் செல்வாக்குப் பெற்று விளங்கினார். இவர் ராமாயணத்தை ஓர் அறநூலாக எடுத்துரைத்து வால்மீகி ராமாயணத்திற்கு (“தர்மாகூதம்” தர்ம = அறம், ஆகூதம் = உள்ளார்ந்த கருத்து) என்ற ஒப்பற்ற விரிவுரையை எழுதியுள்ளார். இவ் விரிவுரை தஞ்சை சரஸ்வதி மஹால் நூல் நிலையத்தால் முன்னரே பதிப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இவர் தம் அண்ணன் நரசிம்மாயமகியின் குமாரான ஆளந்தராயமகியிடம் அமைச்சர் பதவியை ஒப்படைத்து ஒய்வு பெற்றார். இவ்விவரங்கள் யாவும் நமது கனி பகவந்தராயமகி தாம் இயற்றிய ‘ராகவாப்யுதயம்’ என்ற நாடகத்தின் முதலறிமுகத்தில் தெளிவாகக் கூறியுள்ளார்.

பகவந்தராய மகி அமைச்சராக விளங்கவில்லையேயன்றி மன்ன ராஜும் கவிஞர்களாலும் பெரிதும் பாராட்டப்பட்டு வந்தார். இவர்

ராமாயணக் கதையை “‘ராஜவாப்யுதயம்’” என்ற நாடகத்தாலும், உத்தரசம்பூவாலும் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சரிதத்தை “‘முகுங்தவிலாஸம்’” - என்ற காப்பியத்தாலும் எழுதிய பெருமை கொண்டவர். நாடக வகைணங்கள் அனைத்தும் பொருந்த அந்த நாடகம் கம்பீரமாகவும் கருத்தாழும் கொண்டதாகவும் விளங்குகிறது. நாடகப் பாத்திரங்களில் சிலரது பேச்சை பிராகிருத (ஸம்ஸ்கருத கொச்சை மொழி) மொழியில் கொடுத்துள்ளார். அதனுடைய பொருளை அறிவது மிகக் கடினமாக இருந்தது. மிக நுட்பமான மதி கொண்டு, மிக சீரமப்பட்டு அதை ஸம்ஸ்கிருத மொழியாக்கி நல்ல முறையில் சரஸ்வதி மஹால் நூல் நிலையம் மூலம் புதுப்பித்த வேதங்த சிரோமணி பிருங்குறை ஸ்ரீ P.M. பத்மநாபசர்மா அவர்களை என்றும் அறிஞர்கள் பாராட்டுவர். உரைநடையும், செய்யுள் நடையும் கொண்ட “சம்பூ” கிரங்தமாக நமது நூலாசிரியரால் இயற்றப்பட்ட “‘உத்தர-சம்பூ’” காப்பியத்தை மேற்குறிப்பிட ஸ்ரீசர்மா அவர்கள் சரஸ்வதி மஹால் நூல் நிலைய ஜர்னல் மூலம் பதிப்பித்துள்ளார். எனவே தஞ்சை மராத்திய மன்னர் அரண்மனையின் தொடர்பு கொண்ட பகவந்தராயமகியின் மூன்று படைப்புக்களில் இரண்டு முன்னாரே வெளிவந்துள்ள நிலையில், தற்போது “‘முகுங்த விலாஸம்’” என்ற அவருடைய காப்பியத்தை வெளியிடுவதில் நான் மிகவும் பெருமைப் படுகிறேன்

### நூலின் அமைப்பு

ஸ்ரீ பகவந்தராயகவி தன்னுடைய காப்பியம் இனிது எழுதப் பெற்று, அனைவரும் நலம்பெற வேண்டித் தம் இஷ்டதெய்வமான சிவபெருமானை விருஷ்ப வாஹனத்தில் அமர்ந்து விளங்கும் ஸோமாஸ்கங்த மூர்த்தியாகத் துதித்து மங்கள வாழ்த்து கூறுகிறார்.

கண்ணுடைய திருவிளையாடல்களின் இன்ப அனுபவமே சிறியேண இம் முகுங்த விலாஸமெனும் காப்பியத்தை எழுத

ஆவலுறச் செய்தது என்று கணி தம் அடக்கத்தைத் தெரிவிக்கும் பண்புதான் என்னே !!

முன்னர் வியாஸ முனிவரால் இயற்றப்பட்ட ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்ற புராணத்தின் பத்தாவது ஸ்கந்த கதையினைத் தம் காப்பியக் கருப்பொருளாகக் கொண்டார்.

### முதல் சருக்கம்

யது வம்ச ஹரசன் வக்தேவன் தேவகீயை மணங்கு தேர் பவனி வருகிறான். கம்லன் தேரோட்டி மக்ஷிகிறான். தங்கை தேவகீயின் எட்டாவது கர்பத்தில் பிறக்கும் குமாரனால் தனக்கு அழிவு என்பதை அசரீரி மூலம் கேட்டறிந்த கம்லன் மணக்கோலத்தில் தேரில் அமர்த்திருக்கும் தேவகீயைக் கொல்ல முற்படுகிறான் பின்னர். வக்தேவரின் உறுதிமொழியின்பேரில் தம் முயற்சியைக் கைவிடுகிறான் ஒப்பங்தப்படி ஆறு குழங்கைகளும் கம்லனிடம் கொடுக்கப்பட்டு, அவனாலேயே கொல்லப்படுகின்றன. தேவகீயின் ஏழாவது கர்பம் கோகுலத்தில் வாழும் வக்தேவரின் மனைவி ரோகிணியை அடைசீரது. பலராமன் பிறக்கிறான்.

இங்கிலையில், துவ்டர்களின் தொல்லைகளைப் பொறுக்க மாட்டாத பூமிதேவி பிரமன் தலைமையில் தேவர்களுடன் திருப்பாற்கடல் அடைந்து நாராயணனிடம் முறையிடுகிறார். வக்தேவருடைய குமாரனாக அவதரித்து உலக கோமத்தைச் செய்யத் திருவுள்ளாம் கொண்டுள்ளதை திருமால் தெரிவித்து அனுப்புகிறார்.

கம்லனால் சிறைப்படுத்தப்பட்டிருந்த கிலையில் தேவகீ எட்டாவது கர்பத்தை ஏற்கிறார். மழைகாலமும் தொடங்குகிறது. மேகங்களின் மழுவிசை, மயில்களின் மிடற்றிசை தவணையின் விதூஷக நடிப்பு இவைகளுடன் மின்னலெனும் நாட்டியக்காரி நடத்தும்

நாடகம் ஓர் புறம் மேகங்களைக்கண்டு மதங்கொண்ட மயில்கள் பாம்புகளைத் துண்டிக்க. அப்பாம்புகளின் ரத்னங்கள் மற்றோர் புறம் சிதறிக்கிடக்கின்றன தாபம் நீங்கிய பூமி மகிழ்ந்து கொக்குக் கூட்டமெனும் வெண்டாமரை மாலையை இலஞ்சமாக (கையூட்டாக) அனுப்பிவைக்கிறாள் மழைத் திவிலைகள் விழுவதால் தனக்குக் கிடைக்கவேண்டிய மகரந்தம் கிடைக்காதே - என வெண்ணி தேங்க்கள் தம் இறக்கையினால் மலர்களை மூடிக் கொள்கின்றன.

## சருக்கம் - 2

ஆவணி மாதம் கிருஷ்ணபக்ஷம் அஷ்டமீ, ரோஹிணீ நகஷத்ரம் தூடிய நன்னாளில் நள்ளிரவில் கிருஷ்ணன் அவதரிக்கிறான். வசதேவர் அக்குழங்கத்தையை யசோதையின் பக்கலில் கிடத்தி அவனுக்குப் பிறந்த பெண் குழங்கத்தையை எடுத்து வரவும், கம்ஸன் அதனைக் கொல்ல முற்படுகையில் கையினின்று தாவி வானத்தில் சின்று தேவீயாகக் காட்சித்து, முன்னரே அவனைக் கொல்லப்போகும் எட்டாவது குழங்கத் பிறந்துள்ள செய்தியைத் தெரிவித்து மறை கிறுன்.

கவலையடைந்த கம்ஸன் மந்திராலோசனை செய்து பூதனையை கோகுலம் அனுப்புகிறான். (முற்பிறவியில் தாடகையாக வந்தவனே இவள் எனவெண்ணி குழங்கத் கண்ணன், முலைப் பாலுடன் அவனுடைய உயிரையும் சேர்த்து உறிஞ்சிவிடுகிறான்)

மற்றோர் நாள், மாயச்சகடத்தை உடைத்து சகடாசுரனைக் கொண்று லீலை புரிகிறான். குழங்கத் கண்ணன் தொட்டிலில் படுத்து தன் பிஞ்சக் கையினுல் இளம் பாதத்தைத் தூக்கித் தம் திருவாயில் வைத்து ருசித்துப் பார்ப்பதாக வெளியில் காட்சி.

ஆனால். தன் முகத்தாமரையின் மகரங்கு ரஸத்தினால் கங்கையை சுறுமணம் கொண்டதாகச் செய்ய வேண்டும் என்பதே கண்ணனின் திருவுள்ளம் என்கிறார் கவி.

குழந்தை தவிழ்தல் என்ற காரணத்தைக்காட்டி அசரர்களால் துன்பப்பட்ட பூமியை மகிழ்விக்கிறான் மணிமயச் சுவர்களில் கோபத்தினால் நெறித்த புருவ நிழலீக்கண்டு யாரோ தன்ஜைப்பழிக்கிறுன் என்று கூறி யசோதையை மகிழ்விக்கிறுன். கண்ணு-மூச்சி விளையாடிடல் தன் கண்கள் பொத்தி இருக்கையில் அப்பொருள்கள் இன்னதென்று கூறி மகிழ்விப்பான்.

கோபஸ்த்ரி ஒருவள் தன்னைப் பிடிக்கவருவதை யறிந்து அவள் வீட்டிற்குள் நுழைந்து அவளுடைய கணவனின் வடிவம் கொண்டு உரையாடி மகிழ்விருன் கோபி கடைக்குச் சென்ற சமயம் தோழர்களுடன் பால் தயிர் வெண்ணை திருடி விளையாடு கிறான் குறும்பு செய்யாமலிருக்கவேண்டி யசோதையால் உரவில் கட்டப்பட்ட நிலையிலும், அவளுக்குத் தெரியாமல் நகர்ந்துசென்று இரு மருத மரங்களைச் சாய்த்து விடுவதை சாக்காக்க கொண்டு யமளார்ஜுனர்களை சாபத்தினின்றும் விடுவிக்கிறான். கோகுலத்தில் ஏற்படும் பயங்கர நிதழ்ச்சிகளைக் கருத்தில் கொண்டு கந்தன் முதலியோர் பிருந்தாவனம் குடியேறுகிறார்கள்.

பிருந்தாவன அழுகினைக் காணக்கென்ற பலராமனும் விருஷ்ணனும் வியப்புடன் உரையாடுகிறார்கள்.

பிருந்தாவனத்தில் மாமரங்கள் தம் தளிர்களால் குயில்களையும் மலர்களால் வண்டுகளையும், பழங்களால் வழிப் போக்கர் களையும் மகிழ்விக்கின்றன. செழிப்பான அர்ஜுன (மருத)

மரங்கள். அழுத்ததைப் பழிக்கும் இளைக்கொண்ட தென்னை மரங்கள், பெருத்த காய்களைக்கொண்ட பனைமரங்கள், செழிப் படைந்த நல்லோர் அடக்கத்துடன் வணங்கினிற்பது போன்ற நாவல் மரங்கள், இப்படி எத்தனை எத்தனை மரங்கள் !!

மலைமல்லிகை மலர்கள் நகூத்ரங்களோ !! இவைகளை மறைத்து மலர் நிறம்பி விற்கும் சம்பக மரங்கள், காட்டைப் பார்த்து மகிழ்வங்த மேருமலைகளோ !! என்றெல்லாம் ஊகிக்க வைக்கின்றன. யிக உயர்த்தில் இருந்தால் கோபிகைகள் தம்மைப் பெற்று சுவைக்க முடியாதே என்றெண்ணி நெல்லி மரங்கள் கருணையுடன் பழங்களைத் தரையில் உதிர்த்துத் தள்ளின. ஒங்கி வளர்ந்த வெற்றிலைக் கொடிகளாகிய அழகிய இளம் பெண் களால் அணைத்துக்கொள்ளப்பட்ட பாக்கு மரங்கள் பழுத்த கோவைப்பழப் பொலிவுகொண்ட பழங்களால் தம்முடைய மிகுந்த வேட்கையை வெளிப்படுத்துகின்றன. பாம்புகளின் சேர்க்கை கொண்ட சந்தனமரங்கள் வாளனாவி உயர்ந்து நின்று சந்திர மண்டலத்தைத் தொடுவதால் சந்திரனையும் பாம்புகளையும் அணி கலனாக்ககொண்ட சிவபெருமானை யொத்து விளங்குகின்றன.

பத்து வயதான பலராமன் கிருஷ்ணன் இருவரையும் பசுக்களை மேய்க்க நக்தகோபன் அனுப்புகிறான். பிருந்தாவனத்தில் தலையில் மயில்பீலி மார்பில் காட்டுப்பூமாலை கைகளில் வளையல் கள் இவைகளுடன் தன் பிஞ்சக்கைகளில் குழலை ஏத்தி கானம் செய்வதைக் காண வாளில் தேவர்கள் குழுயினர். கலற்றில் வரையப் பட்ட சித்திரம் போன்று அக்காட்டுப்பகுதி விளங்குகிறது.

அவ்வமயம் “சங்க”ருது தன் இயற்கை எழிலை அள்ளி வீசுவதைக்கண்ட கண்ணன் பலராமனிடம் கூறுகிறான். அண்ணா ! இதோ பர் ! மாபெரும் காளைகளைப் போன்ற வெண்மூகில்கள்.

முன் பருவத்தில் மழையைப் பொழிக்கு தமிழை நன்கு விளைச்சல் பெறச்செய்து தற்போது இளைத்துவிட்டனவே இந்த மேகங்கள் என்ற அங்கலாய்ப்புடன் தலைகுளிக்கு நிற்கும் கெற்பயிர்களின் பணியு தான் எத்தகையது! தன் கணவரான ஸமுத்திரம் மறூவிள்ளு வான் பிற ஆடவருடன் இருக்கக்கண்டு ஆறுகள் நான்த்துடன் மெள்ள மெள்ள கடலையடையும் அழகே அழகு. பின்னர் மாலைப் பொழுதில் இருவரும் தம் நண்பர்கள் சூழ ஆவினங்களுடன் வீடு திரும்பினர்

### சருக்கம் 3

மற்றோர் நாள் பலராமன் இல்லாமல் கண்ணன் மாடு மேய்க்கச் சென்ற சமயம் ‘காளியன்’ எனும் பாம்பரசன் வாழும் யறுளை யடுவில் குதித்து விளையாடத் தொடங்கிய கண்ணனை அரவரசன் வாலால் சுற்றிக் கட்டவே அதன் தலைமீது சின்று குதித்து விளையாடலானான். செருக்கு நீங்கிய காளியன் அம் யடுவினைவிட்டு வெளியேறினான்.

கோபாகளுடன் பச்க்களை மேய்க்கக்கென்ற சமயம் கழுதை உருக்கொண்டுவந்த தேஜுகாசாரனை பலராமனும், இடையச் சிறுவன் உருவத்தில் பழகிய பிரஸ்பனை கண்ணனும் கொன்று அனை வரையும் வியக்கச் செய்தனர்.

பின்னோர் சமயம் வசந்த ரூது தோன்றியது அதனைக் கவி வருணிக்கும் பாங்கினை நாம் வியங்கு இன்புறலாமல்லவா! மலைய மலையிலிருங்கு விழுங்கு கொண்டியாகிய தென்றல் காற்று வசந்தனின் புது எழிலை வேடிக்கைப் பார்த்துக்கொண்டு. கொடிகளுடன் விளையாடியவாறு அதன் மலர்களைச் சிதறச் செய்து கொண்டு பெண்களின் மெள்ளமையான நடையைப் பயின்றவன்னாம் வீசத்

தொடங்கியது. புது மொக்குகளால் தியானம் செய்பவளாகவும், மலர்க் கூட்டங்களால் புன்முறையில் செய்பவளாகவும், தளிர்களாகிய சுடர்களால் மணையாளைப் பிரிந்துவந்த வழிப்போக்கர்களை துன்புரச் செய்துகொண்டும் வண்டுகளின் ரிங்காரத்தால் பாடிக்கொண்டும், வசங்த ருது என்ற மாது காணப்படுகிறான் பறவைகள் [த்திலூர்கள்] இசைக்க; தளிர்களாகிய அக்ளி மூன்றிலையில் கொடிகளாகிய மணமகள் புஷ்பங்களாகிய நெற்பொறிகளைத் தூவ, அக்காட்டில் வளங்தலுடைய திருமணம் நிகழ்கிறது. உரத்த குரவில் அத்யயனம் செய்வதுபோன்று வண்டுகளாகிய பிரும்மசாரிக் கூட்டம் ஒவ்வொரு மலரிலும் மகரங்த பிழைக்கு அலைகின்றன.

காடு செழிப்பாக இருக்கவேண்டி வளங்தன் வனல்கள்மியை மணவியாகக்கொண்டு, தான் செய்யும் யாகத்திற்கு மன்மதனை பிரும்மாவாகவும், மேல் பஞ்சமத்தில் பாடும் குயிலை ஹோதாவாகவும், வண்டினை உத்காதாவாகவும் அமர்த்திக்கொண்டு புஷ்பம் எனும் ஸ்ருக்கினால் ("ஸ்ருக்" யாத்தில் நெய்யை அக்ளியில் ஹோமம் செய்யப் பயன்படுத்தும் மரக்கரண்டிபோன்றது) அத்வர்யுவான தென்றல் காற்று, தளிராகிய அக்ளியில் மகங்தமெனும் நெய்யினை வார்க்கிறான். அப்போதே மலர்க்க சம்பங்கி மலர்களின் மஞ்சள் விற மகங்தத்துகள்களும், மாலதீ மலர்களின் வெண்ணிறப் பொடிகளும், செம்பஞ்ச புஷ்பங்களின் சிவப்புப் பொடிகளும் வான்த்தை மூன்று கிறங்களைப் பேரச்செய்கின்றன.

கண்ணனும் பலராமனும் ஆயர்பாடிச் சிறுவர்களுடன் பிருங்தா வனத்திற்கு மாடு மேய்க்கச் சென்று, அங்கு தம் பேச்சுக்களாலும் விளையாட்டுக்களாலும் அனைவரையும் மகிழ்வித்து வருங்கால் கிரிஷ்மருது தோன்றுகிறது

தன் சிரால் வளர்க்க கரையிலுள்ள மரங்களைப் பார்த்து குளங்கள் கோடையினால் தன்னை அவமதிக்கப்பட்டதாக உணர்ந்து

இரக்கத்தால் இளைக்களாயின, மன்மத பாணங்களால் மிகவும் வருத்தப்பட்ட குலப்பெண்டிர் தம் கணவனை நெறுங்குவதுபோன்று சூரிய கிரணங்களால் தாபங்கொண்ட ஆறுகள் சீர்க்கண்டி இளைத்துக் கடலை மெள்ள மெள்ள அடைகின்றன. தண்ணீர்ப் பந்தலை யடைஞ்த வழிப்போக்கர்கள் அங்கு சியமிக்கப்பட்டிருந்த கன்னிகை களால் அளிக்கப்பட்ட சீரால் திருப்தியடையாமல் அவர்கள் முகத்தைத் தம் கண்களால் நேரக்கியவாறு மனங்கிறவைப் பெறுகின்றனர். காற் றெனும் மாந்தரிகளால் போடப்பட்ட துளிகளாகிய விழுதிகளால் (திருக்கீறு) பொல்லாப் பிசாக பிடித்ததுபோன்று மரங்கள் தம் தலை களை ஆட்டி அசைக்கின்றன.

ஆயர்பாடி மக்கள் தம் நலன்வேண்டி ஆண்டுதோறும் இந்திர விழா எடுப்பர் அதேபோன்று ஒரு சமயம் அதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்வதைக்கண்ட கண்ணன், தேவாஜனுக்கு செய்யவிருந்த பூஜையை கோவர்தன மலைக்குச் செய்யுமாறு மாற்றிவிடுகிறான். அதனைப் பொறாத இந்திரன் அனைத்து மேகங்களையும் ஏவி யழையைப் பொழிவிக்க, கண்ணன் தன் சண்டு விரலால் கோவர்தன மலையைக் குடையாகப் பிடித்து கோப கோபிகளையும் பக்கட்டத்தையும் காத்தருளுகிறான்.

#### சருக்கம் 4

சூரியன் அஸ்தமனம் (மறையும் சூரியன்பற்றி) வருணிக்கப் படுகிறது. ஆதித்யன் விடியற் காலையில் கிழக்கு சமுத்தீரத்திலும் நண்பகலில் கங்கையிலும் சீராடி, மாலை சீராட மேற்குக் கடலை அடைகிறான். இரவு சூழவே, தூங்கும் காக்கைக் கூட்டங்களைத் தம் கூவுதலால் பயறுறுத்திக்கொண்டு விழிப்புற்ற ஆங்கைக் கூட்டங்கள் சஞ்சித்தன அஸ்தமனமாகும் சூரியனுடைய கிரணங்களைப்பெற்ற வீட்டு விளக்குகள் இருளைப் பருகி, “மை” -எனும் வியாஜத்தில்

அதனைக் கக்கின. இங்கிலையில், வானத்தில் பட்டப்பகலெனத் தம் அழுத கிரணங்களை வீசியவாறு சந்திரன் உதிக்கலானான். இருட்டால் கருத்த திசைகளைத் தன் நிலவெனும் கண்ணாம்பினால் சந்திரன் வெள்ளையடிக்குங்கால் சிதறிய திமிலைகளே வானில் நடசத்திரங்களாக ஒளிர்கின்றன காற்றில் அசையும் குழுத மலர்களில் அமர்ந்த வண்டினங்கள் ஊஞ்சலாடி மகிழ்கின்றன.

பிருந்தாவனத்தில் கோபிகைகளுடன் கண்ணான் ராஸ்கிரீடை செய்து மகிழ்கிறான். அதனை தேவர்கள் வானிலிருந்தவண்ணம் ரசித்து மகிழ்கின்றனர் சிருங்கார ரஸம் ததும்பும் அரிய ராஸக்கீடை பற்றிய கருத்துக்களை விளக்கமுற எழுதுவது கடினம் என்பதால் தவிற்கப்படுகிறது

## சருக்கம் 5

இப்பகுதியில் சூரியோதயம் வருணிக்கப்படுகிறது தன் கணவனன்றி சூரியகிரணமாகிய கை தீண்டியதும் மாற்றான் தொடுவதாக உணர்ந்த குழுதமலர்கள் குவிந்து காணப்படுகின்றன.

விடியற்காலையில் பசஞ்சாணத்தால் அழுஙை மெழுகப்பட்ட வீடுகள், அவ்வீட்டுத் தலைவியின் பச்சைகற் பதித்த ஆபரணங்களால் மேலும் பச்சை நிறத்தைப் பெறுகின்றன தெரு முழுவதும் கோபிகைகள் தயிர் கடையும் இன்ப ஒலி கேட்கிறது. தொடர்ந்து கோபர்கள் தொழுவத்தில் பச்க்களை கவனித்தலையும், கோபிகைகள் தம் வீட்டுக்காரியங்களையும் செய்யலாயினர்.

இரு நாள் கம்சனால் அனுப்பப்பட்ட “கேசி” எனும் அசுரன் குதிரைவடியில் பிருந்தாவனம் வரவே அவனைக் கண்ணன் கொள்று விடுகிறான். இச்செய்தியறிந்த கம்சன் கோகுலத்தில் வாழும்

உண்ணனையழைத்து மதுரைகள் வரவேண்டி அக்ரூரை அனுப்புகிறான். நல்ல நண்பகல் கேரம், சூடான மதுவை அருந்தாமல் வண்டினங்கள் தவிக்கின்றன மான்கள் பசுமையான புற்களை மேயாமல் மருசிழிலில் ஒதுங்குகின்றன.

அக்ரூர் நந்தகோபன் வீடு அடைகிறார். அவர் அங்கு நல்லமுறையில் வரவேற்கப்பட்டு மகிழ்கிறான். பின்னர் பலராமன் கிருஷ்ணன் இருவரையும் தம் தேரில் ஏற்றிக்கொண்டு மதுரை புறப்படுகிறான் அதுகண்ட கோபிகைகள் மனம் நொந்து புலம்புகின்றனர். தம்மிடமிருந்து கிருஷ்ணனைப்பிரித்து அழைத்துச் செல்லும் கொடிய (க்ரூரச்) செயலைச்செய்யும் இவர் “அக்ரூர்” (மென்மையானவர்) என்று எப்படி அழைக்கப்படுகிறார் என்று கோபியர் கோபவயப்பட்டனர். கண்ணனின் பிரிவைப் பொறாத சிலையில் சந்திரனைக் கண்டு அவனை நின்திக்கத் தொடங்குகிறார்கள். பாற்கடலில் தோன்றியும் மலைமகள் கணவரின் திருமுடியில் குடப்பெற்றும், கற்பக மரங்களைத் தன் உடன் பிறப்பாக அடைங்தும், இலக்குமியைத் தங் நகயாகக் கொண்டும் ஏன் அபகூச ஜாகிய எங்களை வருத்துகிறாய்? உன்னை ஏன் சீவபெருமான் தன் மூன்றாவது கண்ணால் சாம்பலாக்காமல் விட்டு வைத்துள்ளார்? மாமனுரான தகூன் சபித்தும் கீ ஏன் ஓழியவில்லை? கீ அன்று கொடிய ஆலாஹுல் விஷத்துடன் பிறந்தவன்தானே! உனக்கு எவர் தான் அழுதகிரணங்களையுடையவன் என்று பெயரிட்டனரோ! எங்கள் மார்பகங்களைத் தாய்ரை மொக்குகள் என்றும், பின்னல்களை பாம்பு (ராகு) என்றும் நினைத்துக்கொண்டு எங்களை வருத்தாதே.

இவ்வாறு சந்திரன் மீது கொண்ட கோபம் சுட்டென இவ்விராஹதாபத்திற்குக் காரணமான மன்மதன் மீது பாய்கிறது. காமனைத்திட்டுகின்றனர். ஏ மன்மதனே! மலர்களைக்களைகளாகவும், கரும்பிளை வில்லாகவும் ஏற்று எங்களைத்தாக்குகிறாயே; உனக்கு

உறுதியான ஆயுதங்கள் அமைந்தால் என்ன தான் செய்ய மாட்டாய்? தவறான காரியம் செய்த நீ, உலக நலனில் விருப்பங்கொண்ட சிவபிரானுல் எரிக்கப்பட்டாய். அப்படியே நீ அழிந்திருந்தால் எவ்வளவு உதவியாக இருக்கும். தகுதியற்ற உன் விஷயத்தில் பார்வதி கருணையைக் காண்பித்து உன்னைப் பிழைக்க வைத்தது மாபெருங் குற்றமாகிவிட்டது. ஏ காமனே! நீ உண்ட வீட்டிற்கு இரண்டாகம் சினைக்கும் கொடியவன் - துரோகி! எந்த மனதிலிருந்து நீ பிறங் தாயோ, அதுணையே தபிக்கச் செய்கிறாயே? உன்னிடமிருந்து ப்யங்த சிவபெருமான் தன்பாதி உடலில் மலைமகளையும், திருமால் மார்பில் அலைமகளையும் பிரமன்ஙாக்கில் (வாக்கில்; கலைமகளையும்) வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். பாவம்! மும்ஞுர்த்திகளுக்கே இந்த கதி !!

இங்கேரம் தென்றல் காற்று சுகமாக வீசகிறது. கோபிகைகளின் விரலுதாபம் மேலும் வளர்கிறது. அவர்கள் அவ்விளங்காற்றைச் சாடுகின்றனர். ஏ தென்றலே! அன்றொருநாள் கடவில் அணைக்கட்ட குருங்குகள் எத்தனை எத்தனை மலைகளைப் பெயர்த்தன! அவைகளில் மலயமலை எனும் உன்பிறப்பிடத்தையும் கொண்டு கடவில் தள்ளியிருக்கக்கூடாதா? இரக்கமற்ற நீ எங்களைப் பெரிதும் துயரப்படுத்துகிறாயே. வேதங்கள், (வாயு; சுற்றிலிருந்து நெருப்பு தோன்றியதாகக் கூறுகின்றன அது முற்றிலும் உண்மைதான் என்பதை உணருகிறோம். இப்படி ஏங்கினிற்கும் நிலையிலும் கோபிகைகளுக்கு தம் பக்கத்தில் கண்ணன் இருப்பதாகவே ஓர் மயக்கம் இவ்வாறாக இன்பமாகத் தமக்குத்தாழே உரையாடிக்கொள்கிறார்கள் அந்தோ! பாவம்! என்னே அவர்களின் பரிதாப சிலை!

## சுருக்கம் 6

அக்குராருடன் தேரில் செல்லும் கண்ணன் பலராமனிடம் அதுசமயம் தோன்றிய ஹேமாந்தருதுவை (பணிக்காலம்) வருணிக்கிறார்.

தாமரையின் சிதைவுக்குக் காரணமான பளி தம் முகத்தாமரை மீது படாமலிருக்க மெல்லிய முக்காடுகளை அழகிகள் பயன் படுத்துகின்றனர். ‘அதிகமான எழுச்சியடையும் ஒருவன் பின்னென்ற சமயம் ஓர் வீற்ச்சியைத் தழுவுவான்’ என்ற சியதிப்படி சரத்தருதுவில் மிகுங்க எழில் கொண்டிருந்த சந்திரன், ஹேமங்தருதுவில் மங்கலான ஒளியுடன் காணப்படுகிறான்.

மதுரை நகர் செல்லும் வழியில் யழுனை குறுக்கிடுகிறது. அக்ரூர் தேரில் ராமகிருஷ்ணர்களை அமரச்செய்து விட்டு யழுனையில் சீராடுகிறார். மூழ்கியதும் கீரிஜுள் பாற்கடலில் பள்ளிகொள்ளும் நாரணனைக்காண்கிறார். அவனை அருமையான சூலோகங்களால் பத்து அவதாரங்களின் சிறப்பைக்கூறித் துதிக்கிறார். பின்னர் தேர் ஏறி மதுரை மாங்களில் நுழைகிறார்.

நகரின் அழிகினைக் கண்ணன் பலராமனிடம் வியங்கு பாராட்டுகிறான். அன்னா ! மதுரா நகரைப்பார். விச்திய மலைகளைப் பழிக்கும் மாடு கோபுரங்கள். தோட்டத்துக் கொடிகள் கண்ணேரமும் ஓய்வின்றிப் பணியாற்றிக் கணைத்த சூரியனை அசைந்து விசிறியென வீசி குளிரச் செய்கின்றன. ஜலத்தை சேகரிக்க விருந்தும் மேகங்கள் கடலினுள் விளையாடுவது பேன்று இங்கர அகழிகளில் கருத்த முதலைகள் விளையாடுகின்றன. இந்திரனுடைய நார் அமராவதி இம்மதுரைக்கெதிரில் எம்மத்திராம் ?

இவ்வாறு வியங்கு பேசியவண்ணம் தெரு வீதியில் இருவரும் சென்றுகொண்டிருக்கின்றனர், கம்ஸனுக்குத் துணி வெளுத்துத்தரும் சலவைத் தொழிலாளியிடம் புதிய ஆடைகளை உடுத்திக்கொள்ளக் கேட்கிறான் கண்ணன். தரயறுத்த அவனைக் கொண்டு கர்வத்தை யடக்குகிறான். பின்னர், வழியில் அரசனுக்கு மாலைகளைக் கட்டிச் செல்பவனைக் கண்ணன் அனுகூகிறான். அந்த மாலா காரண தாம் எடுத்துச்சென்ற மலர் மாலைகளைக் கண்ணனுக்குச்

குடிய மகிழ்ச்சிரான். தொடர்ந்து செல்கையில், கம்ஸனுக்கு மணம் பொருந்திய சந்தனக்குழம்பினை எடுத்துச் செல்லும் கூனியினால் பூசப்பட்ட சந்தனத்தை ஏற்று மகிழ்ச்சி கண்ணன் அவனுக்கு அருள் பாலிக்கிறான். மதுரா மக்கள் தாம் கண் படைத்த பேற்றினைப் போற்றி ராம-கிருஷ்ணர்கள் வீதியில் பவனி வருவதைக் கண்டு களிக்கின்றனர்.

மாமன் கம்ஸனின் அரண்மனை வாயிலை அடைங்து அங்கு நிறுத்திவைக்கப்பட்டிருந்த ‘குவலயாபீடம்’ என்ற யானையை அதன் தந்தத்தையே பிடுங்கி வதம்செய்து யானையைப் பாக்னையும் கொன்று கண்ணன் தன் அண்ணனுடன் விளையாட்டு மைதானத்தை அடைகிறான். அங்கு “சானுரான் - முஷ்டிகன்” எனும் இரு மாமல்லர்களை வீழ்த்தி மதியச் செம்கின்றனர். பின்னர் மஞ்சத்தில் அமர்ந்து பார்த்துக்கொண்டிருந்த கம்ஸனைக் கீழே தள்ளி கண்ணன் அவன் மார்பினைத் தாக்கிக் கொன்றுவிடுகிறான். மதுரைவாழ் மக்கள் மட்டுமல்ல, வானுலகத் தேவர்களும் இதனைக் கண்டு மட்டிலா மகிழ்ச்சியடைகின்றனர். உக்ரஸேனன் மீண்டும் அரசனாகப்படுகிறார்.

## சுருக்கம் 7

தேவேந்திரனுடைய சிபையரன் “ஸாதர்மா”வை பூவுலி கிறுக் கொண்டுவருமாறு கண்ணன் வரடிபகவானையைப் பணிக்க, இந்திரன் இசைவுபெற்று அவ்வாறே செய்கிறான். இதனால் சவர்க்கோகத்தில் கர்ம தேவர்கள் விமானங்களில் சுஞ்சரித்து, இறங்க வேண்டிய இடம், விமானம் செல்லும் திசை, இவைகளை அறியாமல் தவிக்கின்றனர். காமதேனு, கற்பக மரங்கள் சவர்க்கத்தில் இருக்க, கடைவீதிக்கான வழியைக்கேட்டு சலிப்படைகின்றனர். இப்படிக்கிருஷ்ண வீலையில் பூலோகமே தேவலோகமாகக் காட்சி யளிக்கிறது.

பலராமன், கண்ணன் இருவருக்கும் உபயனம் நடக்கிறது. கல்விகற்க சாந்தீப முனிவரிடம் அனுப்பப்படுகின்றனர் “குருகுல வாஸம்” முடிந்ததும் கிருஷ்ணன் தம் ஆசிரியரின் மனைவியின் விருப் பத்திற்கிணங்க இந்த குருபுத்திரனை மீட்டு தகழினையாக அளிக்கிறான். பிரபாஸ கோத்திரத்தில் கடவினுள்ளிருந்து குருபுத்தரனைக் கடத்திக்கொண்டு சென்ற பஞ்சஜனனைக் கொன்று அவனுடைய வீரசின்னமான ‘பாஞ்சஜன்யம்’ எனும் சங்கினைப் பெற்று கண்ணன் வீடு திரும்புகிறான்.

### சருக்கம் 8

கம்ஸன் இருந்த செய்தியை ஒற்றர்கள் வாயிலாகக் கேட்டறிந்த ஜாசங்தன் தன் மந்திரிகளிடம் கூறுகிறான் : “எளியவனாக இருப் பினும் பகைவன் கால் ஊன்றியிட்டால் அவனைப் பிறாட்டு அரசன் அழிபது கடினம். உடல் முழுவதும் விஷம் பரவிவிட்ட நிலையில் மருத்துவ சிகித்தை பயனளிக்குமா? மாபெரும் வீரனிடம் நான் தோல்வியடைந்தால் இழிவல்ல. ஆனால், ‘இடையச் சிறுவன் ஒருவன், என் நண்பனும் மைத்துனனுமான கம்ஸனைக் கொன்றான்’ என்பதை நான் பொறுக்கமாட்டேன் கிருஷ்ணனிடம் எாம், தான் முறைப்பயனளிக்காது. தண்டோபாயமே சிறங்தது ‘எனக் கருதுகிறேன். மந்திரிகளுடன் கலங்கு முடிவெடுக்காத அரசன் மேன்மையை அடைவது எங்ஙனம்? ஆகவே, அமைச்சர்களான கீங்கள் எனக்குத் தக்க ஆலோசனைக் கூறுவேண்டும்’ என்று.

அமைச்சர்களில் ஒருவனான சுமதி என்டவன் அரசன் கூறி யதைக் கேட்டு புத்திமதி கூறுகிறான். அரசே! உண்மையான தீதியை அமைச்சர் என்ற முறையில் நான் கூறக் கடமைப்பட்டுள் ளேன். அரசனின் கருத்துக்கு மாறாக, அவனுடைய கோபத்தையும்

பொருட்படுத்தாமல் நீதியைக்கூறும் அறிவாளியே உலகில் போற்றப் படுகிறான். கண்ணனிடம் வீணாகப் பகைமைகொள்ளவேண்டாம். பூதனை, சகடாசுரன், தேனுகன், ப்ரலம்பன், கேசி போன்றவர்களை விளையாட்டாகக் கொன்ற கண்ணனைச் சாதாரணைச் சிறுவனாகக் கருதாதீர்கள். நீதி தவறி கபடமாகத் தன்னைக் கொலை செய்ய முற்பட்ட கம்லனைக் கண்ணன் கொன்றது தவறா? அவன் தன்னைக் காத்துக்கொள்ளவே அவ்வாறு செய்தான். தாங்கள் அவனுடன் போர் புரிந்தால், மக்கள் அனைவரும் கண்ணன் பக்கலில்தான் நிற்பர். கடவுள் மூழ்கி இறந்த குரு புத்திரனைப் பல்லாண்டுகளுக்குப் பின்னர் உயிர்ப்பித்தளித்த கிருஷ்ணனை சாமான்யாக டைபோடாதீர்கள். வாயு பகவானைக்கொண்டு தேவசபையையே பூவுலகத்திற்குக் கொண்டுவந்த கண்ணனுடைய ழீரத்தைக்கண்டும் அவனுடன் போரிடுதல் என்பது சற்றும் தகுந்ததல்ல. அவனுடைய கட்டே தங்களுக்குப் பல கன்மைகளைத் தந்துதவும். அடியேனுடைய விண்ணப்பத்தை ஏற்றருளவேண்டும் - என்று சுமதி கூறிய புத்தி மதியைக் கேட்டு சினங்கொண்ட ஜாராசந்தன் அவனைக் கடிட்டு பேசி போருக்கு ஆயுதத்தாதிறான்.

## சுருக்கம் 9

மகத மன்னன் ஜாராசந்தன் கண்ணனுடன் போர் தொடுக்க வேண்டி நான்கு வகைப் படைகளுடன் புறப்படுகிறான். இவ்விவர மறிந்த கண்ணன் போருக்குத் தயாராகுமாறு மன்னன் உக்ரசேனரைப் பணிக்கிறான். ஜாராசந்தன் தூது விடுக்கிறான். பலராமனுடன் கிருஷ்ணன் போருக்குப் புறப்படுகிறான். பேரிகைகள் முழுங்கு கிள்ளன. கடுமையான சண்டை நிகழ்கிறது இரத்தம் ஆறாகப் பெருக்கெடுத்தது. ஒருவருக்கொருவர்மீது பல்வகை ஆயுதங்களையும், அஸ்திரங்களையும் தொடுக்கின்றனர். போர்க்களத்தில்

எங்கும் பின்குவியல், வானத்தில் கழுகுக்கூட்டம். ஜாராசந்தன் தன் முழுமுயற்சியுடன் கிருஷ்ணனைத் தாக்குகிறான். வாசுதேவன் தம் எதிரியின் தேரோட்டியைக் கொன்று தேரின் அச்சு கொடி, சக்ரம், ஏர்க்கால் இவற்றை முறித்துவிடவே இருவரும் பூயியில் சின்று கதாயுத்தம் செய்கிறார்கள். இறுதியில் கண்ணன் எடுத்த சக்ராயுதத்தைக்கண்டு பயங்கு ஜாராசந்தன் தன்னுயிரைக் காத்துக் கொள்ள வேண்டி ஓடிவிடுகிறான். மீண்டும் தயாரித்துக்கொண்டு போர்க்களம் புகுகிறான். இப்படிப் பதினெட்டுமுறை பேர்புரிச்தும் கிருஷ்ணனை வெல்லமுடியாமல் ஜாராசந்தன் தன் மங்திரி சுமதி கூறிய நன்மொழிகளை நினைத்துப்பார்த்து நகரிலிருங்கே வெளி யேறிவிடுகிறான். கண்ணன் பாஞ்சஜன்யத்தை ஊதியவண்ணம் வெற்றி வாகைகுடி மதுரைமாங்கர் நுகழுகிறான்.

**தனக்கேற்பட்ட தோல்யினால் அவமானங்கொண்ட ஜாராசந்தன் காலயவனனைப் போருக்கு அனுப்புகிறான்.** யாதவர் களுக்கு அடிக்கடி ஜாராசந்தனால் ஏற்படும் தொங்தரவுகளைக் கருத்தில் கொண்டு இதற்கிடையில் கண்ணன் கடல் நடுவில் எவரும் நெருங்க முடியாத துவாரகைத்தீவை நிர்மாணித்து யாதவர்களைக் குடியேற்றுகிறான் மதுரை திரும்பிய கண்ணன் காலயவனால் காரம் முற்றுஉலையிடப்பட்டிருப்பதைக் கண்டு, பயங்கு ஒடுவது போன்று நடித்து, ஓர் குகையினுள் புகுஞ்சுவிடுகிறான். குகை வாயிலில் ஓய்வுகொண்டிருங்க முசுங்கனை காலயவனன் தன் காலால் உதைக்க, அதனால் கோபமுற்ற முசுங்கன்கையால் மரணத்தைத் தழுவுகிறான்.

சில ஆண்டுகள் ஓடின. பலராமன் ஒருசமயம் தன் உறவினர் களைக்காண கோகுலம் செல்கிறான். அங்கு கோபிகைகளை சமாதானம் செய்து அவர்களுடன் விளையாடி மகிழ்கிறான். ஐலக்கிரிடைசெய்ய விரும்பி அருகில் நீர்சிலையும் ஏதுமில்லாததால்

யழனையாற்றை அழைக்கிறான் அவ்வாறு வாததுகள்டு சீனங் கொண்ட பலராமன் தன் ஏர்க்கலப்பையினால் யழனையை இழுத்து அருகில் ஒடச்செய்து, அதில் கோபிகைகளுடன் நீராடி விளையாடி மகிழ்கிறான். பின்னர் பலராமன் துவாரகை திரும்பி ரைவதகன் மகளான ரேவதியை முறைப்படி திருமணம் செய்துகொண்டு மகிழ்கிறான்.

## சருக்கம் 10

விதர்ப் நாட்டு மன்னன் பீஷ்மகன் தன் மகள் ருக்மிணியை கண்ணலுக்குத் திருமணம் செய்விக்க விரும்புகிறான் அதனை ஏற்காத மகள் ருக்மி தன் நண்பன் சீசுபாலனுக்கு ருக்மிணியை மணம் முடிக்க ஏற்பாடு செய்கிறான்.

கிருஷ்ணனிடமே மனதைக்கொடுத்த ருக்மிணி ஓர் அந்தணர் மூலம் கிருஷ்ணனுக்குத் தூது அனுப்புகிறான். கண்ணலும் அதனை ஏற்று திருமண நாளில் கெளீ வழிபாட்டிற்குச் சென்று திரும்பும் ருக்மிணியைத் தேரில் ஏற்றிக்கொண்டு துவாரகை செல்லத் தொடங்குகிறான். இடையில் எதிர்த்துப்போரிட்ட ருக்மியை வென்று தன் நகரயடைஞ்சு முறைப்படி திருமணம் செய்துகொள்கிறான்.

முன்பு சீவபெருமானால் கூட்டுரிக்கப்பட்ட மன்மதன் ருக்மிணியின் புதல்வனாகப் பிறக்கிறான். அவன் ப்ரத்யுமனன் என்று பெயர் குடப்பெறுகிறான். அவன் சம்பாசுரனைக் கொன்று மாயாவதியை மணந்துகொள்கிறான்.

கிருஷ்ணன் ஜாம்பவானுடைய மகள் ஜாம்பவதியையும், ஸத்ராஜித்தின் மகள் ஸத்யபாமாவையும் மணந்துகொள்கிறான். குரியன் குமாரத்தி காளிக்கீதி, ராஜாதி தேவியின் மகளான மித்ரவிந்தா,

கோசலநாட்டரசன் கண்ணித்தின் புத்ரீயான ஸத்யா, சுருதகீர்த்தியின் பெண் பத்ரா, மத்ராதிபதி யின் மகள் வகுமணை இவர்களையும் கண்ணன் மனங்கு கொள்கிறான்.

பிராக்ஜோதிஷபுரத்தைத் தலைகாராகக் கொண்டு யூமி தேவியின் மகன் நாகன் அரசாண்டு தேவர்களையும் வெற்றி கொள்கிறான். தேவர்கள் வேண்டுகோளை ஏற்று கிருஷ்ணன் கருடன் மீது ஸத்யபாமாவுடன் சென்று பல கோட்டைகளைத் துகளாககிப் போர் தொடுக்கிறான். தாக்க வங்க நாகனை கிருஷ்ணன் சக்கராயுதத்தினால் வெட்டி வீழ்த்துகிறார். கொடியவனுன நாகனால் சிறைப்படுத்தப் பட்டிருந்த பதினாறுமியர் அரசுகுமாரிகளைக் கண்ணன் விடுவித்து அவர்களுக்கு வாழ்வளித்தான். பின்னர், தேவலோக மடைந்து நாகன் கவர்ந்து சென்ற அதிதியியன் இரு காதணிகளை அவளிடமும், வெண்குடை, இரத்தினம் இரண்டையும் தேவேந்திர னிடமும் திருப்பிக்கொடுத்து ஸத்தியபாமாவின் விருப்பத்தை ஏற்று அங்கு விளங்கிய பாரிஜாத மரத்தை எடுத்து வங்கு துவாரகையில் பூங்தோட்டத்தில் நட்டுவிடுகிறான்.

சோணிதபுரியைத் தலைகாராகக்கொண்டு ஆட்சி செய்யவனுன பாணுகரன் மகள் உடோ, கணவில் பிரத்யும்னன் மகனுன் அனிருத்தனைக்கண்டு அவனை மனக்க விரும்புகிறார் சித்ரலோக என்பவளின் வாயிலாக அவனிருவரும் இணைங்கு இன்புறுவதைக் கேட்டறிந்த பாணுகரன் அனிருத்தனை காக பாசத்தால் கட்டிவிடுகிறார். கண்ணன் பாணுகரனுக்கிருந்த ஓராயிரம் கைகளில் காள்கினை மட்டும் விட்டு வைத்து அவனுக்கு வாழ்வளிக்கிறான்.

பின்னர் ‘நானே உண்மையான யாசதேவன்’ என்று கூறிக் கொண்டு செறுக்கேறி நின்ற பெள்ளட்டரகளைக் கிருஷ்ணன் கொன்று முடிக்கிறார். அவனது நண்பன் காசிராஜன் எதிர்த்துப் போர் புரியவே அவனையும் கிருஷ்ணன் கொன்று காசி ராகரையே எரித்துவிடுகிறான்.

ஜாம்பவதிடயிம் பிறந்த ஸாம்பன் துரியோதனனின் மகளைக் கவர்ந்து செல்வதையறிந்த கௌரவர்கள் எதிர்க்கின்றனர். பின்னர் ராமகிருஷ்ணர் ஸாம்பன் தம்பதியை விடுவிக்கின்றனர் தன் அவதாரகாரியங்களைச் செய்து முடித்த கண்ணன் ஒருவர்க்கொருவர் தமக்குள் ளேயே போரிட்டு மடியுமாறு யாதவர்களைச் செய்து, பலராமனை முதலில் தம் படுக்கையாகப் பாற்றச்சூலுக்கு அனுப்பிவைக்கிறார் பலராமன் ஆதிசேஷனுகி பகவானின் வருகையை எதிர் நோக்கி நிற்கிறான்.

பரந்தாமனும் தாமெடுத்த பூதவுடலை உதரித்தன்னி நான்கு கைகளுடன் பீதாம்பரம் உடுத்தி. வைஜ்யங்திமாலையணிந்து கெள்ளுப மணியணிந்து இலக்குமியிடன் பரமபதம் எழுந்தருள விமானத்தில் புறப்படுகிறார். பக்கவிலிருந்த மனைவிக்கு விமானத்தி விருத் வண்ணம் ஓவ்வோர் நிகழ்ச்சியும் நடந்தவிடங்களைக் காண்பித்துக் கொண்டு கிருஷ்ணன் தன் சொந்த ஆஸ்தானத்தை யடைந்து விளங்குகிறான். நான்முன், சிவபெருமான், இங்திரன் மற்றும் அனைவரும் நாராயணனை வெகுவாகப் பாராட்டி மகிழ்ச்சின்றனர்

### பு.டி.வு.ஏ

தேவர்களின் வேண்டுகோளை ஏற்ற மும்நாராயணன் ஒருந்தி மகனுயப்பிறந்து ஓரிரவில் மற்றொருந்தி மகனுய் ஒளிந்து வளர்ந்து மனதைக் கொள்ளலை சொன்னாகும் பாலலீலைகளைச் செய்து, ஆயர்பாடிச்சிறுவனுக மாடுமேய்த்து, பிருந்தாவனத்தில் வேணுகானம் ராஸ்கிரிடை, போன்றவற்றை நிகழ்த்தி, கம்ஸனால் அனுப்பப்பட்ட அசாக்களையும் மற்றும் பற்பல துவ்டர்களையும் களைந்து வீரச்செயல் புரிந்து, ருக்மிணி முதலிய பிராட்டிமார்களுடன் மகிழ்ந்திருந்து, பாரதப் போருக்கு சூத்ரதாராகி அர்ஜுனனுக்கு பகவத்கிதையை

உபதேசித்து, கெளரவர்களை அழித்து பாண்டவர்களை அல்தினா புரமாளச்செய்து, தர்மபுதர் பட்டாபிஷேகத்தைத் தன் தலைமையில் நடத்திவைத்து, சிகபாலன் தங்கவக்திரனைக்கொள்ளு, பூபாரத்தைக் குறையுமாறு செய்து, அவதார காரியங்களைச் செவ்வனே செய்து முடித்து பரமபதம் திரும்புகிறான் என்ற உலகபிரசித்திப்பெற்ற கதையை மூல நூலான பூந்த பாகவதத்தைத் தழுவியே தனக்கென ஓர் தனி வழியினை மேற்கொண்டு இந்நூலாசிரியர் இந்த முனுத விலாஸத்தை இயற்றியுள்ளார்.

### நூலின் தனிச்சிறப்பு

மிகப் பழைய கதை கண்ணன் கதை. அதனை நாம் எத்தனை பெரியோர்கள் மூலம் எவ்வளவு முறை கேட்டிருக்கிறோம்? மல்வேறு மொழிகளில் புத்தக வடிவிலும், வானேலி தூரதர்சனம் பேரன்ற ஈனீ சாதன மூலமும், பழகிப்போன கதையையே சுருவாக்ககொண்டு நமது கலி பத்து சருக்கங்களில் கிருஷ்ண கதையை எழுதுகிறோன்; நாமும் அதனைப்படித்து இன்புறுகிறோம். காரணம், அது அழைக் குள்ள அழகே! மிகபிக எளிதான் சொற்கள். இனிமையான விருத்தங்கள், கற்பளைவளம், பொருட்சிறப்பு இப்படி எத்தனை எத்தனை அம்சங்கள்! பொதுவாக கவிஞர் இயற்கை அழகு, பருவங்களின் எழில் போன்றவற்றை வருணிக்கும் பாங்கு மிகவும் மிகைப்படுத்திக் கூறப்பட்டாக இருக்கும் - சிந்தனைக்குச் சுவையுட்டுவதாகவும் இருக்கும். இதுபோன்றவற்றை மெழுப்புல்ளை யற்றவர்கள் பழக்க முன்வராதது இயல்லே. ஆனால் அத்தகையோரும் மொழிப்பயிற்சி பெறத் தாண்டுவதற்கென்றே தமிழில் இக்காப்பியக் கருத்துக்கள் தரப்பட்டுள்ளன.

கற்கீருக்களுக்கும் இத்தனை சிறப்புமிகு ஜயங்களை ஆழித்து சிந்திக்க சிலசமயம் அசட்டைதோன்றுவது இயல்ல. இங்கிலையில்

சற்றும் அலுக்காமல் படித்து மகிழ இக்காப்பியம் நம்மை தூண்டுவதே இதன் தனிச்சிறப்பு. முழுநூலில் காணப்பெறும் கதைப்பகுதி வருணைகளில் சீலபகுதி மட்டுமே தமிழில் சுருக்கிக் கொடுக்கப் பட்டுள்ளது. முன்னுரையில் கூறப்பட்டவாறு இங்நூல் காவிய ஸ்கஷணங்கள் அனைத்தும் கொண்டுவிளங்குகிறது. இங்தநூல் ஸம்ஸ்க்ருத மொழி பாடநூலாகப் பள்ளிகளிலும், கல்லூரிகளிலும் வைப்பதற்கு ஏற்றவாறு - சிறிய விருத்தங்களுடனும் (சந்தங்கள்) எளிய சொற்களுடனும், சுருத்தாழிமுடனும் அமைந்துள்ளது.

இங்நூலாசிரியர் - கவி பகவந்தர் இயற்றிய வேறு இரு நூல் களை நமது நூல்களையம் முன்னரே பதிப்பித்து வெளியிட்டிருக்கும் நிலையில், அவருடைய முன்றுவதான இங்நூலை வெளியிடுவதன்மூலம் ஒரு கவியினுடைய அனைத்துப் படைப்புக்களையும் அறிஞர் உலகம் படித்தின்புற உதவியாக அமையும். மேலும், இவ்வாசிரியர் நம் தஞ்சை அரசர் தொடர்புள்ளவர் என்பதால், நம் நூல் நிலையம் இவரை வெளியிடக்குதிற்கு அறிமுகப்படுத்திப் பெருமைகொள்வது பொருத்தம் தான் !

### இந்நூலைப் பதிப்பித்துள்ள முறைபற்றி

தஞ்சாவூர் மஹாராஜா சாபோஜி ஸரஸ்வதி மஹால் நூல் நிலைத்தின் ஸம்ஸ்கிருதப் பிரிவில் முழுமையாகக் கிடைக்கப்பெற்ற காகிதச்சுவடி Book No. 482 (No. 10303) ல் சுவடி எண் 10275 D. 3719 ஜை அடிப்படையாகக்கொண்டு இந்நூல் பதிப்பிக்கப்பெறுகிறது. ஆங்கிலத்திலும், ஸம்ஸ்கிருதத்திலும் மிகவிக்க சுருக்கமான குறிப்புகளே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன வென்றாலும், ஓரளவுக்கு இந்நூலில் கூறப்பட்டுள்ள சுலோகக் கருத்துக்களைச் சர்றே விரிவாகப் பொது

மக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தும் வகையில் முன்னுரை தமிழில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது முழு வருணைகளையும் விவரித்தால் முன்னுரை விரியும் எனக்கருதி சில சோக வருணைகளே தமிழில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. பிழைகள் மலிந்த மூலச்சுவடியில் ஒருசில இடங்கள் முழுமைபெறுவிருக்கின்றன. அவற்றைவிடுத்து சாத்யமான திருத்தங்கள் செய்ய முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது.

### நன்றியுரை

வெளியுலகில் அதிக அறிமுகமாகத் ஓர் மாபெரும் புலவரின் இவ்வரியநாலூலை அச்சில்கொண்டுவரும் பணியை அடியேனுக்கு கல்கிய மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரும், நூலக (பொ) இயக்குங்குமாகிய உயர்திரு V. K. ஜயக்கௌடி, I.A.S., அவர்களுக்கும், நூலக சிர்வாக அதிகாரி (பொ) திரு K. சங்கரநாராயணன் அவர்களுக்கும், நூலக வெளியீட்டு மேலாளர் மற்றும் நூலகர் திரு. அ. பஞ்சநாதன், M.A., M.L.I.S., அவர்களுக்கும், அடியேனுல் தயாரிக்கப்பட்ட நூலின் பிரஸ் காப்பியை மூலக் சுவடுகொண்டு ஒப்பிட்டுப் பிழைத் திருத்தம் செய்தும், நூல் முழுவடிவம் பெறும் விதத்தில் சோகங்களை அகரவரிசைப்படுத்தி எழுதியும் அச்சப்போதிகளைத் (Proof) திருத்திக் கொடுத்தும் உதவி புரிந்த இந்நூலக மேநிலை ஸம்ஸ்க்ருத பண்டிட், சிரோமணி, தேதியூர் ப்ரம்மநார்த்தி S. கிருஷ்ணராமரந்தி சாஸ்திரிகள் அவர்களுக்கும், எனது மனமார்க்கத னன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

மற்றும் இந்நூல் சிறப்பாக வெளிவர உதவிய நூலக அணைத்து அலுவலர்களுக்கும், பண்டிதர்களுக்கும் என் என்றி உரிக்தாகுக

இந்நாலூச் சிறப்பாக அச்சிட்டளித்த தஞ்சாவூர் ஸ்டார் பிரின்ட்  
அண்ட் பேக் நிறுவனத்திற்கும் என் நன்றி உரியது.

பண்டைய ஸ்மஸ்க்ருத இலக்கீயங்களுடன் ஒப்பிடத்தக்க  
விதத்தில் அமைந்துள்ள சிறப்புமிகுங்க இந்தக் காவியநூலை ஸ்மஸ்க்ருத  
மொழி கற்கும் அனைத்துப் பிரிவினரும், பண்டிதப் பெருமக்களும்  
போற்றி வரவேற்பர் என்பதில் சீரிதும் ஜயமில்லை.

கவிதல்லை என். வேங்கட்டரமணன், B.Com..

மேலவீதி,

ஸாஹித்ய சிரேரமணி,

தஞ்சாவூர்-9,

சிறப்புக் கேண்ணமைப் பதிப்பாசீரியர்,

18-12-95.

சாஸ்வதி மஹால் நூலகம்.



## ॥ प्रस्तावना ॥



“ भारते मानवं जन्म प्राप्य भागवतं न यैः ।  
श्रुतं पापपराधीनैरात्मघातस्तु तैः कृतः ” ॥

इति श्रीमद्भागवते संदृश्यमानमुद्घववचनं पठतां  
श्रृण्वतां भारतीयजनानामस्माकं न केवलं स्पृशति मानसं,  
कम्पयति कलेबरं, रोमाञ्चयति रोमकूपान्, तनोति पश्चात्तापं,  
चोदयति च जागृतिं, प्रददात्येव सुदृढाश्वासमिमं यत्  
भागवतपठनश्रवणादिकमस्मान् संसारसागरस्य पारं  
नयेदिति ॥

“तव कथामृते तप्तजीवनं कविभिरीडिते कल्मषापहम् ।  
श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः” ॥

इति गोपिकाभिः श्रीकृष्णकथामाहात्म्यं सुस्वरेणालापरोदने-  
नाविष्कृतमिति सर्वेऽपि जानन्त्येव ॥ भगवान् व्यासो-  
ऽप्याह्वयति रसिकतङ्गजान् निगमकल्पतरोर्गलितं शुकमुखाद-  
मृतद्रवसंयुतं च भागवतफलमास्वादयितुम् ॥ कथमुद्भूतः

स्फुरदानन्दानुभवः भगवतो व्यासस्य ? स एव स्वयं  
 प्रथमस्कन्धे विशदीकरोति कारणमस्य ॥ अष्टादशपुराणानि,  
 उपपुराणानि, महाभारतं - इति सर्वमपि परलक्षश्लोकैविर-  
 चितं मया । तथाऽपि नात्मा परितुष्यते मे ॥ किन्तु  
 करवै ? “किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः ।  
 प्रियाः परमहंसानां त एव ह्यच्युतप्रियाः” ॥ इति खिद्यन्तं  
 तमुवाच नारदः

“यथा धर्माद्यश्चार्था सुनिवर्यानुकीर्तिताः  
 न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः” ॥ इति

एवमुद्बोधितो भगवान् व्यासः इहामुत्राभ्युदयकरं  
 श्रीकृष्णचरितं व्यरचयत्, लेभे चपरमामात्मतृप्तिम् ॥ कोऽसौ  
 भगवान् व्यासः ? श्रीमन्नारायणांश एव सः ॥ अत  
 एव गीयते “व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे”  
 इति, “शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणमिति” च ॥  
 विष्णोरंशाभूतस्यापि व्यासस्य श्रीकृष्णचरितं सुखकरमा-  
 सीत् !! तथैव, “ममापि तद्भूतिकरं प्रचक्षते महानुभावं  
 चरितं निवोधत” -इति श्रीरामचन्द्रस्य वचनं सुस्पष्टं  
 निवेदयति रामायणकथा तस्यापि श्रेयस्करी विराजते स्म  
 इति ॥

इतिहासपुराणसारज्ञः भगवन्तरायमखी निजरसना-  
परिशुद्धये, आत्मनो मनःप्रसादाय, लोककल्याणाय चानु-  
गृहीतवान् श्रीकृष्णचरितवर्णनात्मकं काव्यरत्नम् ॥ किञ्च,  
मोक्षमिच्छेद्जनार्दनात्, मोक्षं ददातीति मुकुन्दः इत्यादि-  
सूक्तीरनुचिन्त्य स्वकाव्यस्य “मुकुन्दविलास” इति नाम  
सार्थकं चकार ॥

किं वा काव्यं ? को वा कविः ? किं वा  
काव्यलक्षणम् ? उच्यते ॥

“नरत्वं दुर्लभं लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा ।

कवित्वं दुर्लभं तत्र शक्तिस्तत्र च दुर्लभा” ॥

इति खलु अग्निपुराणवचनम् ॥ कुतो वा भवति दुर्लभा  
काव्यनिर्माणशक्तिः ? यतः, काव्यस्य शब्दाथौ शरीरं,  
रीतयः अवयवसंस्थानविशेषाः, रसादिः आत्मा, गुणाः  
शौर्यादियः, अलङ्काराः कटककुण्डलादिभूषाविशेषाः, औचित्यं  
प्राणाः, ध्वनिः रक्तनालिका च विराजन्ते । वृत्तलक्षण-  
भनुसृत्य साधारणश्लोकरचनमेव दुष्करं चेत्, पुर्वोक्तरीत्या  
को वा शक्तुयात् निरवद्यां, सजीवां सरसां सालङ्काराच्च

स्फुरदानन्दानुभवः भगवतो व्यासस्य ? स एव स्वयं प्रथमस्कन्धे विशदीकरोति कारणमस्य ॥ अष्टादशपुराणानि, उपपुराणानि, महाभारतं - इति सर्वमपि परलक्षण्योक्तैरचितं मया । तथाऽपि नात्मा परितुष्यते मे ॥ किन्तु करवै ? “किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः । प्रियाः परमहंसानां त एव ह्यच्युतप्रियाः” ॥ इति खिद्यन्तं तमुवाच नारदः

“यथा धर्मादियश्चार्था मुनिवर्यनुकीर्तिताः  
न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः” ॥ इति

एवमुद्वोधितो भगवान् व्यासः इहामुत्राभ्युदयकरं श्रीकृष्णचरितं व्यरचयत्, लेखे चपरमामात्मतृप्तिम् ॥ कोऽसौ भगवान् व्यासः ? श्रीमन्नारायणांश एव सः ॥ अत एव गीयते “व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे” इति, “शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणमिति” च ॥ विष्णोरंशभूतस्यापि व्यासस्य श्रीकृष्णचरितं सुखकरमासीत् !! तथैव, “ममापि तद्भूतिकरं प्रचक्षते महानुभावं चरितं निबोधत” -इति श्रीरामचन्द्रस्य वचनं सुस्पष्टं निवेदयति रामायणकथा तस्यापि श्रेयस्करी विराजते स्म इति ॥

इतिहासपुराणसारज्ञः भगवन्तरायमखी निजरसना-  
परिशुद्धये, आत्मनो मनःप्रसादाय, लोककल्याणाय चानु-  
गृहीतवान् श्रीकृष्णचरितवर्णनात्मकं काव्यरत्नम् ॥ किञ्च,  
मोक्षमिच्छेद्जनार्दनात्, मोक्षं ददातीति मुकुन्दः इत्यादि-  
सूक्तीरनुचिन्त्य स्वकाव्यस्य “मुकुन्दविलास” इति नाम  
सार्थकं चकार ॥

किं वा काव्यं ? को वा कविः ? किं वा  
काव्यलक्षणम् ? उच्यते ॥

“नरत्वं दुर्लभं लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा ।

कवित्वं दुर्लभं तत्र शक्तिस्तत्र च दुर्लभा” ॥

इति खलु अग्निपुराणवचनम् ॥ कुतो वा भवति दुर्लभा  
काव्यनिर्माणशक्तिः ? यतः, काव्यस्य शब्दाथौ शरीरं,  
रीतयः अवयवसंस्थानविशेषाः, रसादिः आत्मा, गुणाः  
शैर्यादियः, अलङ्काराः कटककुण्डलादिभूषाविशेषाः, औचित्यं  
प्राणाः, ध्वनिः रक्तनालिका च विराजन्ते । वृत्तलक्षण-  
मनुसृत्य साधारणश्लोकरचनमेव दुष्करं चेत्, पुर्वोक्तरीत्या  
को वा शक्नुयात् निरवद्यां, सजीवां सरसां सालङ्काराच्च

कवितावन्नितां जनयितुम् ? इदं तु कर्म न सामान्यम् ॥

अत एव भगवान् व्यासः -

“ काव्यालापाश्च ये केचित् गीतकान्यखिलानि च ।

शब्दमूर्तिधरस्येते विष्णोरंशाः भहात्मनः ” ॥ इति ।

प्रतिदिनं ये च पदार्थाः अस्माभिरवलोक्यन्ते, याश्च  
सुखदुःखघटनाः अनुभूयन्ते, यच्च जीवनं क्रियते, सर्वच्च  
तत् कियन्नूतनं, सरसं, सचमत्कारं मनोहरच्च भवति  
कवेरनितरसाधारण्या कल्पनया !! तादृशीं दैवीं कविता-  
शक्तिं प्राप्तवन्तः संस्कृतकवयः यद्यप्यासन् भारते सहस्राः,  
तथापि तेष्वतिपरिमितानामेव ग्रन्थाः समुपलब्धाः । तेषु च  
विरलविरला एव कवयः सुप्रसिद्धि गताः भागधेयवशात् ॥  
आः - कष्ट ! कति वा भाग्यहीनाः कवयः निराश्रयाः निज-  
कवितामतल्लिकाः प्राकाशं नेतुमशवनुवन्तः वभूवुः !!

### कविपरिचयः

तज्जापुरीमधिष्ठाय शासत्सु महराष्ट्रीयराजसु १६७६  
प्रभृति १६८३ पर्यन्तसमये महीपालो वभूव वेङ्कोजी  
अथवा एकोजीनामा ॥ तस्य चासीत् सचिवतल्लिजः  
वावाजीयज्वतनयः गङ्गाधराध्वरीनामा ॥ तस्य त्रयः पुत्राः

अभूवन् नृसिंहाध्वरी, ऋम्बकरायमखी, भगवन्तरायमखी  
 इति ॥ नृसिंहाध्वरी स्वपितुरनन्तरं एकोजीभूपालस्य  
 अमात्यपदमलच्चकार ॥ ततः १६८४ प्रभृति १७११  
 पर्यन्ते समये शाहजीमहाराजेन ऋम्बकरायमखी अमात्य-  
 पदवीमारोपितोऽभूत् यः किल श्रीमद्वाल्मीकिरामायणस्य  
 द्वर्माकूतनाम्नीं व्याख्यां विरच्य प्रसिद्धि प्राप ॥ “तं  
 वन्दे नररूपमन्तकरिपुं सर्वतिमनाऽहं भजे” इति द्रविड-  
 प्रदेशे भजनसंप्रदायानुसारिभिः भागवतैः ध्यानगीतेन यः  
 संकीर्त्यते, सः प्रातःस्मरणीयमहोदयः श्रीधरअथ्यावाळ्  
 काव्यमेकं शाहजीमहाराजमधिकृत्य चकारेत्यहो तन्त्रपति-  
 प्रकाण्डस्य कीर्तेः परा काष्ठा ॥

ऋम्बकरायमखी स्वपूर्वजस्य नृसिंहरायमखिनः  
 कुमारं आनन्दरायमखिनं सचिवं कृत्वा विरतिमलभत ॥  
 तस्यावरज एव भगवन्तरायमखी, यः किल मुकुन्द-  
 विलासाख्यं पद्मकाव्यं, उत्तरकाण्डचम्पूः, राघवाभ्युदयं  
 नाम नाटकमिति श्रीणि ग्रन्थरत्नानि प्रादात् ॥ राघवा-  
 भ्युदयनाटकं सशिरःकम्पं जानकीपरिणयादिनानाग्रन्थनिर्मात्रा  
 रामभद्रदीक्षितेन्द्रेण संश्लाघितञ्चेत् किन्नु वक्तव्यं भवति

तन्नाटकशैष्ठचं प्रति !! इदच्चापूर्वं नाटकं पण्डिततत्त्वजैः  
 वेदान्तशिरोमणिभिः ब्रह्मश्रीयुतपद्मनाभशर्मा-महोदयैः दुरुह-  
 प्राकृतवचनानां संस्कृतमयीं छायां व्युत्पाद्य प्रकाशितं  
 सरस्वतीमहाल् ग्रन्थालयद्वारा दशवर्षेभ्यः प्राक् !! तथैव  
 उत्तरकाण्डचम्पूः ग्रन्थालय “जेरनल्”द्वारा प्रकाशिता  
 असीत् !! एवं सति, ग्रन्थेषु त्रिष्ववशिष्टो भवति मुकुन्द-  
 विलासभिधो ग्रन्थः, यं किल प्रकाशयितुं शुभावसरं मे  
 दत्तवन्तः तज्जापुरी सरस्वतीमहाल् ग्रन्थालयनिर्वाहिकोत्तमाः !!

### कृतज्ञता

तेभ्यः निर्वाहिकाधिकारिभ्यः, तज्जावूर-मण्डलाधि-  
 कारिभ्यः श्री वी. के. जयकोडी, ऐ.ए.एस., महाशयेभ्यः,  
 सरस्वती महालय निर्वहणाधिकारमावहद्धयः श्री के. शङ्कर-  
 नारायणन् महोदयेभ्यः, सरस्वतीमहालय प्रकाशनविभागा-  
 ध्यक्षाय श्री अ. पञ्चनादन्, एम.ए., एम.एल.ऐ.एस.,  
 महाशयाय, तथैव, “कापी” करणातप्रभृति मुद्रणपर्यन्तं  
 कृपयाऽजितिसाहय्यं कृतवद्भ्यः, शिरोमणिभ्यः ब्रह्मश्रीयुत  
 तेदियूर् एस. कृष्णमूर्तिशास्त्रिभ्यश्च सादरं सविनयच्च  
 कार्तज्ञयं निवेदयामः !!

## काव्यपरिचयः

कविरयं भगवन्तरायः श्रीमद्भागवतीयश्रीकृष्ण  
 कथामेव विषयमादाय दशभिः सर्गेः मुकुन्दवलिसनामकं  
 काव्यमरचयत् ॥ तत्र देवकीवसुदेवयोः नंगरप्रवेशकथा  
 एव प्रथमतया प्रस्तूयते ॥ ततः भगवतः श्रीकृष्णस्य  
 अवतारः, शैशवलीलाः, वृन्दावनवर्णनं, गौसंरक्षणं बाल-  
 क्रीडाः, शरद्व्रह्मतुवर्णनमति द्वितीयसर्गकथा ॥ तृतीये सर्गे  
 वसन्तग्रीष्मऋत्वोः वर्णनं, चतुर्थे सूर्यास्तमयचन्द्रोदयवर्णनं  
 पञ्चमे सूर्योदयवर्णनं अक्रूरागमनं विरहव्यथोदीपकचन्द्रमन्मथ-  
 मलयानिलादिनिन्दनपूर्वकं गोपीकृतविरहालापाश्च वर्णन्ते ॥  
 षष्ठे सर्गे हेमन्तर्तुवर्णनं, मथुरानगरगमनं, कुवलयापीड-  
 चाणूरमुटिकादीनां वधः, कंसवधः देवकृता स्तु/तश्च गीयन्ते ॥  
 ततः श्रीकृष्णज्ञया भगवता वायुना, देवेन्द्रसभाऽनयनं देवसभा-  
 वर्णनं, भगवत्कृतगुरुकुलवासः, मृतगुरुपुत्रस्यानयनं - इत्येतावता  
 समाप्तिं याति सप्तमः सर्गः ॥ कृष्णं प्रति योद्धुं कंस-  
 वधकुपितजरासन्धेन कृता मन्त्रालोचना, अमात्यसुमति-  
 कृतसदुपदेशः तन्निराकृत्य जरासन्धेन युद्धाचरणाय निर्याण-

मिति भवति कथाऽष्टमसर्गीया ॥ श्रीकृष्णजरासन्धयोः  
 भयङ्करं युद्धं, जरासन्धस्य पराजयः, उग्रसेनराज्यप्राप्तिः,  
 कालयवनवधः बलरामस्य गोकुलगमनं, तत्र स्वहृलेनाकृष्टायां  
 यमुनायां तत्कृता जलक्रीडा च वर्णते नवमे सर्गे ॥  
 अन्तिमः दशमः सर्गस्तु रुक्मिणीविवाहः, अष्टमहिषीपरिणयः  
 नरकासुरशिशुपालदन्तवक्त्रांदीनां वधः भगवतः स्वस्थान-  
 प्रस्थानमिति वृत्तान्तैः गन्थोऽयं समर्पित नीयते कविराजेन  
 भगवन्तरायेण ॥

॥ शुभम् ॥

कवितल्लजः शिरोमणिः

जा. वेङ्कटरमणः



१

॥ श्रीः ॥

श्रीभगवत्सूरिविरचितः

# ।। मुकुन्दविलासः ।।

---

श्रीगणेशाय नमः ॥

श्रीरामाय नमः ॥

॥ प्रथमः सर्गः ॥

शिवं शिवाश्चिष्टतनुं तनूज-  
विराजितोत्सङ्घमुदूढगङ्गम् ।

स्फुरत्कलाधीशकलाकलापं  
वन्दे समारूढवृषं वृषाङ्कम् ॥

१

क्व वासुदेवाश्रयणी कथाऽसौ  
जनः क्व च स्तोकमनीषयैषः ।

सत्यं तथाऽपि प्रतिपाद्यवस्तु-  
माहात्म्यमेकं मुखरीकरोति ॥

२

कंसः स्वसारं वसुदेवनाम्ने  
यदूद्ध्रहाय प्रतिपाद्य ताभ्याम् ।

अटन् प्रतोलीं गग्नान्तरोत्था  
छन्दोमयीं वाचमुवाच कण्ठित् (?) ॥<sup>1</sup>

३

यां त्वं वहन्नद्य रथेन मठ !  
प्रयासि कंस प्रतिपन्नहर्षः ।

तस्याः कुमारो भविताऽष्टमो यः  
स सर्वथा त्वां निहनिष्यतीति ॥<sup>2</sup>

४

सभर्तृकां हन्त ! ततः स्वसारं  
निहन्तुकामः स तदाऽऽत्मगर्भान् ।  
जहि क्रमेणे”ति तदीरितेन  
न्यवेशयत्तां मुदितस्त्वगेहे ॥<sup>3</sup>

५

ततः कदाचिद्दनुजैरियं भू-  
राक्रम्य कंसादिभिर्द्युमाना ।  
निवेदयन्ती निजमार्तिवृत्तं  
विधातृमुख्यान् विबुधानवाप ॥<sup>4</sup>

६

१ शुश्राव छन्दोमयभारतीं तामटन् प्रतोलीं गग्नान्तरोत्थाम् ।

प्राप्तां पुरस्कृत्य धरां सुरारि-  
 क्लान्तां विरच्चिप्रमुखास्सुधाशः ।  
 दुरधाबिधमध्येशयमभुजाक्षं  
 शरण्यमीयुश्शरणं त्रिलोक्याः ॥ ७

बृन्दारकाणां नमताममन्दं-  
 स्तुतिध्वनिव्याप्तदिगन्तराळम् ।  
 श्रुत्वा दरोन्मीलितलोचनाब्ज-  
 मपाङ्गपातैर्निरवर्णयत्तान् ॥ ८

विभाव्य विष्णुविबुधातिहेतुं  
 दरस्मितां काञ्चिदुवाच वाचम् ।  
 छलेन केनाप्यवतीर्य भूमा-  
 वुत्सादयिष्याम्यसुरानशेषान् ॥ ९

ततः सरोजाक्षवचस्सुधाभि-  
 राद्रीकृतस्वान्ततया प्रसन्नाः ।  
 आश्वास्य देवीं धरणीममर्त्या-  
 यथाऽस्पदं पद्मभुवाऽधिजग्मुः ॥ १०

स्वसुः क्रमेणैव निषूदितेषु  
 कंसेन गर्भेषु हरिनिजांशम् ।

तं रोहिणीं सप्तममात्ममायया

स्नावच्छलात् सङ्क्रमयाच्चकार ॥

११

अथाऽपरांशेन पुनर्जगाम

स देवकीर्भमगाधभूमा ।

साऽपि क्रमादप्रतिमप्रहर्षा

गर्भस्य चिह्नानि शुभानि दधे ॥

१२

कस्तूरिकाबिन्दुलसङ्खलाटं

तस्या मुखं केतकगर्भपाण्डु ।

मधुव्रताध्यासितमध्यभागं

विडम्बयामास सितारविन्दम् ॥

१३

वीनोन्नतौ पतिरुचावमुष्याः

पयोधरौ मेचकचूचुकान्तौ ।

उत्तुज्ञशृङ्गाश्रितवारिवाही

सुवर्णशैलाविव राजतः स्म ॥

१४

वलित्रयस्यापगमे स्फुरन्ती

रोमावली मौकितकदाममध्ये ।

कलिन्दकन्येव रराज गाङ्ग-

स्नौतोद्वयान्तश्चलिता नताङ्ग्याः ॥

१५

मध्यो मृगाक्ष्याः परमाणुरूप-  
स्त्रिविक्रमस्यास्पदतामुपेत्य ।  
शंसन्निवामुष्य दशां क्रमेण  
वर्धिष्णुभावं जगृहे तदानीम् ॥

१६

भयेन कंसादभिवाच्छतार्थन् ।  
बाला तदा याचित्तुमक्षमैव ।  
कदा नु पश्यामि धरामकंसा-  
मित्येव चित्तेऽभृत दोहृदं सा ॥

१७

दिनेषु तस्याः क्रमशः प्रयाते-  
ज्वन्तः प्रहृष्टं [विष्ट] सरसीरुहाक्षम् ।  
ततः समाराधयितुं प्रहर्षात्  
प्रावृद् प्रपेदे निजसौभगेन ॥

१८

क्वचिच्छिलीन्ध्रैः कुटजैः कुहापि  
नीपैः क्वचित् कुत्रचिदर्जुनैश्च ।  
संपर्कमापद्य समुज्जजृम्भे  
सौरभ्यसान्द्रः शिशिरः समीरः ॥

१९

क्वचिन्नदन्तः क्वचिदुन्नदन्तः  
क्वचिच्छरन्तः क्वचिदापतन्तः ।

कवचिच्छखाधूर्णनमाचरन्तो  
मत्ता इवाऽसन्मुदिता मयूराः ॥ २०

स्मेरा वराङ्गीरूपगूहमाना  
लीलाशिखिप्रेत्कृतमीक्षमाणाः ।  
कथा विचित्रा अपि भाषमाणा  
दिनानि केचित् कृतिनोऽपनिन्युः ॥ २१

अदर्शनं व्योमनि पुष्पवन्तौ  
घनैस्स्वबन्धू गमितावितीव ।  
दुःखाकुलान्युत्पलपङ्कजानि  
स्वयं च मग्नानि जले बभूवः ॥ २२

दानाम्बुधाराद्रितमेदिनीका-  
स्तारं नदन्तः करिणो विचेषः ।  
सौभाग्यमालोकयितुं धरित्र्याः  
व्योम्नोऽवतीर्णा इव वारिवाहाः ॥ २३

मुहुर्मुहुर्वारि पिबन्त एव  
न चातका नाभिलषन्ति भूयः ।  
लोके हि वित्तं प्रतिपद्यमानाः  
पुनः पुनश्चाभिलषन्ति लब्धुम् ॥ २४

- प्रसारितोत्तुङ्गतरञ्जहस्ता  
मुदा रसाद्य शुखमर्पयन्त्यः । २५
- समालिलिङ्गः स्सरितः समुद्रं  
प्रियं चिरप्राप्तमिव प्रगल्भाः ॥ २५
- नट्यां नटन्यां तटिति द्युरञ्जे  
दधे मृदञ्जध्वनिरम्बुवाहैः । २६
- जगे कलं केकिभिरुर्ध्वकण्ठै-  
विदूषकंत्वं समतानि भेकैः ॥ २६
- आदाय सिन्धोस्सलिलानि सर्व-  
मुर्वीतलं सम्परिपूरयन्तः । २७
- इथं जनेभ्यः प्रलयस्वरूपं  
निदर्शयामासुरिवाम्बुवाहाः ॥ २७
- सखीजनस्यानुनयैर्वद्धनां  
प्रियप्रणामैरपि यो न जहे । २८
- पयोधरोदीरितगजितैक-  
मन्त्रस्तमेवाशु नुनोद मानम् ॥ २८
- जम्बूद्रुमाः पत्रनिलीनपुच्छैः  
कीरैः फलशैः पिहिताः समन्तात् ।

शाखाश्शलादुस्थगिता दधानान्

विडम्बयन्ति स्म तदाऽऽम्रवृक्षान् ॥

२९

विश्वस्य जेतुर्विषमायुधस्य

वियोगिहृन्मर्मविदारदक्षा ।

सकण्टकाराजत केतकालिः

कठोरधारा क्रकचावलीव ॥

३०

महीतले मेघजलैविमृष्टे

रेजुस्समन्तात् भृशमिन्द्रगोपाः ।

वर्षतुलक्ष्म्या इव सञ्चरन्त्याः

<sup>1</sup>पादाम्बुजप्रस्तुतयावकाङ्क्षाः ॥

३१

परस्परं विद्युदसिप्रहारै-

धन्तां धनानां गगनाहवोर्याम् ।

अङ्गस्तुतासृक्कणिकानिकाशाः

भृशं विरेजुर्भुवि शक्रकोपाः ॥

३२

न शक्रकोपैरवनी विकीर्ण

किन्त्वम्बुदालोकमदोद्धतेन ।

1 (स्यन्दितयावकाङ्क्षाः)

शिखण्डिषण्डेन विखण्डताना-  
ममण्ड सेयं फणिनां मणीभिः ॥ ३३

सुराङ्गनानां सुरतार्भटीषु  
प्रभ्रष्टमुत्तुङ्गपयोधराग्रात् ।  
माणिक्यमालामणिबृन्दमिन्द्र-  
कोपापदेशादवनौ बभासे ॥ ३४

पत्युर्नदीनां सलिलेन साधं  
पीतस्य मेघैर्बडवामुखाग्नेः ।  
वान्ता स्फुलिङ्गा इव दीप्तिमन्तो  
भृशं विरेजुर्भुवि शक्रकोपाः ॥ ३५

प्राक्ताङ्गितानां मरुता घनानां  
रदा निपेतुः करका<sup>१</sup>च्छलेन ।  
किमन्यथा “नीरद” <sup>२</sup>इत्यमीषां  
भवेत् प्रतीतं भुवनेऽभिधानम् ॥ ३६

1 वर्षतौं करकपतनं कथं सङ्गच्छते इत्यत्र कविरेव प्रमाणम् ।

2 अस्मिन्पक्षे निर्गता रदाः दन्ताःयस्येति विग्रहः ।  
नीरदाने प्रसिद्धस्य मेघस्य नीरदत्वमन्यथोत्प्रेक्ष्यते ॥

स्वैरं पथोधेर्जलमाददाना-  
 स्तत्रस्थमापीय निशाधिनाथम् ।  
 वर्षोपलव्याजतयाम्बुवाहा:  
 तद्विम्बखण्डान् ववमुस्समन्तात् ॥ ३७

आकाशभूमौ जलदद्रुमौघा  
 निष्यन्दिधारामकरन्दभाजः ।  
 वर्षतुलक्ष्मीं करकाप्रसूनै-  
 राराधयामासुरिवादरेण ॥ ३८

मुहुर्मुहुस्सच्चरतां समन्ता-  
 दम्भोवहानामभिघट्टनेन ।  
 नूनं विशीर्णा नभसो निपेतुः  
 तारा धरण्यां करकाच्छलेन ॥ ३९

महेन्द्रकोपोज्ज्वलशाद्वलत्वा-  
 दास्तीर्णराज्ञमणिकम्बला भूः ।  
 रराज कामस्य सभेव वात-  
 विद्धतकादम्बरजोविताना ॥ ४०

मत्तापमाजहुरिति प्रहष्ट-  
 दुव्यर्णा तदानीमुपदाच्छलेन ।

पयोधरेभ्यः प्रहिता रराज

श्वेताब्जमालेव बकोटपङ्कितः ॥

४१

जगद्विजेतुं चलिते रतीशे

केकीन्द्रकण्ठोऽभूत काहलित्वम् ।

सुरेन्द्रचापो नवतोरणत्वं

गर्जस्तित्वानपि दुन्दुभित्वम् ॥

४२

आरह्य शृङ्गाण्यवनीधराणा-

मुत्कन्धराः प्राग्वदना मयूराः ।

एहि त्वमेहि त्वमिति प्रशस्त-

केका नभस्वन्तमिवाह्वयन्तः ॥

४३

प्राज्यं पयोधेर्जलमुद्घहन्त-

स्तद्वारखिन्ना इव वारिवाहाः ।

विश्रम्य विश्रम्य धराधराग्रे

दिवं क्रमादारुहन्दन्तः ॥

४४

पुष्पेषु पाथःपरिपूरितेषु

लभामहे नैव वयं मरन्दम् ।

इत्थं समालोच्य मधुव्रतास्ता-

न्याच्छादयामासुरिवात्मपक्षैः ॥

४५

वर्षतुलक्ष्मीर्वसुधां प्रपन्नं  
प्रसूनबाणं प्रसमीक्ष्य हृष्टा ।

आरात्रिकामङ्गलमादरेण  
समाच्चारेव शिलीन्ध्रदीपैः ॥

४६

ग्रीष्मेण तन्ता नितरामवाप्ता  
निष्पत्रतां ये दववत्तिदूनाः ।  
शोभामवापुस्तरवस्त एते  
कृतानुकम्पा इव वारिवाहैः ॥

४७

नवाथ मासानतिवाह्य गर्भे  
धनाधनोद्भासिनि कृष्णपक्षे ।  
अध्यष्टमि श्रावणमासि रात्रा-  
वाविर्बभूव रवयमभुजाक्षः ॥

४८

त्राणाय विश्वस्य यदाऽभिजज्ञे  
नारायणोऽसौ वसुदेवपत्न्याम् ।  
तदेव कन्यां सुषुवे यशोदा  
या नन्दगोपस्य मनोऽनुकूला ॥

४९

माया मुरारेमहती तदानी-  
मरिष्टगेहाद्वसुदेवपत्न्याः ।

प्रापय्य नन्दस्य गृहं कुमारं

तामानयत्तूर्णमदस्समीपम् ॥

५०

नन्दस्य कश्चिन्ननु नन्दनोऽभू-

दिति प्रघोषोऽजनि घोषमध्ये ।

कन्याऽपि धन्याऽनकदुन्दुभेरि-

त्येषा प्रथा कंसपुरे जजूम्भे ॥

५१

गर्भाऽमत्वप्रतिपत्तिमात्रात्

पुत्रीति जानन्तमपि प्रहर्तुम् ।

समुद्यतं सत्वरमत्र कंसं

सा खं समुत्प्लुत्य तदैतदूचे ॥

५२

अहं न हन्त्री तव जालम कंस

हन्ताऽन्य एवास्ति परत्र कश्चित् ।

यद्यस्ति सामर्थ्यममुं विमृश्य

समीहितं तत्तरसा विधेहि ॥

५३

इत्थं तदुक्तिचकितः सुतरां स कंस-

स्तान्पूतनाशकटघेनुककेशिमुख्यान् ।

सन्दिश्य बालकवधाय सजानिमेनं

बन्धान्मुमोच वसुदेवमपोढशङ्कः ॥

५४

गङ्गाधराध्वरिसुतो नरसिंहसूरे-  
 यस्त्रयम्बकाध्वरिमणेश्व सुधीः कनीयान् ।  
 काव्येऽमुना विरचिते भगवन्तनाम्ना  
 सर्गश्शुभ्रोऽजनि मुकुन्दविलासनाम्नि ॥ ५५

॥ इति श्रीमुकुन्दविलासे प्रथमस्सर्गः ॥



॥ द्वितीयः सर्गः ॥

कंसतस्तदनु लब्धविमोक्षः  
 प्राप्य गोपरमणं वसुदेवः ।  
 गच्छ गोकुलमितस्त्वरयेति  
 व्याजहार स वितीर्णकरं तम् ॥

१

मानयन्वजपतिर्वसुदेवं  
 व्याहृतां गिरमुदच्चितहर्षः ।  
 गोपसङ्घविहितस्तुतिघोषं  
 घोषमेव शकटीभिरवाप ॥

२

अर्धरात्रसमये बत काचित्

पूतनेति सुविभीषणनाम्नी ।

आययौ शिशुवधैकविहारा

पापमाचरितुमत्र कुमारे ॥

३

या हता दशमुखस्य वधात्प्राक्

सैव सुन्दवनितेति विभाव्य ।

पूतनां मुररिपुसहसैनां

वीरपाणमिव पानमकार्षीत् ॥

४

यत्तदा शकटमक्षिपदुच्चै-

लीलया मुररिपुः प्रपदेन ।

तज्जना “विद्विलितः शकटाख्यो

निर्जरारि” रिति हर्षमविन्दन् ॥

५

संज्ञया यमकरोद्व्रजराजो

राममेकमपरं खलु कृष्णम् ।

तौ विरेजतुरतीव दधाना-

वद्भुतानि चरितानि तदानीम् ॥

६

डोलिकामनुभवन्व्रजकन्या-

लोलिकामुखरितां मुरवैरी ।

वीचिलोल<sup>1</sup> कलशाम्बुधिशय्या-

मस्मरत्सुरवधूकृतगीताम् ॥

७

आननाब्जमकरन्दरसेन

स्वर्णदीं सुरभयन्निव कृष्णः ।

पर्यच्छूषदनिशं निजपादा-

ज्ञुष्ठमेकमवलम्ब्य करेण ॥

८

दृप्तदैत्यपरिपीडितसत्वा

मङ्ग्यतीयमवनीति स मत्वा ।

जानुच्छ्रुमणकैतवतस्ता-

मुद्धरन्निवशनैर्विचचार ॥

९

पूर्वमेकचरणाक्रमणेन

प्राप या वसुमती लघिमानम् ।

मन्दच्छ्रुममिषेण मिमान-

स्तां पदैः स महतीं विततान ॥

१०

दर्शयन् किमपि वस्तु करेण

द्राक् समर्पय तदम्ब ममेति ।

1 कलशाम्बुधिः - क्षीरसागरः ।

अस्फुटाक्षरमवोचदसौ य-

त्तेन निर्वृतिमगाद्वजराजः ॥

११

अत्थमर्षचटुलभ्रुकृटीकः

स्वं समीक्ष्य मणिभित्तिषु विम्बम् ।

कोऽपि मामिह विडम्बयतीति

व्याहरन्नयमहासयदम्बाम् ॥

१२

ईहितं मम करोति न धात्री

ताड्यतामियमिति प्रस्तुरोद ।

ताडितामिव समीक्ष्य ततस्तां-

मोचयन्करुणया स जहास ॥

१३

स्वं गृहीतनवनीतममर्षा-

त्सङ्गृहीतुमबलामनुयान्तीम् ।

पीवरस्तनभरस्खलिताङ्गिंघ्रि

रोषरूक्षमभिवीक्ष्य जहास ॥

१४

अम्ब ! सूनुममुज्जितनीर्ति

शिक्षयेति भवती [जननी] निगदन्तीः ।

मामकृत्यमनुशासति चेमा-

स्तद्वचो न गणयेत्यवदत्सः ॥

१५

दारकैः स विहरन् सवयोभिः  
 केनचित् पिहितलोचनपद्मः ।  
 तानबुद्धमपि वस्तु विबुद्धं  
 व्याहरन्ननयदद्भुतभावम् ॥

१६

स्वं गृहीतुमनुधावति बाला  
 काचिदित्यधिगतस्तदगारम् ।  
 आशु तद्रमणरूपमवाप्त-  
 स्तां चट्टकितभिरतोषयदेषः ॥

१७

युक्त एष नहि दुर्विनयस्ते  
 काञ्चिदित्थमबलां निगदन्तीम् ।  
 भाषितं समनुभाष्य तदीयं  
 स व्यडम्बयदपेतविशङ्कः ॥

१८

स्वाङ्कसीम्नि निहितः स क्याचिद्  
 वीक्ष्य बिल्वसदृशौ तदुरोजौ ।  
 अर्पयैकं अयि ! कन्दुकयोरि-  
 त्यातनिष्ठ तरुणीं स सलज्जाम् ॥

१९

तीरसीम्नि वसनानि मृगाक्षीः  
 सन्निवेश्य विशतीः सरिदम्भः ।

सोऽभिवीक्ष्य निभृताङ्गिरुपेत-

स्तान्यचूरुरदसावथ लिल्ये ॥

२०

गोपिकासु विपणीं चलितासु

प्राप्य तत्र सविवं सवयोभिः ।

निर्भयस्तदनुवर्त्मनि रुध्नन्

याचति स्म दधिदुर्गधविभागम् ॥

२१

जातुचित्कुपितया जनयित्या

हन्त ! निर्दयमुलूखलबद्धः ।

तिर्यगेतदकरोत्परिकर्षन्

लीलयैव यमद्वार्जुनभञ्जम् ॥

२२

पूतनाशकटभूरुहभङ्गैः

शङ्खितस्तनयवीर्यमजानन् ।

वस्तुमक्षममिहेति स बृन्दा-

काननं सह ययौ तनयाभ्याम् ॥

२३

१ बलरामकृष्णयोर्नन्दगोपतनयत्वं अवास्तविकमेव । तयोर्वसुदेव-  
पुत्रत्वं जानतोऽपि नन्दगोपस्य संवर्ध्यमानयोः तयोरुपरि पुत्र-  
निर्विशेषा प्रीतिरासीत् । कंसपीडाशङ्कया निलीय संवर्ध्यमानयोः  
नन्दगोपपुत्रत्वकथनं प्रेमभावातिशयप्रयुक्तया काल्पनिकमपि  
युक्तम् ।

तावुभावपि लताद्रुमसान्द्रं  
काननं तदभिवीक्ष्य विचित्रम् ।

सप्रमोदमभितो विचरन्ता-  
वृचतुः खलु परस्परमित्थम् ॥

२४

किन्विदं निजफलस्थितमम्भः  
स्वादु तत्किममृतं विधुबिम्बे ।  
नारिकेलधरणीरुहबृन्दं  
ज्ञातुमित्थमिव वृद्धिमुपैति ॥

२५

गोपिकाकुचजितानि फलानी-  
त्युद्गताः खमधिरोद्गुमिवात्याः<sup>1</sup> ।  
तत्र चाऽमरवधूकुचभीत्या  
तानि तालतरवो जहतीव ॥

२६

पल्लवैः परभृतानपि पुष्णैः  
षट्पदानपि फलैः पथिकांश्च ।  
प्रीणयन्त इह तत्तदभीष्टैः  
कल्पका इव विभान्ति रसालाः ॥

२७

1 अत्य - Steed, Stud horse

पुष्पितार्जुनमहीरुहवृन्दा

भाति विष्वगधिकं विपिनश्रीः ।

वाससापहृतकाञ्चनभासा

संवृताञ्जलतिका तरुणीव ॥

२८

वात्कम्पितमनोहरशाखा-

सञ्चलत्पृथुफला लिकुचालिः ।

दृश्यमानविवलत्कुचकुम्भा

भाति वारवनितेवं नटन्ती ॥

२९

आनताः फलभरैरिह जम्बू-

पादपा दधति कामपि शोभाम् ।

सज्जना इव समृद्धिभिरिद्धाः

सन्ततं विनमिता विनयेन ॥

३०

देववल्लभतया प्रथिताः स्मो

वल्लभं तदिदमेषु विधेयम् ।

इत्यमी निजपरीमळमूर्ध्वं

प्रेषयन्ति पुरुषद्गुमसङ्घाः ॥

३१

दुरध्मुरधरुचिभिः सुमनोभिः

सान्द्रितं कुटजगुलमकुदस्वभ् ।

तारकाभिरभितो विमलाभि-  
श्शोभितं नभ इवाऽन् विभाति ॥ ३२

सान्द्रपुष्पपिहिताखिलपत्राः  
चम्पकक्षितिरुहा विलसन्ति ।  
आगता इव समीक्षितुमेत-  
त्काननं कनकभूधरकूटाः ॥ ३३

सान्द्रपुष्पपिहिता नतशाखाः  
सीधुसौरभज्जरीभरिताशाः ।  
शीतलस्फुरदनातपगभाः  
केसरक्षितिरुहाः प्रतिभान्ति ॥ ३४

भान्ति पीवरफलव्रजदम्भा-  
दम्बुदाः पनसपादपसंस्थाः ।  
किञ्जिजाम्बुपरिपुष्टवनश्री-  
वीक्षणप्रमदकण्टकिताङ्गाः ॥ ३५

अत्युदग्रविटपग्रथितत्वा-  
दगोपिका न हि फलानि लभेरन् ।  
इत्यमूस्सकरुणा इव धात्र्यो  
विक्षिपन्ति भुवि तानि समन्तात् ॥ ३६

सान्द्रसङ्गतफलोज्जवलशाखाः

संविभान्ति परितो वटवृक्षाः ।

कीरचञ्चुरुचिवद्वमवल्ली-

राजिराजितशिखा इव शैलाः ॥ ३७

भान्ति पूगतरवः परिरब्धाः

प्रौढनागलतिकातरुणीभिः ।

रागमुत्कटमिव स्फुटयन्तः

पक्वबिम्बरुचिभिः फलमालैः ॥ ३८

अत्युदग्रविटपाग्रविराज-

द्राजमण्डलतयाप्यहिसङ्गात् ।

राजचूडमहिभूषणमीशं

किं विडम्बयति चन्दनसङ्घः ॥ ३९

तीक्षणपर्णमुकुलाग्रविशीर्य-

चचन्द्रबिम्बगळितामृतपूरैः ।

सिक्तमेव कदलीविपिनं स्या-

दन्यथा कथमयं फलपाकः ॥ ४०

पल्लवैस्ममवकुण्ठितवक्त्रा

वीरुधः कुसुमशोभितगात्राः ।

मत्तभृङ्गणगीतचरित्रा-  
स्तत्र तत्र खलु भान्ति विचित्राः ॥ ४१

तौ श्रिया विजितनन्दनमेत-  
त्काननं हसितचैत्ररथं च ।  
विस्मतौ समवलोक्य तदानीं  
रेजतुर्गुणगणैकं निकायौ ॥ ४२

हायनैर्दशभिरत्यभिरामे  
रामकृष्णवपुषी स समीक्ष्य ।  
नन्द एष भुवनावनदक्षौ  
रक्षकावतनुत स्वगवीनाम् ॥ ४३

बर्हिबर्हकृतमुरधवतंसौ  
वन्यपुष्पकलितोज्ज्वलहारौ ।  
वंशयष्टिसमधिष्ठितहस्तौ  
गोकदम्बकमुभाववतः सम् ॥ ४४

अङ्गुलीयरुचिरञ्जितदण्डं  
मोहितत्रिभुवनं वनमाली ।

वेणुमाहृतकुरञ्जसमूहं

हर्षनिर्भरमवादयदुच्चैः ॥

४५

प्रस्तु[स्तु]तानतपयोधरभारा:

प्रस्तुतानुपदभाइकृतिधोषाः ।

चेरुरुद्धतमनुद्रुतवत्सा

वेणुनादविवशाः खलु गावः ॥

४६

वेणुवादनममुष्य विदित्वा

विस्मिताः त्रिदशविभ्रमवत्यः ।

चित्रिता इव तदेकमनस्का

निनिमेषनयनाः समभूवन् ॥

४७

जोकदम्बकमवन्तमधःस्वं

सेवितुं स शरदं प्रतिपन्नाम् ।

वीक्ष्य सौभगमशेषममुष्याः

पूर्वजाय विनिवेदयति स्म ॥

४८

शीतरश्मिवदना कुमुदाक्षी

कोकपीवरकुचा शरदेषा ।

हंसहंसकयुताम्बुजपादा

पश्य ! सञ्चरति मूर्तिमतीव ॥

४९

साम्बुभिर्वसुमतीं परिपूर्य

प्राप्य साम्प्रतममी तनिमानम् ।

याचकार्पितधना भुवि केचित्

सज्जना इव धनाः प्रतिभान्ति ॥

५०

स्वच्छता मम हृतेति पयोभि-

स्तानि पञ्चलयितुं तटभेदैः ।

नीरदाश्शतरुचो गगनेन

प्रेषिता इव चरन्ति महोक्षाः ॥

५१

पाण्डुतामथ कृशत्वमवाप्ते-

अवम्बुदेषु निजवृद्धिपरेषु ।

शालयः फलभरेण नतास्या

दुखिता इव भूर्णा प्रतिभान्ति ॥

५२

शालिगोपरमणीजनगानै-

मोहमेत्य हरिणा ध्रुतघासाः ।

तद्विलोचनविलासविशेषा-

नीप्सवः किल तदेकमनस्काः ॥

५३

विष्णुना सहितमुच्चितनिद्रे-

णात्मनाथमवलोक्य तटिन्यः ।

युक्तमन्यपुरुषेण कथं वा

हन्त याम इति यान्ति शनैस्तम् ॥ ५४

ये हिमांशुमनवेक्ष्य चकोराः

प्राबृषि कलमगताः कृशदेहाः ।

सङ्गमेन त इमे शरदिन्दोः

सच्चरन्ति मुदिता अपि मत्ताः ॥ ५५

वर्हभूषणमुदस्य निकुञ्जं

संश्रितैः शिखिभिरुज्जितकेकैः ।

नष्टनीरदकुलाभ्युदयार्थं

चर्यते तप इवोग्रममीभिः ॥

५६

यां सिताम्बुजनितानि मुषित्वा

गोपनाय निशि कुड्मलितानि ।

विक्रयाय विकचानि दिवा तां

कौमुदीमिव परिस्फुट्यन्ति ॥

५७

सैकतस्य जघनस्य न युक्तं

दर्शनं जलनिधेर्युवतीनाम् ।

इत्यसौ शरदिदं नवकाश-

च्छद्वनैव पिदधाति दुर्कूलैः ॥

५८

आवृता धवलवारिदबृन्दैः

साम्प्रतं क्षितिधरा विलसन्ति ।

चर्चिताभिनवचन्दनपञ्चाः

सुभ्रुवामिव पयोधरकुम्भाः ॥

५९

अच्छतामधिगतासु सहर्षं

पद्मिनीषु शरदो विचरन्त्याः ।

संविभान्ति चरणाम्बुजरेखा-

स्तत्र तत्र सरसीरुहरूपाः ॥

६०

मुक्तशैवलकुलानि समन्ताद्

दृश्यमानशफरीचरितानि ।

सज्जनस्य मनसैव समत्वं

गृह्णते कमलिनीसलिलानि ॥

६१

प्राक् प्रसादमधिकं प्रतिपन्नो

भारमक्षम इवास्य विसोदुम् ।

अम्बराम्बुहरिदम्बुरुहेभ्यः

संविभज्य समदत्त हिमांशुः ॥

६२

सप्तपर्णतरुपुष्पसुगन्धं

जिघ्रता मदनमत्तगजेन ।

भिद्यते विरहिणीजनवैर्य-

ग्रावकूटमतुलप्रमदेन ॥

६३

इत्थमग्रजनुजं विविधाभि-

स्सूक्तिभिः प्रमदयन् मुरवैरी ।

गन्तुमस्तशिखरं खरभानौ

वाञ्छति द्रुतमराद्वजवाटम् ॥

६४

पूर्वेन रहितः स कदाचित्

गोकदम्बकमवन् रविकन्याम् ।

कालियाहिगरलानलदरध-

क्षमारुहाञ्चिततटामभिपेदे ॥

६५

स प्रविश्य सरिदम्भसि वेगात्

प्राक्करेण परिगृह्य च पुच्छे ।

वृष्टपन्नगमसह्यमशेषै-

द्राक् पदाऽऽक्रमत मूर्ध्नि मुरारिः ॥

६६

इत्थमात्मरमणं प्रपदेन

क्लान्तमेक्य चक्रिताः फणिकन्याः ।

तं विना शरणमन्यमलव्यव्यां

श्रीरमेशमनुनेतुमवापुः ॥

६७

स प्रणाममहिराजवद्भुभि-  
 र्याचितः स मुरजित् पतिभिक्षाम् ।  
 गच्छ वारिधिमितस्त्वरयेति  
 व्याहरन्नसुभिरेनममुच्चत् ॥ ६८

या चिरेण तटिनी विषदग्धा  
 तां प्लुतामिव विधाय सुधाभिः ।  
 वारि भूतितरसा स विभिन्द-  
 नुच्चचाल रथरेचितवीचिः ॥ ६९

आशिलष्टः श्रुतफणिमथनेन पञ्चात्-  
 दभ्येत्य स्वनिलयतोऽग्रजेन शौरिः ।  
 आभोरैरपि परिपूजितस्तदानी-  
 मन्त्राजीद्वजमभियाति भास्करेऽस्तम् ॥ ७०

गङ्गाधराध्वरिसुतो नरसिंहसूरे-  
 यस्त्र्यम्बकाध्वरिमणेश्च सुधीः कनीयान् ।  
 काव्येऽमुना विरचिते भगवन्तनाम्ना  
 सर्गशुभेऽजनि मुकुन्दविलासनाम्नि ॥ ७१  
 ॥ इति श्रीमुकुन्दविलासे द्वितीयस्सर्गः ॥



## ॥ तृतीयः सर्गः ॥

गुप्तं धेनुकदानवेन सुचिरात् तो रामकृष्णौ तदा  
 तालारण्यमवापतामथ फलैरापूरयेतां धराम ।  
 प्राप्तं वीक्ष्य खराकृति तमचिरादादाय पश्चात्पदे  
 श्रामं श्राममपातयत् क्षितितले रामो विरामो  
 द्विषाम ॥ १

जहि त्वं मुरार्इ प्रसहृष्टेति कंस-  
 प्रदिष्टं पटिष्ठं च दैत्यन्रजेषु ।  
 चने वीक्ष्य गोपालदम्भाच्चरन्तं  
 जघानाऽविलम्बं प्रलम्बं मुकुन्दः ॥ २

अृज्ञारं परिवर्धयन् द्विजरणं प्रह्लादयन्नादरा-  
 दामोदं सुमनःकुलस्य कलयन् कन्दर्पमुद्घावयन् ।  
 रामोङ्ग्लासमुपानयन्ननुवर्नं कान्तां श्रियं क्रीडयन्  
 मासो माधव एष माधव इव प्रादुर्बभूवाऽद्भुतः ॥

अविरुद्धं समीरचक्रयार्न  
 धृतशृज्ञारपताकिकं जायाय ।  
 रतिनायकसारथिर्वसन्तो  
 धरणीनाथ इव क्षितिं प्रपेदे ॥ ४

पथिकजनमनांसि क्षोभयन्विक्षिपन्द्रा-

गमलकमलरेणुं दिग्बधूनां मुखेषु ।

रतिपतिसमरान्तकलान्तकान्ताकपोल-

कलममलमपमार्जन् प्रादुरासीत्समीरः ॥ ५

खञ्जः किं मल्याद्रिशृङ्खपतनात् सौरभ्यसारं वहन्

पुष्पाणामथवा मधोरभिनवां लक्ष्मीं किमालोकयन् ।

किं क्रीडन् विपिने लताभिरभितः पुष्पाणि किं विक्षिप-

नभ्यस्यन्नबलागर्ति किमुत वा मान्द्यं

वभाराऽनिलः ॥ ६

समुपेत्य १पटीरधराधरत-

स्सरसः २कमलो विहरन् कमलैः ।

पथिकान्मदनाकुलितान् कलय-

न्पवनः प्रववौ सुरभिः शिशिरः ॥

७

शनकैः पटीरधरणीधरसानोः

पवने प्रवाति नवपुष्पसुगन्धौ ।

1 पटीरधराधरः - मल्यगिरिः ।

2 कमलः deslrous.

कलुषाणि तापसमनांस्यपि चासन्

वत चच्चलानि किमुतान्यमनांसि ॥ ८

प्रवालिता कोरकिता ततश्च

प्रसूनिता सन्निहिते वसन्ते ।

दिने दिने संववृधे वनश्री-

र्मुग्धाङ्गनाया इव यौवनश्रीः ॥ ९

मार्तण्डापतदंशुजालचपलासंपर्कसंशोभितैः

सान्द्रोत्तुङ्गमहीरुहाम्बुदगणैसंपादितश्रीर्मधुः ।

आसिच्चन्मकरन्दनीरनिकरासारैर्धरित्रीतलं

प्रावृट्काल इवाबभावनुकलं वामभ्रुवः प्रीणयन् ॥

परिणतरुचिर्किशुकैरुपेता

परमरुद्विपिनस्थली समस्ता ।

प्रचुरमनसिजाहवान्ततान्ता

प्रणयिनखवणमण्डतेव कान्ता ॥ ११

ध्यायन्ती नवकोरकैः सुमनसां बृन्दैर्हसन्ती मुहुः

पान्थान् कोमलपल्लवाग्निशिखया सन्त्रासयन्ती

भृशम् ।

गायन्ती परपुष्टषट्पदकुलध्वानैर्वनश्रीरसा-

वुन्मत्ता मधुसेवनादिव तदा मेने समस्तैर्जनैः ॥ १२

विपिनेषु विरेजुरत्यरात्रः

कलिकाः किंशुकमेदिनीरुहाणाम् ।

अरुणाः करजा इव स्मरस्य

प्रसभं पान्थहृदां विदारणे ॥

१३

पान्थानामकृतागसां समुदये यस्मादकाण्डे मधुः

प्राभूदण्डधरः श्रिया च नवया पुष्णन् मुहुः

पञ्चवान् ।

सञ्चेसुर्मधुपा जगुः परभृतो हृष्टात् पलाशा बभुः

प्राप्ते दुर्नयशालिनि प्रभुतया किं किं न

संभाव्यते ॥ १४

येषां प्रसूनान्यबलाकुचस्य

नखक्षतानीव विलोक्य भीतः ।

वियोगिवर्गो<sup>१</sup> विषमेषुवश्यो

मेने<sup>२</sup> पलाशानिव तान् पलाशान् ॥ १५

पवनावधूतनवपञ्चवशाखः

सुतरां प्रमत्तपरपुष्टविरावैः ।

१ विषमेषुः - मन्मथः ।

२ पलाश - राक्षसः पलाशवृक्षश्च ।

कुसुमोद्गमार्थमिव दौर्हदलिप्सु-  
स्तरुणीमशोकतरुराह्यति स्म ॥ १६

चम्पकस्य किमनादरतोऽयं  
भृङ्ग एष मधु पक्षमवाप ।  
नादरं गुणिनि यः कुरुते स  
प्राप्नुयाद्दुरभिधामनिवार्यम् ॥ १७

वकुलं कुसुमाकुलमेक्ष्य वने  
परिमुक्तरुषः प्रणयावनतान् ।  
दयिता दयितानजयन्मुदिताः  
सहसाः सहसा सह सामगिरा ॥ १८

अश्रान्तमञ्जुरवभृङ्गगणोपगीता  
निष्पन्दमानमकरन्दमदाम्बुधाराः ।  
अत्युन्नता विटपिनो विपिने घनाभा  
मत्ता गजा इव वसन्तनृपस्य रेजुः ॥ १९

प्रचलति मलयाद्रेमन्दमन्दं समीरे  
प्रथयति कुसुमानि क्षमारुहाणां समूहे ।  
प्रणदति च पिकानां मण्डले हा ! तदानीं  
प्रणयविरहिणीनामापदासीद्व्यनाम् ॥ २०

लताऽबलासान्द्रविकीर्णपुष्प-

लाजाक्षतैश्च द्विजगीतमन्त्रैः ।

मेने जनः पल्लवपावकाग्रे

वनस्थलीमाधवयोर्विवाहम् ॥

२१

सान्द्रस्फुरत्किसलयैः परिभूषिताग्रा

रेजुर्लताश्च तरवश्च विशेषहृद्याः ।

सङ्क्रीडिता इव कुसुम्भजलैर्युवानः

स्वैरं परस्परमिवाम्बुजलोचनाश्च ॥

२२

मलयावनीध्रद्रुतवात्समिद्धः

परितो विसारिमध्यपावलि'धूम्यः ।

कुसुमार्चितेषु विटपायतनेषु

प्रतरां प्रवालदहनः प्रचकाशो ॥

२३

उच्चैरधीयान इवाऽरवेण

कामागमं षट्पदवर्णिवर्गः ।

प्रतिप्रसूनोज्ज्वलवृक्षवाटं

<sup>2</sup>मरन्दभिक्षामटति स्म नूनम् ॥

२४

1 धूम्या - Thick Smoke

2 मरन्दः - मकरन्द ।

सान्द्रप्रसूनकलितद्युतिभिर्लंताभिः

संवेदिता विटपिनः सुतरां विरेजुः ।

अद्वेक्षणाभिरिव संभृतभूषणाभि-

रालिङ्गिताः प्रियतमाः प्रणयेन गाढम् ॥ २५

पत्नीं प्राप्य वनश्रियं शुभकृते यष्टुं प्रवृत्ते मधौ

ब्रह्माणं कुसुमायुधं परभृतं होतारमुच्चैस्स्वनम् ।

उद्गातारमळि विधाय च तदा सूनसुचा भूरहा-

मध्वर्युः पवनो जुहाव मकरन्दाज्यं प्रवालानले ॥

परितो नवपल्लवान् परागं

परिकीर्ण जनता समीक्ष्य मेने ।

तुषजालमुषबुधे वितीर्ण

भृशमुद्दीपयितुं मनोभवेन ॥

२७

रसादिताभिर्लंतिकावधूभिः

स्कन्धे गृहीतास्तरवो युवानः ।

शाखाकरानुज्ज्वलपुष्पभूषा-

न्वितेनुरासां स्तबकस्तनेषु ॥

२८

तरवः प्रसमीक्ष्य वीरुधः स्वा

नवपुष्पोदगमलोभनीयरूपाः ।

विकसत्कुसुमच्छलात्प्रहर्षं

प्रथयन्ति स्म बहिर्निगूढमन्तः ॥

२९

स्वैरं प्रगृहय निजचञ्चुपुटेन बाल-

चूतप्रवालशकलानि पिकाः सहर्षम् ।

वृक्षान्तरे स्थितवतीरपि कामिनीस्स्वाः

सोत्कण्ठमैक्षिष्टत दातुममूनि ताभ्यः ॥

३०

जिघन्तोऽप्यनुपमकेसराग्रसङ्गी-

न्युज्जित्वा नवकुसुमानि चञ्चरीकाः ।

सानन्दं तदधिकसौरभेषु भूमौ

कीर्णेषु द्रुतमपतन्पचेलिमेषु ॥

३१

वायुना विहरता नवपुष्प-

प्राज्यसौरभज्जरीः परिगृह्य ।

ज्ञङ्कृतैरनुपतन्मधुपानां

चक्रिरे दश दिशः परिपूर्णः ॥

३२

मधुप्रफुल्लोज्जवलपुष्पजात-

सुगन्धसंमोहितचादुभृङ्गाम् ।

परागलिप्ताऽखिलदिग्विभागां

व्यराजयच्चम्पकवृक्षवाटीम् ॥

३३

आम्रपादपणाः स्फुटपुष्पा-

स्ताम्रपल्लवधरा विरराजुः ।

लिप्तचन्दनरसा नववीटी-

रागरञ्जितमुखा इव कम्राः ॥

३४

सम्पन्नं समधिकशाद्वलैः समन्ता-

दाकीर्णं धरणितलं नवप्रसूनैः ।

वैकल्यादधरितमौकितकैः स्फुरद्धि-

नेक्षत्रैर्नभ इव मेदुरं रराज ॥

३५

व्याकोचपुष्पविगलन्मकरन्दपान-

मत्तद्विरेफनिकुरुम्बरुताऽपदेशात् ।

हा ! हन्त ! पुष्पसमयेऽप्यनवाप्तपुष्पां

जातीलतामपहसन्ति लताः सम सर्वाः । ३६

द्विरेफश्रेणीभिः कृतज्ञपवटाः पल्लवमिषा-

द्वसानाः काषायं वसनमपि सन्नद्धमुकुलैः ।

कृतब्रह्मध्यानाः प्रमदनयनाश्रूणि जहतो

मरन्दप्रस्यन्दर्यतिन इव रेजुविटपिनः ॥ ३७

पीतं परागैर्नवचम्पकानां

श्वेतं राजोभिः स्फुटमालतीनाम् ।

सहात्मना किंशुकरेणुरक्तं  
चक्रे त्रिवर्णं गगनं समीरः ॥

३८

जात्या विहीनास्वपि वल्लरीषु  
स्वैरं चरन्तः सततं द्विरेकाः ।  
आजानसिद्धं मधुपत्वमेव  
प्रच्छन्नमन्तःस्फुट्याम्बभूवुः ॥

३९

स्पर्शेन चन्दनमहीधरमारुतस्य  
प्रोद्धिन्नकुड्मलमिषात्पुलकोज्जवलाङ्गीम् ।  
दृष्ट्वाऽविमुक्तलतिकां सहकारवल्ली  
फुलप्रसूनरुचिकैतवतो जहास ॥

४०

पुष्पौघनीरन्धितचम्पकद्वा-  
बृन्दच्छलात् प्राप्तजगज्जयेन ।  
आसन्निखाता नवहैमजैत्र-  
स्तम्भाः समन्तान्मकरध्वजेन ॥

४१

पाटीराद्रिसमीरणं परिणुदन् साकं वसन्तर्तुना  
तेजांसि प्रसवायुधस्य सरसां सारैः समाशोषयन् ।

संव्यानानि हरन् वक्षकुचतटात्पर्णः समं भूखहो  
ग्रीष्मः प्रादुरभूद्दिनं दिनमणेस्तापैस्समं द्राघयन् ॥

विवशः मुहूदो मधोवियोगा-  
दपहायैष तदा पटीरगन्धम् ।

फणिनिश्वसितैरिवानुषज्ज्ञा-  
त्प्रववाँ गन्धवहः प्रकाममुष्णः ॥ ४३

या पश्यतो जलमिव प्रतिभाति द्वे  
सैषा मरुस्थलगता मृगतृष्णिका न ।  
किन्तु प्रचण्डकिरणैस्तरणेऽविदीर्णदि-  
भूमण्डलादुदगमन्तःणिफूत्कृतानि ॥ ४४

मत्तष्टपदगणैरुपगीता  
मञ्जुसौरभज्जरीभरिताशाः ।

मञ्जिकाः कुसुमिता विरराजु-  
र्मधिवश्चियमिव प्रहसन्त्यः ॥ ४५

ग्रीष्मे नितान्तं प्रसमीक्ष्य मत्या  
ग्लानं मनोजद्वुममादरेण ।

तद्वृद्धिहेतोरिव शीतशीतै-  
र्मनांसि सिच्चन्ति रसैरजस्म ॥ ४६

क्षोणीसमालभिजटापरिष्कृता  
दिग्म्बराः प्रोज्जितपत्रवृत्तयः ।  
वर्षोष्णशीतान्यवधीर्यं पादपा  
विरेजिरे हन्त तपोधना इव ॥ ४७

तटभूरुहवृन्दमात्मपुष्टं  
परिभूतं शुचिना भृशं समीक्ष्य ।  
स्वयमापुरिहानुकम्पयेव  
प्रतिवारं बत दीनतां सरस्यः ॥ ४८

तप्तास्तटिन्यस्तपनांशुजालैः  
कृशाः शनैरापुरपामधीशम् ।  
किलद्याश्चिरं कामशरैर्निकामं  
कान्ताः कुलीना इव कान्तमिष्टम् ॥ ४९

ग्यावल्गत्कुचकुम्भघट्टितभुजस्स्तोत्तरीयैर्मुहु-  
र्धर्मस्विन्नकपोलहृद्यवदनैः कान्ताजनैरीरितान् ।  
ग्रीष्मे शीतलतालवृन्तपवनानौशीरगन्धान्विता-  
न्धन्या हन्त सिषेविरे युवजनाः  
पाटीरलिप्ताङ्गकाः ॥ ५०

छायाऽनुगच्छति सदा निजमित्रमेवे-  
 त्युन्मस्तकः प्रहृत एष जनप्रवादः ।  
 अन्यत्र सांप्रतमियं कथमित्यमर्षा-  
 च्छायांशुभिर्विटपिनामिव सञ्चहार ॥ ५१

पानीयशालामधिगम्य पान्था-  
 स्तत्पालिकादत्तजलैर्न तृप्ताः ।  
 किञ्चादरात्तद्वदनेन्दुबिम्बं  
 पीत्वा दृगन्तैः परितृप्तिमीयुः ॥ ५२

रम्यां प्रपां समधिगम्य चिरं तृपार्ती-  
 स्तत्पालिकश्लथदुक्खलकुचात्तचित्ताः ।  
 वध्वाऽङ्गर्णिल विरलिताङ्गुलिसन्नियोगं  
 मन्दं पपुः प्रतिकलं पथिकाः पयांसि ॥ ५३

परितः कुसुमानि पाटलनां  
 परिकीणानि विरेजुरुज्जवलानि ।  
 प्रमदेन वनश्रियश्वरन्त्याः  
 पदयावद्रवबिन्दुसन्निभानि ॥ ५४

मृद्धीं शिरीषसुमनोलतिकामवेक्ष्य  
 तस्या मरन्दरसच्छृष्टणलोलुगोऽपि ।

क्लान्ता भवेदिति शनैर्बुभुजे मिलिंदो  
मुग्वामिव प्रियतमां रमणो विदग्धः ॥ ५५

समीरमान्त्रिकक्षिप्तसान्द्रध्वलिविभूतिभिः ।  
ग्रहग्रस्ता इव नगाः शिरस्त्वूर्णमधूर्णयन् ॥ ५६

श्रीष्मेण सर्वमवनीतलमेक्ष्य तान्त-  
मुत्सादनार्थमिव तस्य पयोदवीरान् ।  
धाराशरौघसहितान्नदतो नितान्तं  
द्राक् प्राहिणोत् बलरिपुर्निजकामुकेण ॥ ५७

मुष्णन्भृशोष्णमवनेर्थथयन्वियुक्ता-  
स्तन्वन्त्रमोदमधिकं शिखिचातकानाम् ।  
धून्वन् दिशासु कुटजार्जुननीपरेणून्  
प्रादुर्बभूव सुरभिः पवनः पुरस्तात् ॥ ५८

स्वैरं विहृत्य सुचिरं मुद्रिता नितान्तं  
सर्वा प्रपूर्य पृथिवीं सलिलैश्च सस्यैः ।  
पश्चात् पयोदपटलेन सितासितेन  
प्रावृद् क्रिमाविरकरोत् पलितोदगमं स्वम् ॥ ५९

आकाशमच्छतरमाकलयन्हिमांशुं  
प्रियोतयन् छशजलाः सरितो वितन्वन् ।

केकिव्रजं विघुरयन्कलहंसवृन्द-  
मानन्दयन्नुदयति स्म शरद्विलासः ॥ ६०

कुवर्णेषु ततः कदाचिदुचितं गोपेषु शक्रोत्सवं  
कः शक्रो ननु दैवतं हि भवतां गावश्च गोवर्धनः ।  
पूज्यास्ता अपि पूज्य एष गिरिरित्युक्त्वा तथा कारयन्  
जग्राह स्वयमिन्द्रभागमखिलं दिव्यस्वरूपो हरिः ॥  
थ्रुवैतत्तदनु रुषा कषायिताक्षः  
संवर्तप्रभृतिपयोधरानकाण्डे ।  
आहूय व्रजमखिलं प्रचण्डवृष्टच्छा  
संक्लेष्टुं त्रिदशपतिर्मुमोच भीमान् ॥ ६२

चण्डानिलप्रचलिताखिलवृक्षषण्ड-  
मुच्चैस्तरस्तनितदारितदिविभागम ।  
आसाररज्जुचयकीलितमेदिनीकं  
घोरं तदा जलधरा ववृषुस्समन्तात् ॥ ६३

यद्दृष्टच्छा परिपीडितव्रजकुलत्राणाय नारायणः  
सावें वहति स्म पाणिकमलेनोन्मूल्य गोवर्धनम् ।  
अग्रे तद्विषट्सहस्रयुवतीपीनस्तनक्षमाधरा-  
नुद्धतुं प्रथमं कृतः परिचयस्तेनेति मन्यामहे ॥ ६४

इत्थं गुप्ते गोकुले तेन वीर्या-  
न्मिथ्यावृत्तः सर्वथा सत्रपस्सन् ।  
तैस्तैः कृष्णं सामभिः सान्त्वयित्वा  
पाकारातिनाकिलोकं जगाम ॥

६५

गङ्गाधराध्वरिसुतो नरसिंहसूरे-  
र्यस्त्रयम्बकाध्वरिमणेश्च सुधीः कनीयान् ।

काव्येऽमुना विरचिते भगवन्तनाम्ना  
सर्गश्शुभेऽजनि मुकुन्दविलासनाम्नि ॥

६६

॥ इति श्रीमुकुन्दविलासे तृतीयसर्गः ॥



॥ चतुर्थः सर्गः ॥

अथ तां प्रकटीकृतानुरागा-  
मवलोक्य द्युमणिर्दिशं प्रतीचीम् ।  
अनया किमसौ विहर्तुमिच्छन्  
अनुरक्तोऽभिसार मन्दमन्दम् ॥

७

त्रजति द्रुतमेव धर्मरक्षमौ  
त्रजत द्रागपि यूयमात्मनीडम् ।

इति निस्वनितैस्ततैस्समन्ता-

निजगादेच मिथः पतत्रिवर्जः ॥

२

अधिपूर्वपयोधि मग्नपूर्वः

कृतमाध्यन्दिनमज्जनोऽधिगङ्गम् ।

चरमाम्बुनिधेस्तटं प्रपेदे

किमु सायन्तनमज्जनाय भानुः ॥

३

सुरवत्मंपुटे कराग्नितप्तं

दिनकृन्मण्डलजातरूपगोळम् ।

सहसा समयस्सुवर्णकारः

परिनिर्वापयति स्म पश्चिमाब्धौ ॥

४

खुरघट्टसमुत्थसान्द्रधृलि-

व्रजविस्तारपवित्रिताखिलाशम् ।

निजवत्सविलोकने समुत्कं

त्वरितं घोषमवाप गोकदम्बम् ॥

५

कुमुदे भजति क्रमात् विकासं

मुकुल्तवं च शनैश्चनैस्सरोजे ।

उभयत्र च गन्तुमक्षमत्वात्

क्षणमासन् विकला इव द्विरेफाः ॥

६

निजतापधनं ममत्वबुद्ध्या  
रविणा न्यासतया सर्मष्टिं तत् ।  
तदिदं हृदयाब्जकोशगुप्तं  
निशि चक्रे किमु चक्रवाकयुग्मम् ॥ ७

अनुलिप्तसमस्तदिग्विभागं  
परिणुन्नाखिलनेत्रनेत्रभावम् ।  
शनकैरविशत्तमः समन्ता-  
दनभिव्यक्तसमाऽसमप्रदेशम् ॥ ८

घनघूत्कृतिसान्द्रिताखिलाशं  
कलितत्रासविनिद्रिकाकलोकम् ।  
परिमुक्ततमस्तमिस्वत्यां  
निशि कामं व्यचरद्विवान्धबृन्दम् ॥ ९

रविणास्तमुपेयुषा करा ये  
परिमुक्ता अभवन् गृहेषु दीपाः ।  
परिपीय तमांसि तानि विष्व-  
रवमुः कर्ज्जलकैतवात्त एते ॥ १०

निजगर्जितकैतवेन शंसन्  
विधुमानर्तयितुं द्युरङ्गभूमौ ।

अकरोत् परिपाण्डु वासवाशां

<sup>१</sup>प्रतिसीरां सरिदीशसूत्रधारः ॥

११

करसङ्कुलिताखिलोर्मिमालं

जर्लिंघ द्रागवगाह्य शीतरश्मिः ।

तमसां पटलं ततो विभिन्न-

न्नुदयाद्रेशिश्वरं समारुरोह ॥

१२

प्रसभं विधुना विभिन्नमानं

सुतरां त्रस्तमिवान्धकारकूटम् ।

घनकुञ्जगृहेषु जीर्णकूपे-

ष्वपि च क्षमाधरकन्दरेषु लिल्ये ॥

१३

हरितो मसृणास्तमोभिरिन्दौ

धवलीकुर्वति कौमुदीसुधाभिः ।

व्यरुचन् कणिकास्तदुद्गता या

गगने ताः खलु तारकापदेशात् ॥

१४

शशिलक्ष्मणि रोहिणीदृगम्भो-

रुहलग्नाञ्जनबिन्दुतां विभाव्य ।

1 प्रतिसीरा - A screen, Curtain.

अलिनादमिषान्मिथो वदन्त्यो

विहसन्ति स्म सलीलमुत्पलित्यः ॥

१५

कुमुदेषु विकस्वरेषु कामं

मरुदुल्लोलतरङ्गकम्पितेषु ।

भ्रमरा मुदितास्समन्वभूव-

न्निव सन्तः किमु लोलिकाविहारम् ॥ १६

रचयशशशिनस्तरोरवस्ता-

त्रप्रविकीर्णा विटपान्तरान्तरोत्थाः ।

पतितान्यनिलश्लथानि विष्व-

कुकुसुमानीव विरेजुरुज्जवलानि ॥

१७

रजनीकररश्मिभिस्तदानीः

कृतसम्पर्कतया मुहुस्सवन्तः ।

शशिकान्तधराधरा धरण्यां

तिदशेन्द्रद्विरदं समन्वकुर्वन् ॥

१८

अनुरूपविभूषणाभिरामाः

कलिताञ्चद्ववलांशुकावकुण्ठाः ।

अवनावभिसारिकाश्चरन्त्यः

तुहिनांशोरधिदेवता इवाऽसन् ॥

१९

हिमदीधितिरश्मपारणाभिः

प्रतिलब्धप्रमदाश्चकोरवर्गः ।

अमुमत्र ससर्ज यस्तमुच्चै-

विधिमातुष्टुवुरारवापदेशात् ॥

२०

अथ दैत्यमरिष्टसंज्ञमेकं

वृषवेषं विच्चरन्तमेष्टयः शौरिः ।

अवलम्ब्य विषाणयोर्बलेन ॥

त्वरितं प्रेतपतेः पुरं निनाय ॥

२१

शरदुज्जवलचन्द्रचन्द्रिकाभिः-

विलसन्त्यां निशि जातु गोपिकाभिः ।

सहितस्स करीव वाशिताभिः-

विजहाराऽथ यथाऽभिलापमित्थम् ॥

२२

मुखरे निनदे विपच्छिकाना-

मनुगायत्यपि गोपिकासमाजे ।

कलयन् प्रमदेन वेणुनादं

मुरवैरी मधुरं जगौ तदानीम् ॥

२३

चिकुरप्रकराम्बरे मुकुन्द-

ग्रथिताभिर्नवपुष्पतारकाभिः ।

परितःपरिवेष्टितेन काश्चि-

न्मुखचन्द्रेण विरेजुरुज्जवलाङ्गयः ॥

२४

इदमञ्जनमक्षिसीम्नि फाले

तिलकं याकरसं तवाधरोष्ठे ।

कलयाम्यहमित्यवाप्तदम्भः

स हि कासाञ्चिदजिघदाननानि ॥

२५

रहिताभरणास्समीक्ष्य काश्चि-

न्मनसा तत्क्षणनिर्मितैरनेकैः ।

परिभूषयता विभूषणैस्ताः

समदृश्यन्त मुदाऽमुनाऽङ्गकेषु ॥

२६

हरिचन्दनचर्चनापदेशा-

दथ कासाञ्चिदसौ कुचाद्रिकूटान् ।

निशितैर्नखरैर्निगूढमन्द-

स्मितगण्डं विलिलेख मन्दमन्दम् ॥

२७

शिथिलाम्बरनीविसन्निवेश-

च्छलतः काश्चिदनेन पङ्कजाक्ष्यः ।

जघनेषु घनेषु दत्तहस्ता-  
श्रकितापाङ्गतरङ्गिता बभूवुः ॥ २८

शयितासु समेत्य कासुचित् प्राक्  
तरुणीषु श्वसितोच्चलत्कुचासु ।  
व्यजनेन स वीजयन्नमूषां  
कटिदेशाद्वसनान्यपाचकार ॥ २९

अथ कासुचिदास्थितासु तावद्-  
दृढसंवाहनदानकैतवेन ।  
शनकैरयमङ्गुलीभिरासां  
परिपस्पर्शं वराङ्गमङ्गनानाम् ॥ ३०

रशनाकलनच्छलेन कासां-  
चिदसौ १वल्लवपल्लवाधराणाम् ।  
सहसा शिथिलीचकार शौरि-  
र्वसनग्रन्थनिवेशमङ्गुलीभिः ॥ ३१

अथ तस्य विजूम्भितासु चेष्टा-  
स्वधिकं पञ्चशरेण विद्धमर्माः ।

1 वल्लवानां [पल्लव इव अधरः यासां ताः] पल्लवाधराः  
गोपस्त्रियः तासाम् ।

व्रजपङ्कजलोचनाः समस्ताः

प्रथयन्ति सम निजानुरागमित्थम् ॥ ३२

गतिशिक्षितमल्लिकाक्षबृन्दं

सहसादस्सविधं समेत्य काचित् ।

ब्रुवतीव किमप्यमुष्य कर्णे

समुदच्छत्पुलकं चुचुम्ब गण्डम् ॥ ३३

मुरजेतरि कुत्रचिन्निविष्टे

निभृताङ्गिस्तरणी समेत्य काचित् ।

अमुमाशु जघान् पृष्ठभागे

निजपीनस्तनकुम्भकुड्मलेन ॥

३४

शनकैरमुना समं सहर्षं

विचरन्त्या व्रजसुन्नुवा क्याचित् ।

अवलम्ब्य करः करेण तस्य

द्रुतमात्मस्तनभूधरे न्यधायि ॥

३५

स्थितमैक्ष्य<sup>1</sup> पराङ्मुखं मुकुन्दं

सविधं काचिदुपागताऽस्य मन्दम् ।

1 आङ्गूष्ठकईक्षधातोल्यवन्तः प्रयोगः ।

अपि बन्मधुराधरोष्ठविम्बं  
करपद्मोन्नमिताननं मृगाक्षी ॥ ३६

अथ काचिदतीव मुग्धभावा  
सविधं प्राप्नुमनीश्वरा मुरारेः ।  
अनिमेषमपाययत्तदानीं  
वदनाब्जं विमलान् कटाक्षभृज्ञान् ॥ ३७

श्रवणोत्पलसौरभस्य लोभात्  
भ्रमरं काचिदवेक्ष्य निष्पतन्तम् ।  
भयकैतवतस्समालिलिङ्गं  
द्रुतमात्मस्तनमुद्विताङ्गमेनम् ॥ ३८

स्ववशीकृत एव वङ्गवीभि-  
र्बत मे दुर्लभ एष इत्यवेत्य ।  
अमुमाशु तदा विलिख्य चित्रे  
मुहुरालिङ्गति चुम्बति स्म काचित् ॥ ३९

अधिकृत्य मुकुन्दमेव काचित्  
प्रथयन्ती नितरां निजानुरागम् ।  
वनिता विविधं जगौ सहर्षं  
कलवीणाविहितप्रपञ्चमुच्चैः ॥ ४०

मुरजेतरि कुञ्जपुञ्जलीने  
 निभृतं काचिदुपेत्य पृष्ठतोऽस्य ।  
 अधरीकृतपद्मभराभ्यां  
 पिदधाति स्म विलोचने कराभ्याम् ॥ ४१

अनुरागवतीषु गोपिकासु  
 प्रतिपन्नोऽयमनेकतां मुकुन्दः ।  
 विविधान् विरचय्य बन्धभेदा-  
 १ नकृतैनाः सुखपारवश्यमुग्धाः ॥ ४२

कुतुकेन स गोपकोमलाङ्गन्याः  
 कुचयुग्मं करयोर्युगेन गृह्णन् ।  
 लिकुचद्वितयेन पञ्चबाणं  
 धुरि संद्रज्ञुमिवोद्यतो रराज ॥ ४३

अधरोष्ठरसासवं पिपासु-  
 विहरन् द्रागुपरीन्द्रनीलिकाभिः<sup>2</sup> ।  
 अलिराज इवायमम्बुजाक्षो  
 रमयन् कामपि पद्मिनीं बभासे ॥ ४४

1 मुकुन्दः एनाः सुखपारवश्यमुग्धाः अकृतेति अन्वयः ।

2 The indigo plant (Moss)

विहरन् स क्याचिदम्बुजाक्षया  
 कलिताऽन्योन्यशारीरसन्निवेशम् ।  
 निगमानिव मान्मथान् ग्रहीतुं  
 प्रतिपेदे <sup>१</sup>शफराकृति मुरारिः ॥ ४५

निजबिम्बमवेक्ष्य कौस्तुभान्त-  
 गतमन्यप्रमदाधिया विहारे ।  
 सुदृशशिथिलत्वमुद्घहन्त्या  
 हृदयज्ञः पिदधे तमम्बुजाक्षः ॥ ४६

कुचशैलभराद्वलग्नभङ्गो<sup>२</sup>  
 रभसाद्वक्षसि मा स्म भूद्वलन्त्याः ।  
 इति किन्तु करद्वयेन कस्या-  
 श्विदयं तौ वहति स्म कैटभारिः ॥ ४७

मुखरीकृतमेखलं समुद्य-  
 द्विमलस्वेदपयःकणोज्जवलास्यम् ।  
 उरसि क्षणमात्रमस्य काच्चि-  
 च्चलमानेव बभौ तटित्पयोदे ॥ ४८

1 A kind of glittering fish.

2 The waist.

निबिडे तमसां भरैनिकुञ्जे

रममाणा कथमप्यनेन मुखा ।

विटपान्तरनिर्गतेन्दुपादै-

बंत काचिच्चकिता च लज्जिताऽसीत् ॥ ४९

अमुना सुचिरं विहृत्य काचित्

पतिता वक्षसि कुण्डमलीकृताक्षम् ।

मनुते स्म तदेति निर्वृताङ्गी

किमुत रूपं उतापर्वं एषः ॥

५०

स्मरसङ्गरवेगतः श्रमार्ते

मुरविद्वेषिणि काचिदभ्युजाक्षी ।

शनकैस्तमथो विधाय चक्रे

सुदृढाश्लेषतयाऽशु निर्वृताङ्गम् ॥

५१

पुलकस्फुरदञ्जकस्य कस्या-

श्विद्मुष्योरसि वेगतो वलन्त्याः ।

रशनोदितकिञ्चिन्नीनिनाद-

च्छलतः शिक्षयति स्म बन्धभेदान् ॥

५२

अमुना सह तास्सहर्षमित्थं

रममाणा सहसा श्रवःकठोरम् ।

निनदं निशमय्य कुड्मलानां  
चकिताश्चच्चल्लोचना बभूवुः ॥ ५३

अरुणेष्वरुणप्रभाभिराशा-  
वलयेषु श्लथतारके च नाके ।  
हरति स्म हरिनिजस्वरूपा-  
ण्णनुकान्तं प्रतिदर्शितानि मन्दम् ॥ ५४

<sup>१</sup>बहुतापमपहाय तस्थिवांसं  
परित्संपरिवार्य कैटभारिम् ।  
समदृश्यत वल्लभाङ्गनाना-  
मलसामीलितलोचनस्समाजः ॥ ५५

हरिणा कृनकामसञ्जरां मां  
कथयेयुर्बत मामितीदृशीम् ।  
अविभाव्य बहुत्वमस्य ताभि-  
र्भयमन्योन्यविलोकनेन दध्रे ॥ ५६

अथ मस्तकमस्तभूधरस्य  
द्रुतमस्मिन्नुपयाति शीतभानौ ।

मुदितेन मुरारिणा विसृष्टा  
ययुरित्थं निजसंघं नीरजाक्ष्यः ॥

५७

शिथिलालकवान्तपुष्पजातै-

रिव काश्चिन्मदनं मुदाऽर्चयन्त्यः ।  
निरगुर्वजसुभ्रुवस्तदानी  
कंथमप्युज्जितमन्मथा भवांशाः ॥

५८

वसनं करपल्लवेन काश्चित्  
परिगृह्य श्लथनीविगोपकन्या:  
मुखरीकृतदिङ्मुखाः समन्ताः-  
चिनदैनिर्युरड्घिभूषणानाम् ॥

५९

रदनक्षतचिह्निताधरोष्ठं  
स्थगयन्त्यः करपल्लवेन काश्चित् ।  
नखरैर्वणिताङ्गकां व्रजन्त्यो  
विदधुः किशुकवीरुधां विलासम् ॥

६०

इति विविधविलासंवल्लीनां वनान्ते  
शरदधिकविराजंद्राजबिम्बाभिरामाम् ।  
मुररिपुरतिवाह्य प्राप्तहर्षस्त्रियामां  
द्रुतमयमपि कल्ये घोषवाटं प्रपेदे ॥

६१

गङ्गाधराध्वरिसुतो नरसिंहसूनो-  
 यस्त्र्यम्बकाध्वरिमणेश्च सुधीः कनीयान् ।  
 काव्येऽमुना विरचिते भगवन्तनाम्ना  
 सर्गश्शुभोऽजनि मुकुन्दविलासनाम्नि ॥ ६२

॥ इति श्रीमुकुन्दविलासे चतुर्थः सर्गस्समाप्तिमगमत् ॥



॥ पञ्चमः सर्गः ॥

गोपीनां तुहिनरुचिर्मुखानि दृष्ट्वा  
 नन्वेतैरंपि संमतां मया न लब्धा ।  
 का वार्ता मुखकमलेन कैटभारे-  
 रित्थं कि न्यपतदहोऽम्बुधौ निमज्ज्य ॥ १

का सन्त्याज्या ननुविरहव्यथेति काका-  
 या शंसन्निव चरणायुधश्चुकूज ।

बन्धुवस्त्वरितमुदेष्यातीति भृङ्गा  
 झङ्गारैरिव जगदुः सरोजिनीभ्यः ॥ २

पीयूषत्विष्णि चरमाम्बुधौ निमग्ने  
 घर्मांशावनुदितवत्युषस्समन्तात् ।

आरुण्यात् विशकलतारकां परत्वा-  
दाजहङ्के रजनिमुखश्रियं तदानीम् ॥ ३

कन्दपर्हवजनितश्रमाकुलानां  
सुप्तानां व्रजसरसीरुहेक्षणानाम् ।  
सम्प्राप्तं गृहतरवः शशंसुरुच्छैः  
प्रत्यूषं चटकविरावकैतवेन ॥ ४

शीतांशुं चरमधराधरस्य शृङ्खा-  
दम्भोधौ कुमुदवनी समीक्ष्य मग्नम् ।  
तद्वङ्खादिव विनिमीलिता तदानी-  
मामोदं व्यसृजदनावृताऽलिबृन्दा ॥ ५

उद्गच्छद्विनकरकोमलप्रभाभि-  
व्यालिप्ता निबिडतरं विरेजुराशाः ।  
काश्मोरञ्चतिकरजात गोतभाभि-  
वसिओभिस्सुदृश इवाऽवकुण्ठिताङ्गाः ॥ ६

आजिघ्रन्मुखममरेशदिङ्मृगाक्ष्याः  
भव्याभिर्भूवमनुरङ्गयन्प्रभाभिः ।  
आलिङ्गन् करनिकरेण पचिनीं द्रा-  
गारोहन्दिवमुदियाय सप्तसप्तिः ॥ ७

उत्तिष्ठेत्यभिदधते व भृङ्गनादै-  
 स्सूर्येण स्वकरविभावितप्रबोधा ।  
 व्यातेने कमलवनी विजृम्भमाणा  
 स्वामोदैः सुरभितदिङ्गमुखा तदानीम् ॥ ८

सायाह्ने किमु कमलेषु सामरूपा-  
 स्तिर्मांशुत्विष इह केसरात्मनाऽऽसन् ।  
 तेभ्यः किं भ्रमरकुलैरधीत्य सामा-  
 न्युदगानं मदभरितैरकारि विष्वक् ॥ ९

उज्ज्ञित्वा कुमुदवनानि चच्चरीकाः  
 फुल्लाम्भोरुहविपिनानि सेवमानाः ।  
 ये तेभ्यो नवमकरन्दमाप्तुकामाः  
 झङ्कारैजंगदुरिव प्रियाणि भूयः ॥ १०

अर्यम्णि स्पृशति करैः प्रसहृच भीताः  
 सङ्कोचं ध्रुवमधिजग्मुख्तपलिन्यः ।  
 अन्याङ्गव्यतिकरसंभवाभिषङ्गं  
 लोके जात्वपि नो सतीकुलं सहेत ॥ ११

वारुण्यादरण [श्रयण] वशाद्विधौ प्रमत्ते  
 पूष्णस्तामशरणतां गतां विभाव्य ।

उद्दीप्रद्युमणिकरः स्पृशेदितीव  
द्राक् तारा नभसि विलित्यरे भयेन ॥ १२

व्याकीर्णं गगनतले विलोक्य विष्वक्  
तारामौकितकनिकुरुम्बमंशुमाली ।  
एकैकं करनिकरेण मन्दमन्दं  
सङ्घृह्णन्निव निदधे तदात्मधाम्नि ॥ १३

आपीताऽनुपदनिबद्धमुग्धवत्सा  
विन्यस्ताऽमलखुरपूतभूमिभागाः ।  
आभीरैस्त्वरित्तरानुगम्यमाना  
निर्जर्मुनिजभवनाय गोपगावः ॥ १४

वेशमानि व्रजसरसीरुहेक्षणानां  
प्रत्यूषे रुचिरविलिप्तगोमयानि ।  
तदगात्रोल्लसितहरिमणिप्रभाभि-  
व्याकीर्णन्यभित्र इव क्षखं विरेजुः ॥ १५

स्त्रांसायतभुजयुग्मकृष्टरज्जु-  
व्यामलगत्कुचजघनत्रिकाभिरामम् ।  
उद्धिनश्चमजलविन्दुसुन्दरास्यं  
गायत्र्यो द्रधि नवमञ्जना ममन्थः ॥ १६

अम्भोदस्तनितविलासमादधानं

गम्भीरं दधिमथनवर्णं निशम्य ।  
विभ्राणा विततविचित्रपिञ्छभारा-  
नुत्केका ननुतुरधिव्रजं मयूराः ॥ १७

फालान्तर्विलसितधौतभूतिपुण्ड्रौ  
दोर्मूले विनिहितपुस्तकः प्रधावन् ।  
अन्योन्यं कलहमकाण्ड एव कुर्व-  
न्नव्राजीद्गुरुसदनं व्रजो वट्टनाम् ॥ १८

गायत्रीं क्वचिदजपन् क्वचिच्च मन्त्रै-  
र्ब्रह्माणः क्वचिदुपतस्थिरे दिनेशम् ।  
धूमोद्यत्प्रनुरपरीमलं हवींषि  
त्रेतायां जुहुवुरथाहिताग्नयोऽपि ॥ १९

सोत्कण्ठं रजनिवियोगिनो विहङ्गान्  
युज्ञानान्निजयुवतीभिराप्तहर्षन् ।  
आलोक्य व्रजसुदृशां व्रजस्तदानी-  
मस्मार्षीन्निशि कृतमारसङ्गरस्य ॥ २०

केशीति त्रिदशरिपुर्वधाय कंसे-  
नादिष्टस्तदनु समाजगाम कश्चित् ।

दृष्ट्वा तं मुररिपुरश्वरूपभाजं  
व्याधनोद्द्रुतमसुभिर्व्ययुजच्च ॥ २१

आकर्ण्य प्रमथनमस्य नारदोक्त्या  
कंसेन त्वमिह मुरारिमानयेति ।  
अक्लूरस्त्वरिततरं तदा नियुक्तो  
नन्दस्यालयमगमन्नीषुरेनम् ॥ २२

दृष्ट्वा तं तदनु निजालयं प्रपन्नं  
गोविन्दे विहितयथोचितोपचारे ।  
श्रो गन्तास्म्यहमिति जल्पति प्रपेदे  
तिग्मांशुर्गगनतलस्य मध्यदेशम् ॥ २३

हंसेषु प्रविकचपुण्डरीकषण-  
च्छायार्या मुकुलितलोचनं स्थितेषु ।  
अन्योन्यव्यतिकरतो जनैर्न जज्ञे  
हंसत्वं पृथगपि पुण्डरीकभावि ॥ २४

आसक्ता मधुनि मधुव्रतास्तदानीं  
संप्राप्तकवथनमिदं व्युदस्य वेगात् ।  
अत्यर्थं रविकिरणैः सुद्घ्यमानाः  
क्रन्दन्तो दिशि दिशि बभ्रमुर्निराशाः ॥ २५

कान्ताभिस्सह वलभीषु सच्चरन्त-  
 स्तप्तास्ता इति दधतः प्रदेशभाजः ।  
 तत्रापि प्रसरमुपेत्य भानुभासां  
 पक्षाभ्यामपिदधति<sup>1</sup> स्म ताः कपोताः ॥ २६

सारज्ञास्तपनकरैः करालिताज्ञाः  
 सन्त्यत्काखिलनवशाद्वलप्रचाराः ।  
 छायायामवनिश्चां सुखं निषणाः  
 रोमन्थं मुकुलितलोचना वितेनुः ॥ २७

शैत्यं द्रारगपहरता सरोजलाना-  
 मादिष्ठा निजकिरणाः प्रचण्डभासा ।  
 अन्वेष्टुन्तदिह निलीनमन्तरम्भ-  
 स्सञ्चेषुःशफरकदम्बकापदेशात् ॥ २८

आरुढे मुरपथमध्यमुष्णरश्मा-  
 वत्यर्थं करनिकरैरमुष्य तप्ताः ।  
 शृङ्गाग्रैर्वनमहिषा निपानतोया-  
 न्याघ्नन्तस्त्वरिततरं समाश्रयन्त ॥ २९

1 अपिदधति - धा with अपि or पि to cover.

बन्धं यो मुकुलितकैतवान्तराले

संप्राप्तः स खलु दिवाकरोग्रपादैः ।  
अत्यर्थं क्वथनमुपागते मरन्दे

चक्रन्द्र भ्रमरगणो भृशं प्रतप्तः ॥ ३०

व्यातेने धरणिरुहां रथाङ्गरम्यं

छायायां वलयितमालवालपाशम् ।  
सन्तापादभिपटलं निलीनमन्त-

गुप्तेषु व्यतनुत चन्द्रलक्ष्मशङ्काम् ॥ ३१

अत्युच्चैरशिशिरदीधितेर्मयूखै-

संप्राप्य व्यतिकरमाशु सूर्यकान्ताः ।  
सज्वालं ज्वलनकदम्बकं समन्ता-

दुदामं ववमुरगार्यकन्दरेषु ॥ ३२

औशीरव्यजननिरस्तधर्मखेदः

षाटीरद्रवकलिताङ्गरागहृच्छः ।  
अक्रूरोपहृतकथासुधावसिकतौ

मध्याह्नः खरगुडपायसेन तुल्यः ॥ ३३

नीत्वा तां व्रजसदने निशां मुरासि:

प्रत्यूषे निरगमदग्रजेन साकम् ।

इत्थं ये कथयितुमागता नृपं तं  
लोकस्तानकलयदन्तकस्य द्रूतान् ॥ ३४

अत्यर्थं विरहकदर्थिता बभूवः  
गोविन्दं चलितमवेक्ष्य गोपकान्ताः ।  
सन्तापप्रशमनकारणानि तासु  
प्रक्रान्तान्यपि विपरीततामवापुः ॥ ३५

आलीभिर्नवनलिनीदलोपकलृप्ता-  
मस्वस्था ब्रजवनिताः प्रपद्य शश्याम् ।  
कलृप्तेयं किमु बत केतकीदलौघै-  
रित्येता निभूतमुपालभन्त काश्चित् ॥ ३६

निक्षिप्तं हृदि विरहातिभाजि काश्चित्-  
निश्च्योतं बहुलपटीरपञ्चवानाम् ।  
निष्टप्तं बत कमपि द्रवं व्यजानन्  
निर्विणे क इव सुखोदयाय भावः ॥ ३७

आलीभिर्मृदुलमृणालभूषणेषु  
प्रत्यङ्गं परिकलितेषु पञ्चजाक्ष्याः ।  
स्निह्यन्त्योऽप्यहिवलयेन भर्त्सयन्ते  
हन्तैताः कथमिति मन्वते स्म काश्चित् ॥ ३८

किं वा त्वां सुखयति ताळवृन्तवातः  
पृष्ठा इत्युपचरता जनेन काश्चित् ।  
किं सख्यः शिशिराय वीजयन्ति मामि-  
त्यप्राक्षुर्ण तु परिवीजनं व्यजानन् ॥ ३९

अत्यर्थं विरहहुताशनेन तप्ता  
इत्यादौ कलितपटीरपञ्चलेपाः ।  
आलीभिस्तदनु हिमान्बुसिक्तगात्राः  
सन्तापं कतिचन नो जहुस्तथाऽपि ॥ ४०

नीत्वाऽमुं त्वरितमितः सरोरुहाक्षं  
क्रूरं यश्चरितमिहेदृशं ततान् ।  
अक्रूरः कथमभिधीयते सलोकै-  
रित्येतान् व्रजहरिणीदृशो निनिन्दुः ॥ ४१

पश्चाधर्थं गगनमलञ्ज्ञरोतिं भानुः  
किं वाऽद्य व्रतदिवसो यतो न भुज्ञे ।  
इत्युक्ताः कतिचन सुभ्रुवः सखीभि-  
र्हा ! दैवं परिणतमीदृगित्यवोचन् ॥ ४२

1 ईद्वशकूरकर्मकारिणमकूरं कथं वदन्ति जनाः ।

का वा सा ? सखि ! मनसि व्यथा तवास्ते  
 क्षामत्वं भजति तनुर्यथा निकामम् ॥  
 इत्येवं कतिचन गोपिकासखीभिः  
 पृष्ठा या व्यथयति सेयमित्यवोचन् ॥ ४३

मां पूर्वं क्षणमनवेक्ष्य विह्वलाङ्गः  
 किं प्राप्तामपि सविधं न भाषसेऽद्य ।  
 इत्यालीवचननिबोधिताश्च काञ्छि-  
 न्न प्रापुर्वंजहरिणेक्षणाःस्वबोधम् ॥ ४४

गोविन्दाहृतहृदया विलासवत्यः  
 सञ्जाता बत सदसद्वेकमुग्धाः ।  
 सन्तप्ताः स्मरमलयानिलेन्दुपादै-  
 रित्येतान् करुणमुपालभन्त सर्वाः ॥ ४५

तप्तां मामतिमुखयिष्यतीति बुद्ध्या  
 शीतांशुः सुतनु भया निषेव्यमाणः ।  
 हा हन्त ! प्रतपति भानुवन्मयूखै-  
 विस्त्रब्धे किमुचितमस्य पातकित्वम् ॥ ४६

संभूतिर्ननु कलशाम्बुधेर्निवासः  
 प्रालेयाचलतनयाधिनाथमौलौ ।

स्ववृक्षाः सहजनुषाः, स्वसा च लक्ष्मीः,

इन्दो किं वरं अबलावपीडनं ते ? || ४७

चन्द्र त्वं विरहिजनव्यथां वितन्वन्

केनाऽऽदौ हरनिटिलगिना न दग्धः ।

ग्राहैः कि न च कबलीकृतः पयोधौ

शप्तस्सन्नपि गुरुणा न किं प्रणष्टः || ४८

संभूतिस्तव विषधौ विषेण साकं

वन्धुत्वं विषगलमस्तके निवासः ।

धिक् दोषाकर इति च श्रुतोऽसि नाम्ना

तन्मां त्वं व्यथयसि युक्तमेव तत्ते || ४९

नाम्भोधे: कतिभिरभावि बुद्बुदौधै-

रिन्दो ! कः कथय ततस्तवातिरेकः ।

आः ! ज्ञातं वहसि वपुर्मलीमसं त्वं

चारित्रं तदुचितमित्थमादधासि ॥

५०

अत्युग्रैः करनिकरैरिहाङ्गकानि

प्रत्यक्षं (त्यङ्गं) प्रतपति पापिनि त्वयीन्दो !

विख्यातिशिशिरकरः सुधाकरश्च-

त्युद्भूताऽसदृशतया न तु प्रतीष्टा ॥

५१

हीनः सन्नुदयसि सर्वथा कलाभिः  
 संप्राप्योदयमचिराद्विनङ्क्ष्यसि त्वम् ।  
 ईदृक्षः किमनपराधिनीं मृगाङ्क्ष !  
 किलष्टां [किलश्टां] मां रचयसि पातकस्य पात्रम् ॥

नन्वेतत् कुचयुगलं न कोकयुगमं  
 वेणीयं न भवति सिह्मिकातनूजः ।  
 वक्त्रं मे न तु सरसीरुहं वृथा मां  
 किलश्नासि, प्रतिभट्संशयो न तेऽहम् ? ॥ ५३

नञ्चेषुः प्रसवधनुस्त्वमङ्गहीनो-  
 उप्येवं मां व्यथयसि पातकिन् मनोभूः ! ।  
 साङ्गश्चेद् दृढधनुराप्तपूर्णशस्त्रः  
 का वार्ता भवतु विधातुरेव सृष्टिः ॥ ५४

कुर्वाणस्त्वमचिराय कर्म घोरं  
 निर्दग्धस्सकलहितैषिणा शिवेन ।  
 शर्वाण्या पुनरपि जीवितोऽसि यत्तत्  
 किं तस्याः समुचितमीदृशेऽपि पापे ॥ ५५

संभूतो भवसि यतः प्रसूनधन्वन् !  
 कालुष्यं जनयसि तत्र चेतसि त्वम् ।

नो लज्जाऽजनि भुवि विक्रिया विधातुः

का वा ते बत दयनीयता मयि स्यात् ॥ ५६

नैर्घृण्यादियमबलेति मन्यमानः

प्रत्यग्रं [ हृत्युग्रं ] प्रहरसि सायकैर्यथाऽस्मान् ।  
कन्दर्प ! प्रहर तथैव तं मुरार्हं

वीरं त्वां जगति ततो विभावयामः ॥ ५७

यद्ग्रीतः स्मर ! भवतो भवो भवानी-

मधड्गे हृदि च दधैँ रमां रमेशः ।

वाग्देवीमपि वदने बिभर्ति वेधा-

स्तच्चित्रं भृशमबलां विमर्द्य कि ते ? ॥ ५८

कतुं प्रागधिजलधि प्रसहच्य सेतुं

कुर्वद्ध्रिस्सकलकुलाचलप्रमाथम् ।

स्थानं ते न स मलयाचलस्तदानी-

मुत्खातः [ अनिलज ] पवनवलीमुखैः किमासीत् ॥

ईदृक्षां विरहिजनव्यथां वितन्वन्

सच्चार्ह कलयसि सर्वतो यतस्त्वम् ।

सर्पणामिव पवनाशनप्रसिद्धि-

मिथ्याऽहं पवन ! विभावयामि तस्मात् ॥ ६०

हित्वा तं निरुपमसौरभाभिरामं  
 पाटीरं कमपि गुणं तवाऽनुरूपम् ।  
 स्थाने किं पवन ! भुजङ्गफूत्क्रियाभिः  
 संप्राप्य व्यतिकरमुण्णतामुपैति [षि] ॥ ६१  
  
 अत्यर्थं मृदुरिति शीत इत्यपि त्वं  
 विस्वम्भादनिल ! भया निषेव्यमाणः ।  
 चण्डत्वं समधिकमाश्रितः किमेवं  
 वैर्यात् रे ! वत यतसे विमूलनाय ? ॥ ६२  
  
 सम्भूता ननु भवतस्तनूनपादि-  
 त्यश्वौषं यदनिशमागमप्रपञ्चे ।  
 हा हन्त त्वयि दहति प्रकाममङ्गं  
 प्रत्यक्षं तदनिल ! सांप्रतं व्यलोकि ॥ ६३  
  
 निन्दन्त्यशशिपञ्चबाणपवनानित्यं मुहुर्गोपिकाः  
 ध्यायन्त्यः सततं सरोजनयनं रागात्तदेकाशयाः ।  
 पश्यन्त्यः परितस्तमेव सविधं प्रापय्य मञ्ज्लपतः  
 क्रीडन्त्यो विविधं यथेच्छममुना प्रापुस्तदा निवृतिम् ॥  
  
 गङ्गाधराध्वरिसुतो नरसिंहसूरे-  
 र्यस्त्र्यम्बकाध्वरिमणेश्च सुधीः कनीयान् ।

काव्येऽमुना विरचिते भगवन्तनाम्ना  
सर्गश्शुभोऽजनि मुकुन्दविलासनाम्नि ॥ ६५

॥ इति श्रीमुकुन्दविलासे पञ्चमः सर्ग ॥



॥ षष्ठः सर्गः ॥

चलितो मधुरामसौ रथी  
पथि हेमन्तविकस्वरां धराम् ।  
अवलोक्य मुरारिरग्रजं  
कथयामास कथां तदाश्रयाम् ॥

५

स्वमुदस्य तुषारसाध्वसा  
पतिमालिङ्गितुमिन्दिरा ययौ ।  
इति नाम्बुरुहाणि सब्यथा-  
न्यभितस्तद्विरहाच्चकासति ॥

२

तुहिनेन छतं सरोरुहां  
ग्लपनं वीक्ष्य सरोजबान्धवः ।  
परिहर्तुमसौ तदक्षमो  
भृशदुःखादिव मन्ददीधितिः ॥

३

तरितुं जनता भवत्यलं

न तुषाराम्बुनिधि सुदुस्तरम् ।

तरुणीकुचकुम्भसंथ्रयात्

कृतिनः केऽपि तरन्ति सांप्रतम् ॥

४

परितः पिहितानि यानि खे

भुवि तानि प्रसृतान्युद्गनि किम् ।

इति कुन्दकुलानि संवृता-

न्यधुना भान्ति तुषारमण्डलैः ॥

५

विरहार्तिजुषामनागसां

गणतः शापमवाप्य सांप्रतम् ।

परिभूत इवैष निष्प्रभ-

स्तुहिनांशुः परिदृश्यतेतराम् ॥

६

नवशाङ्कव (द्व) लभूतलेष्वमी

पतिता भान्ति तुषारविन्दवः ।

नलिनीदलसंस्तरोपरि

च्युतमुक्ता इव पान्थसुभ्रुवाम् ॥

७

हिममञ्जविनाशकारणं

वदनाम्बजं मम दूषयिष्यति ।

इति तद्भवतो दरांशुका-  
न्युपदायै ददतीव सुभ्रुवः ॥ ८

तुहिनप्रसृतिर्दिशां वधु-  
वदने लोधपरागसंहतिः ।  
तुहिनर्तुविलासिनाऽधुना  
विनिकीर्णेव विभाति सर्वतः ॥ ९

मधुना मलयाचलानिलैः  
वियुतः प्रागधुनाब्जसायकैः ।  
असहायतयेव मन्मथः  
परिजागति मुहुर्मुहुस्स्वयम् ॥ १०

जगतो विजयार्थमुन्मुखे  
चलिते योद्धरि पञ्चसायके ।  
धरणीं समयःस्समन्ततो  
हिमनीरैरिव चारु सिञ्चति ॥ ११

यदुवाच मुनिस्स वारुणिः  
पतनान्ता हि समुच्छ्रया इति ।  
स्फुट्यत्यधुना तदप्रभः  
शरदि प्राप्य समुच्छ्रयं शशी ॥ १२

विनिरुद्ध भास्वत-

स्तुहिनेषु प्रसृतेषु कौशिकाः ।

विहरन्त्यकुतोभया भयं

जनयन्तः परभूत्कदम्बके ॥

१३

कुसुमेषु तुषारवारिभिः

परिकीर्णेषु मधुव्रतव्रजः ।

अनवाप्य मरन्दमाधुरीः

भ्रमति क्रन्दति किञ्च मुहूर्ति ॥

१४

कमलेषु सपत्रकुड्मले-

ज्वपि मृष्टेषु तुषारवृष्टिभिः ।

ददति क्षणमम्बुजाकरे

कलहंसाः धवलाम्बुजभ्रमम् ॥

१५

रभसेन विजित्य सङ्गरे

ननु धर्मस्तुहिनेन सांप्रतम् ।

निवसत्यबलाकुचाचले-

ज्वधिकारासदनं निवेशितः ।

१६

धरणीधरगैरिकस्थले

प्रसृता भाति तुषारसंहतिः ।

नवधूमलता हुतोत्थिता  
स्फुरदङ्गारघने हुताशने ॥

१७

परिमुच्य सरोजभूषणा-  
न्यददानाः प्रमदं विहारिणाम् ।  
न चकासति हन्त दीर्घिकाः  
सुदृशः कोपकषायिता इव ॥

१८

इति सूक्तिभिरम्बुजेक्षणो  
बलरामस्य मनः प्रहर्षयन् ।  
विविधानि वनानि लोकयन्  
पदवीकामपि पर्यलेखयत् ॥

१९

(पञ्चभिः कुलकम्)

विकसत्कुमुदावलीसजा  
परिणद्वासितशैवलालकाम् ।  
विदलत्कुमुमैस्तटद्वृमै-  
र्मधुरोत्तंसविराजितामिव ॥

२०

अमराश्रितफुल्लपञ्चूजै-  
स्तिलकालङ्कृतभासुराननाम् ।

विकसच्छफरीविलोचनां

विलसच्चक्रसमुञ्चतस्तनीम् ॥

२१

असिताम्बुरुहावलीपरि-

स्फुटरोमालिमनोहरोदरीम् ।

चलवीचिवलीसमुज्ज्वलां

भ्रमदावर्तगभीरनाभिकाम् ॥

२२

कलहंसकदम्बमेखलां

पुलिनोच्छायिनितम्बमण्डलाम् :

नवकाशदुकूलधारिणीं

प्रहसन्तीमिव फेनकैतवात् ॥

२३

द्विजकूजितमञ्जुभाषिणीं

जलराशेरभिसारिणीमिव ।

यमुनामवनीविलासिनीं

मृगनाभीतिलकायितां यथौ ॥

२४

यमुनासलिलैनिजप्रभां

गमिते कैरवपञ्चजन्मे ।

इतरेतरबोधसाधिके

मुकुलत्वस्फुटते बभूवतुः ॥

२५

असितत्वमवाप्तमभसः

प्रभया कान्तमुपेत्य कातरा ।  
बुद्धे सविधे विहारिणं  
न मराली स च तां तथाविधाम् ॥ २६

तटमेकमुपाश्रितं मृगं-

रितरत्तीरमभूत्तरकुभिः ।  
उभयप्रतिबिम्बमभसि  
क्षणमृष्याश्रमविभ्रमं दधौ ॥ २७

विटपिच्युतपुष्पकंतवात्

तटनिक्षिप्तसमुज्ज्वलाशुकाः ।  
जलजच्छददर्शिताननाः  
सरिदन्तर्विविशुः किमङ्गनाः ॥ २८

विहरत्कलहंसकूजित-

च्छलतः संप्रति मुरधभाषिणीम् ।  
अनुवीचि करैः सृशन् - रवि-  
स्तनयां लालयतीव सादरम् ॥ २९

अवलोक्य जले पणिश्वरः

स्थितमब्जेक्षणमादिपूरुषम् ।

स्तुतिभिस्तमतोषयन्मुहु-

मुहुरक्रूर इति प्रहर्षभाक् ॥

३०

कमठाकृतिमेत्य यो भवा-

नवहन्मन्दरमिन्दिरशया ।

अरविन्ददृगिन्दुसुन्दरा-

नन तस्मै नतिमादधार्मि ते ॥

३१

ग्रलयाम्बुनिधेः स्वदंष्ट्रया

घरणीमुद्धरति स्म यो भवान् ।

परिशृङ्ख वराहविश्वहे

ननु तस्मै नतिमादधार्मि ते ॥

३२

नुहरित्वमवाप्य यो भवा-

न्नखनिभिन्नहिरण्यदानवः ।

घरणीममराग्रणीरया-

ननु तस्मै नतिमादधार्मि ते

३३

अर्वानि गगनं बर्लि बला-

दतिखवर्कृतिमेत्य यो भवान् ।

ज्ञटिति त्रिभिराक्रमि क्रमैः

क्रमशः सङ्क्रमतां मनस्त्वयि ॥

३४

क्षितिभृत्कुलमेकविशतिं

ननु वारान्प्रजिगाय यो भवान् ।

तदसृगिभरतीतृपत्तिपृन्

स गतिः काश्यपसात्कृतक्षितिः

३५

अभवद्रजसा शिलाऽबला

भवतो यस्य पदाम्बुजस्पृशा ।

तृणमस्त्रमरावरिः सखा

स गतिर्मै दशकन्धरान्तकः ॥

३६

हलभृद्बलवान् बलाभिधः

प्रसभधर्वंसितदानवव्रजः ।

यमुनां परिभेत्स्यते भवान्

ननु तस्मै नतिमादधार्मि ते ॥

३७

अतिशेषमहीशानं परं

प्रथयन् धर्ममुदच्चयन्दयाम् ।

परिमोहयति स्म यो जगत्

ननु तस्मै नतिमादधार्मि ते ॥

३८

असितासिलतालसत्करो

हयसादित्वमवाप्य यो भवान् ।

यवनैरवनिं वियोजये-

न्ननु तस्मै नतिमादधामि ते ॥

३९

कृतमेभिरपेतविप्लवं

भवदंशैस्तदिदं जगत्त्रयम् ।

विभवं भवतस्तद्बुतं

भगवन् वर्णयितुं यतेत कः ॥

४०

इति तन्नुतितुष्टमानसः

चलितप्रोज्जिज्ञतभानुजातटः ।

अधरीकृतगोत्रभित्पुरीं

मधुरां वीक्ष्य जगाद सोऽग्रजम् ॥

४१

अधरीकृतविन्ध्यभूधरैः

प्रतिभिन्ना ननु सौघमौलिभिः ।

वहतीव वियन्नदी मुहुः

प्रतिसौधं जलयन्त्रकैतवात् ॥

४२

क्षणमप्यनवाप्तविश्रमं

प्रतिपन्नश्रममंशुमालिनम् ।

नगरी सततं पताकिका-  
व्यजनैर्वीजयतीव सादरम् ॥

४३

इह सालसरीसृपावलिः  
परितस्संप्रति कुण्डलीभवन् ।  
विशदीकुरुते निजं फणा-  
पटलप्रोन्नतसौधकैतवात् ॥

४४

गगनं तरतो विवस्वतः  
श्रमनुत्यै पुरि सौधसञ्चयः ।  
पवनात्मभुवः पयोनिधौ  
धुरि मैनाक इवाऽयमुत्थितः ॥

४५

परिधापयसि स्फुरन्त्यमी  
विविधग्राहगणा भयानकाः ।  
विहरन्त इवाऽभितस्तरां  
जलधौ वारिधरा जलैषिणः ॥

४६

परिधाम्बुनि बिन्विता पुरी  
तनितुं भर्तुरहर्निशं हितम् ।  
विदलत्कमलोत्पलच्छलात्  
पथि जागति विकस्वरेक्षणा ॥

४७

परिधाऽभिवृता पताकिको-

ज्ज्वलसौधा नगरी विभात्यसो ।

परिणद्धपटोन्नतध्वजा

विचरन्ती तरुणीव वारिधौ ॥

४८

अदयोद्यतभीषणाऽसिभिः

परितसंवृतमुद्धृटैर्भटैः ।

इह गोपुरदेहलीद्वयं

मरुतां विप्रतिभाति दुर्गमम् ॥

४९

नवकाञ्चनरूप्यसद्बनां

प्रसृतायां त्विषि सर्वतः पुरे ।

इह कोकचकोरपत्रिणः

प्रमदं बिश्रिति भूरि सर्वदा ॥

५०

अयमत्र गतागतप्रजा-

चलवीचिस्फुटरत्नसञ्चयः ।

परिगर्जन्ति राजवर्धितः

कनकौर्वो विपणीपयोनिधिः ॥

५१

स्तुतिमाकलयन्निजारव-

च्छलतस्सौरभवस्तुसन्ततेः ।

ब्रमति ब्रमरव्रजः स्फुटः

प्रमदेनाऽधिविलेपनापणम् ॥

५२

जितमेघरवो वणिगवधू-

जनगानैरनुनादितो भृशम् ।

बधिरीकृतदिग्वधूश्रुति-

विलसत्यत्र धरदृजध्वनिः ॥

५३

भुवमेणमदाऽधिवासितां

परितः संपततो मधुव्रतान् ।

इह मुग्धवणिगवधूजनः

ननु तत्खड्धधिया जिघृक्षति ॥

५४

हृतदाडिमजम्बुविभ्रमा-

निह माणिक्यबलद्विषन्मणीन् ।

अवलोक्य शुकाश्चरन्त्यमी

प्रतिरत्नापणमृद्धसम्मदाः ॥

५५

पुरि नीलपताकया मुहु-

मुहुरेतत्परिलिह्यते नभः ।

अत एव बिर्भति सर्वतो

रुचिराशा तंपनोपलच्छविम् ॥

५६

रविकान्तमहाशिलोदगमै-

रनुमध्याह्नमपि कवथज्जले ।

इह माङ्गलिके धंटवजें

पचमाना इव भान्ति पुत्रिकाः ॥

५७

वृतकाच्चनसालभञ्जिकाः

पुरि सौधा मधवन्मणीकृताः ।

कमलाऽश्चितमुग्धवक्षसं

कमलाक्षं नु विडम्बयन्त्यमी ॥

५८

मधवद्विधुकान्तबद्धयो-

र्गृहयोः सम्मिलिते मिथः छवी ।

यमुनासुरसिंधुसङ्गम-

भ्रममेतं विभृतः पुरे सदा ॥

५९

किमु माघवनं वनं वनं

किमिदं मानसिजं सरः सरः ।

किमु केलिगिरिर्मरुद्गिरिः

प्रतियन्तीति जना विलोकिनाः ॥

६०

इति तामभितो विलोकयन्  
मधुरामुच्छृतसालशोभिताम् ।

विविधापणवीथिकोज्जवला-  
मभजद्राजपथं यद्गद्धहः ॥

६१

हत्वाऽथ कारुमकृतात्ममतं क्षणेन  
मालाकृतं कृतमतं विनियोज्य भूत्या ।  
कुब्जामृजुं निजनिदेशकरीं च कृत्वा  
द्वारं मुरारिरभजन्निजमातुलस्य ॥

६२

प्राप्तावुभौ हरिबलावधिगम्यं कंसे-  
नारूढमञ्चशिखरेण रुषाऽकुलेन ।  
चाणूरमुष्टिकयुगं मदवारणश्च  
व्यापादनार्थमनयोस्सहसा न्ययोजि ॥

६३

आयान्तमेत्य करिणं वत तद्विषाणे  
व्याकृष्य तूर्णमिभसादिनमाजघान ।

इत्युत्कुधौ झटिति धावनमादधानौ

मझावपि प्रहरति स्म मधुप्रमाथी ॥

६४

इत्थं मुरारिबलयोरनयेन कंसः  
प्राग्भाररोषकलुषीकृतलोचनान्तः ।

बन्धं बतैच्छदनयोरविभावितौजा-  
स्तां देवकीं च वसुदेवमथो व्यनिन्दीत् ॥ ६५

उत्प्लुत्य मञ्चमभिगृह्य शिरोरुहेषु  
व्याविध्य विश्वविजयी विनिपात्य भूमौ ।  
आक्रम्य चोरसि हरिः प्रममाथ कंसं  
रम्भावनीरुहमिव द्विरदाधिराजः ॥ ६६

अथ विनिहतकंसस्तोषिताऽमर्त्यमर्त्यः  
प्रशमितजनकाम्बामानसोद्दामदाहः ।  
पुरवरमधितङ्ठावुग्रसेनं नुपत्वे  
मुररिपुरभिषिच्य प्राप्तसान्द्रप्रमोदः ॥ ६७

गङ्गाधराध्वरिसुतो नरहिमूरे:  
यस्त्वयम्बकाध्वरिमणेश्च सुधीः कनीयान् ।  
काव्येऽमुना विरचिते भगवन्तनाम्ना  
सर्गश्शभोऽजानि मुकुन्दविलासनाम्नि ॥ ६८  
॥ इति श्रीमुकुन्दवलासे षष्ठः सर्गः ॥



1 अधिपूर्वक “छठा गतिनिवृत्ता” विति धातोर्लिट प्रथमपुस्त्खे-  
कवचनेऽयं प्रयोगः ।

## ॥ सप्तमः सर्गः ॥

अत्राऽनेतुं वृत्रशत्रोस्सुधर्मा-  
 मादिष्टस्सन् मारुतो माधवेन ।  
 अध्वानं तं कम्बिदुल्लङ्घन्य दूरा-  
 दैक्षिष द्यामालयं निर्जराणाम् ॥ १

सोऽयं हृद्यां राजतै राजहंसै-  
 मर्मीनैर्नात्तारलतवर्णेविचिन्नाम् ।  
 दृश्यां पद्मैः काञ्चनैरिन्द्रनीलां  
 गुञ्जदभज्जाध्यासितेराप गज्जाति ॥ २

पश्चादौधर्वं पाश्वंतश्चान्तरिक्षं  
 छायाश्यामीभूततोयावहन्ती ।  
 व्योमन्येषा पश्यतामभ्रगज्जा  
 भास्वत्कन्यामोहमाविष्करोति ॥ ३

पाथस्सज्जात् भानुभासामधस्तात्  
 प्राप्तश्वाथं सत्वरं पर्युदस्य ।  
 वर्गाः सर्वे यादसामृधर्वभागे  
 विष्वकू यस्यामहि नूतं चरन्ति ॥ ४

हन्त ! स्वर्गे कान्तसंयोगजन्यं  
हर्षं गङ्गाजनश्नुवाना चिरेण ।

दुःखान्तियोन्निद्रपद्मापदेशा-  
देषा लोकैर्जागरूकाप्यते किम् ॥ ५

स्ववारंस्त्रीलोचनैर्निन्मेषै-  
भूयो भूयः शिक्षितान्यम्बुजानि ।  
उन्निद्रत्वं तादृगभ्येत्य नित्यं  
यस्या नूनं भूरि शोभां भजन्ति ॥ ६

कान्तं यस्यामध्रमुर्गहिमानं  
प्राप्ताऽश्लेषं पाण्डरोत्तुङ्गभङ्गैः ।  
घूर्णं घूर्णं तूर्णमप्रेक्षमाणा  
क्रन्दं क्रन्दं नो मनस्स्थर्यमेति ॥ ७

क्रीडन्तीनां चक्रमं द्यौवध्नानां  
दर्शं दर्शं सत्रपा राजहंसाः ।  
तस्यावाप्त्यं वारिमध्ये वसन्तः  
नित्यं यस्यां किं तपस्यां चरन्ति ॥ ८

क्रीडन्तीनां देववाराङ्गनानां  
वक्षोजेभ्यश्चन्दनेषु च्युतेषु ।

पञ्चीभूतेष्वन्तरभः प्रपेदे

दिष्टचा तत्राप्यम्बुजैः पञ्चजत्वम् ॥

९

यत्राऽधस्ताद्बिम्बितं चक्रमुव्याः

स्पष्ट दृष्ट्वा कर्मदेवास्तटस्थाः ।

इष्टं तप्तं दत्तमत्रेति हृष्टाः

स्थानं तत्राऽदर्शयन्त्यप्सरोभ्यः ॥

१०

उल्लङ्घ्याऽथ स्वर्धुनीगन्धवाहः

पाथोजानां सौरभैर्मासिलोऽनि ।

यस्याः सान्द्रैश्शीकरैश्शीतलस्सन्

भेजे शक्रानन्दनं नन्दनं सः ॥

११

यत्रोद्याने यौगपद्येन हृष्टः

स्वं स्वं धात्रा कलृप्तमुल्लङ्घ्य कालम् ।

तैस्तैर्भविर्द्यामृतूनां समाजो

भूषं भूषं नित्यवासं तनोति ॥

१२

हृत्वा मुरधाः प्रच्युतैर्भूरुहेभ्यः

साकं पुष्पैरन्तरिक्षादुङ्घनि ।

सूत्रस्यूतिं तेष्वनासाद्य हृष्टे-

ज्वादातुं नो नापि हातुं क्षमन्ते ॥

१३

नित्यं वृक्षा यत्र पुष्पैः फलैश्च  
 प्रीति यच्छन्तीति नैतद्विचिन्म् ।  
 चित्रं त्वेतच्छाखिनः केऽपि धन्याः  
 स्वैर कामानर्थिनां पूरयन्ति ॥ १४

यस्याऽवस्ताद्भास्वतः सञ्चरिष्णो-  
 रुद्धर्वेऽरुद्धर्वे स्तप्यमानासुधाशाः ।  
 छायावात्यर्भूरुहामूर्धर्वभागे  
 लब्धानन्दाससञ्चरन्त्यप्सरोभिः ॥ १५

दृष्ट्वा सर्वं नन्दनं प्रस्थितस्य  
 व्याप्तां तुङ्गैर्गोपुरैः

१६

क्रीडन्तः प्राकर्मणा स्वर्वद्वभिः  
 यत्र प्राप्तान् भूसुराः प्रेक्ष्य वीरान् ।

दैवज्ञोऽहं वेदि भैषज्यमर्थी-  
 त्याशिःपूर्वं विकलबा व्याहरन्ति ॥ १७

भानोः पादैरह्नि तप्तास्त्रिदश्यः  
 छायावाप्त्यै चन्द्रशालाः प्रपन्नाः ।

प्राप्ते सायं सेवितुं चन्द्रपादान्

नैवाधस्तान्नावरोहन्ति ताभ्यः ॥

१८

यस्यां दृष्ट्वा नूतनाः कर्मदेवाः

स्वर्गस्त्रीणां निर्निमेषेक्षणानि ।

पश्यन्त्येता हन्त ! रुष्टाः किमस्मा-

नित्यालोच्य द्वारि तिष्ठन्ति भीताः ॥ १९

गीर्वणानां कल्पकक्षमारुहेषु

स्वैरं कामानन्वहं पूरयत्सु ।

क्रेतुं नव्यांस्तानविज्ञाय केचित्

मार्गं पृच्छन्त्याकुलाः पण्यवीथ्याः ॥

२०

यत्र प्राप्ताः कर्मदेवा विमानै-

र्वस्तुं हन्तानोक्षमाणाः स्थलानि ।

कव स्थास्यामस्सञ्चरामः कववेति

क्षिप्रं तेभ्यो नावरोहन्ति भीताः ॥

२१

दानस्त्रावश्यामगण्डाभिरामं

‘स्वेतोत्तुज्ज’ वायुरैक्षिष्ठ यस्याम् ।

नागाधीशं राजमानं चतुर्भी-

रक्षोवक्षःक्षोभदक्षैर्विषाणः ॥

२२

स्वीयं यस्मिन् कौशलं विश्वकर्मा  
 प्रादुष्कुर्वन् नन्दयामास शक्रम् ।  
 नाऽलं यस्योत्तुङ्गतायै च विन्ध्यो  
 वीक्षाच्चक्रे तं मरुद्वैजयन्तम् ॥ २३

धात्रा देवान् कुर्वता निर्निमेषा-  
 न्नाकारि क्षमा तत्र तत् साधु मन्ये ।  
 नो चेत् प्राप्ते दानवैः संप्रहारे  
 धूलीपाल्या विक्षतिः स्यात् तदक्षणाम् ॥ २४

देशः स्वर्गो यत्र पूः साऽमराव-  
 त्येते यस्यामद्भुताः कल्पकाख्याः ।  
 एतत् सर्वं सोऽपि चाचस्पतिर्वा-  
 स्तोतुं नालं का कथा मादृशानाम् ॥ २५

इत्थं चित्रां तां पुरीमीक्षमाणः  
 प्राप्ते राजद्वारमारक्षकीघैः ।  
 कीर्णं कक्ष्यास्त्वूर्णमुद्भूष्य तिस-  
 स्मुत्रामाणं चायुरैक्षिष्ट हृष्टः ॥ २६

अध्यासीनं काञ्चनं भद्रपीठं  
 लब्धाऽऽलेषं मूर्तया रांजलक्ष्म्या ।

सौऽर्यं प्रह्लो बद्धमुग्धाङ्गलिस्सन्

इत्थं मन्दं मन्दमाचष्ट वाचम् ॥

२७

गत्वा स्वर्गं देवनेतुर्निदेशा-

दत्राऽनेया सा सुधर्मा त्वयेति ।

अदिष्टस्सन् माधवेनान्तिकं ते

प्राप्तः पश्चादत्र देवः प्रमाणम् ॥

२८

वाचं तामकर्ण्य लब्धप्रहर्षे-

णादिष्टोऽसौ मारुतो वासवेन ।

स्वीयं रूपं प्राप्य वेगात् सुधर्मा-

मादाय द्रागानिनायाऽथ भूमिष्म ॥

२९

दृष्ट्वा तृणां ताँ तदानीयमानां

चित्ते तेषामेष तर्कस्तदाऽसोत् ।

किन्तु स्वर्गः किन्तु गन्धर्वलोकः

किं वा मेरुः पात्यते वायुनेति ॥

३०

द्रागामूलोन्मूलितक्षमारुहीर्घ

वेगाधाताऽपातितग्रावकूटम् ।

स्त्यायद्वीषोषाऽपूर्णदिवचक्रवालां

वायुर्भूमि प्रापयत्तां सुधर्माम् ॥

३१

स्वर्गे वातस्कन्धबन्धक्षमायां  
 यस्यां मुरधस्तम्भपारम्परीया ।  
 आचारार्था केवलं सांप्रतं स्या-  
 ज्जाता भूमौ तत्समालम्बनार्था ॥      ३२

तेनानीतां वीक्ष्य धर्मात् सुधर्मा  
 सम्मन्वानौ शिल्पिनस्साधु शिल्पम् ।  
 सार्थं हृष्टवुग्रसेनेन राजा  
 तामध्यासामासतुर्गोपवीरौ ॥      ३३

सर्वज्ञावप्यादृतं मर्त्यभावं  
 च्याचक्षाणौ जातुचिद्रामकृष्णौ ।  
 विद्यास्सर्वाः स्वाननाम्भोजभृङ्गी-  
 भावं नेतुं तावभूतां समुत्कौ ॥      ३४

ज्ञानाम्भोद्धि देशिकं प्राप्तुकामौ  
 गत्वाऽवन्तीं तत्र सान्दीपनेस्तौ ।  
 प्राप्तावन्तेवासिभावं विनीतौ  
 हृष्टौ विद्याजातमन्वग्रहीश्वाम् ॥      ३५

विद्यास्सर्वा देशिकेनैकवारं  
 नीतास्तावत् कर्णयोगोचरत्वम् ।

स्थैर्यं प्रापन्नेतयोस्ता हि लोके

बुद्धाः लुभ्धाः संपदस्सद्गुणेषु ॥

३६

नानाविद्यावैखरीभिः प्रकामं

प्राप्तोच्छ्रायौ देशिकादप्यमुष्मात्

भूयो भूयः प्रह्लभावावलम्बा-

त्तस्याऽभूतां नाभ्यसूयापदं तौ ॥

३७

यत्ते चित्ते वर्तते वाञ्छितं नौ

तत्सन्दिश्याचार्य ! कुर्याः प्रसादम् ।

इत्येवं तावभ्यधातां विनीतौ

दित्सू तस्मै दक्षिणां लब्धविद्यौ ॥

३८

विज्ञायेत्थं तन्मतं मन्यमानो

विष्णांरंशावेष सान्दीपिनिस्तौ ।

सान्द्रानन्दोदभेदरोमाच्चिताङ्ग-

स्त्रीयं पुत्रं संस्थितं याचति स्म ॥

३९

इत्थं तेनादिष्टमात्रौ तदेतत्

कृत्यं वीर्यन्मन्यमानौ सुसाधम् ।

तादृक् तस्याभीप्सितं कर्तुकमा-

वम्भोराशेस्तीरमासेदतुस्तौ ॥

४०

वीक्ष्य प्राप्तावन्तिकं रामकृष्णा-  
वाविष्कुर्वन् फेनदस्भातप्रहर्षम् ।

अद्विनूनं प्रोद्यतेर्वीचिहस्ते  
रत्नस्तोमानानिनायोपदायै ॥

४१

अविधं तुङ्गालोलकद्वोलमालं  
राजत्पाण्डुस्त्यानफेनप्रपञ्चम् ।

स्फायद्घोषोद्देजिताशाकरीन्द्रं  
दृष्ट्वा कृष्णो राममित्थं जगाद् ॥

४२

ज्वालाजालैरीर्ववह्नेस्समन्ता-  
त्प्राप्य क्वाथं वेपमानः प्रकामम् ।

सोहुं तादृग्वेदनामप्रगल्भो  
वारं वारं वारिधिः क्रन्दतीव ॥

४३

भूयो भूयस्सञ्चरद्वारिवाह-  
स्परसस्फूर्जत्फेनताराभिरामः ।

काले काले पुष्पवद्बिम्बजुष्टः  
सिन्धुव्योम्ना दृश्यते निर्विशेषः ॥

४४

आगच्छन्तीर्मन्दमन्दं ह्लियेव  
प्रीतो द्वारादापगाः प्रेक्षमाणः ।

अम्भोराशिर्वीचिहस्तैस्समुत्को

धावं धावं गाढमालिङ्गतीव ॥

४५

प्राप्तावावां काममभ्यागतावि-

त्याचक्षाणः स्वागतं गजितेन ।

अर्घ्यं पाद्यं चोद्यतैर्वीचिहस्तः

पारावारसांप्रतं यच्छतीव ॥

४६

शैलोदग्रैस्सञ्चरद्ध्रस्तरङ्ग-

भूयो भूयर्ष्टाडिताः फेनखण्डाः ।

उत्पत्याब्धेविप्रकीर्णाः समन्ता-

त्सन्दृश्यन्ते व्योम्नि तारापदेशात् ॥

४७

शञ्चस्तोमाः संप्ररूप्रवाला-

स्थायद्वन्नीसञ्जताश्वन्द्रगौराः ।

पश्यतस्मिन्नूर्मिघाताद्विषक्ताः

विभ्राजन्ते राजहंसा इवैते ॥

४८

क्षोणीभृद्धिर्गजितैर्वीचिसङ्घै-

ग्रहिर्मीनैश्चाम्बुधिर्भिषिणोऽपि ।

तैस्तैश्चेतोहारिभिर्वैस्तुजाते-

भूयो भूयः प्रेक्षणीयो विभाति ॥

४९

नानारत्नेष्वन्वहं तीरभूमि  
 नीतेष्वेतैर्विचिसङ्घैः क्रमेण ।  
 श्रेणीभूतेष्वम्बुराशेष्मन्ता-  
 देषा वेला भासते तन्मयीव ॥ ५०

मध्येतोयं बिम्बितो वारिराशौ  
 पश्य भ्राम्यन्भानुमाली विभाति ।  
 आसीनोऽसौ तुङ्गभङ्गप्लवेषु  
 प्लावं प्लावं क्रीडतीव प्रकामम् ॥ ५१

नाऽलं वेलामीक्षितं यस्य ताक्ष्यः  
 सोऽयं सिन्धुर्हन्त गावेतरोऽपि ।  
 मर्त्येनौभिस्साधनैस्तीर्यते य-  
 त्कृत्यं मन्ये तारतम्यानधीनम् ॥ ५२

शुक्तिष्वव्येरङ्ग्नितस्थं पयो य-  
 न्नाभूत्तादृक् योगतर्त्तदघनानाम् ।  
 एतास्वेव प्राप्यते मौक्तिकत्वं  
 ज्ञेयं कैर्वा वस्तुसंयोगतत्त्वम् ॥ ५३  
 त्रस्ताः पक्षान् छिन्दतः पाकशत्रो-  
 लीनाशशैला यस्य मैनाकमुख्याः ।

साकं ग्राहैरन्तरम्भश्चरन्तः

सन्दूश्यन्ते तैरमी निर्विशेषाः ॥

५४

यस्याभोगं बोद्धुमीशोऽप्यनीशो

विन्ध्यो यस्याऽगाधतां सोऽयमविधः ।

नो मर्यादां लङ्घते जातु लोके

तेषामेषा पद्धतिर्ये महान्तः ॥

५५

अविधं त्वष्ट्रा वर्तयित्रान्तराले

निक्षिप्तोऽसो चच्चलोऽल्लोलहस्तः ।

पश्यार्यं त्वं केनपुञ्जेन्दुबिम्बं

वारं वारं भ्राम्यमाणं विभाति ॥

५६

अम्भोराशेस्तुङ्गभड्गेषु विष्वक्

सङ्क्रान्तानां कैतवाद्वानुभासाम् ।

स्त्रस्ताः पाने पाथसामम्बुदेभ्यः

सौदामिन्यस्सञ्चरन्तीव यस्य ॥

५७

अम्भोराशिं पश्यतामालवाल-

भ्रान्तिं दत्ते भूतलं भोगिसञ्च ।

श्वभ्रप्रायं दृश्यते कर्कटस्थं

व्योमं स्वस्याभांवमार्दिकरोति ॥

५८

सिन्धोस्तीरे विप्रकीर्णे वराट-  
 न्राते भङ्गैराहताः कर्कटौधाः ।  
 मन्दं मन्दं सच्चरन्तो निषक्ताः  
 कुर्वन्त्येते यस्य सख्यादिवैते ॥ ५६

विष्वग्राजत्केनपुज्ञाम्बुवाहं  
 चारुस्त्यायन्मौकितकस्तोमतारम् ।  
 भास्वद्रोचिःस्वच्छशङ्खेन्दुबिम्बं  
 पश्योदन्वच्छारदं व्योम भाति ॥ ५०

पारावारं रंहसा संप्रपन्नाः  
 पाथोवाहाः सङ्ग्रहीतुं पयांसि ।  
 प्राप्ताभ्यासाः पश्य तस्माच्चिरेण  
 प्रायो गर्जन्त्यम्बरं गाहमानाः ॥ ५१

लघ्दो यस्मात् संभवो लुम्पता तं  
 वर्हिं प्रापि प्रागकीर्तिर्जलेन ।  
 पश्येदानीं पुष्णता बाडबं सा  
 दैवादम्भोराशिना पर्यमार्जि ॥ ५२

पश्यन्तौ तौ तानि तान्यद्भुतानि  
 स्मेरौ तास्ताः संज्ञपन्तौ कथाश्च ।

पुत्रो यत्राऽभूदगुरोस्संस्थितस्सः  
 क्षेत्रं पुण्यं प्रापतुस्तप्रभासम् ॥ ६३  
  
 ताभ्यां पुत्रो देशिकस्याम्बुराशिः  
 पृष्ठः प्राप्तः प्रह्लादवस्समेत्य ।  
 दैत्यं तादृग्दुर्नयैकान्तभूमिं  
 स व्याचख्यौ तं जनं पञ्चपूर्वम् ॥ ६४  
  
 इत्थं प्रीत्यालापविज्ञापितौ तौ  
 निर्भिन्दन्तावस्त्रशक्त्या पयांसि ।  
 हत्वा दैत्यं तत्र तस्यास्थिजन्यं  
 वीर्योच्छ्रायि प्रापतुः पाञ्चजन्मम् ॥ ६५  
  
 उच्चैश्शस्त्रैः वादयन्तावभीक्षणं  
 प्राप्तौ प्रीतावन्तकस्यान्तिकं तौ ।  
 'सोऽपि प्रादात् तं कुमारं सजीवं  
 यं दत्वाऽस्तां देशिकेन्द्राय हृष्टौ ॥ ६६  
  
 अभिमतविषयोपलभ्महृष्टं  
 गुरुमभिपूज्य पुनः प्रणामपूर्वम् ।

1 मातृकायां पद्मिंदं सावशेषमेवोपलब्धम् । अत्र विषयविच्छेदो माभूदिति स्वयमुत्तरार्धपूरणं कृतम् ॥

द्रुततरमभिजग्मतुस्तदानी-

मथ मधुरापुरमृद्धसम्पदेनौ ॥

६७

गङ्गाधरार्यजनुरार्यनृसिंहराय-

स्यार्यत्रियम्बकविभोरपि योजन्जन्मा ।

काव्येऽमुना विरचिते भगवन्तनाम्ना

सर्गश्शुभोऽजनि मुकुन्दविलासनाम्नि ॥ ६८

॥ इते श्रीमहाकाव्ये भगवन्तरायस्य कृतौ मुकुन्दविलासे  
सप्तमस्सर्गः ॥



॥ अष्टमः सर्गः ॥

नन्दगोपजनुषा कृतं बलात्

कंसमर्दैनमवेत्य चारतः ।

अत्यमर्षकलुषाऽशयो जरा-

सन्ध्य इत्यभिदधे स्वमन्त्रिणः ॥

१

सम्प्रति प्रतिनिहत्य कैतवात्

कंसमूर्जितयशा यद्द्वहः ।

उग्रसेनमभिषिच्य तां पुरों  
पालयन्निवसतीति हि श्रुतम् ॥ २

अभ्युदीत इह नो जगद्द्विषां  
कश्चिदङ्कुर इव द्विषत्तरोः ।  
यावदेष न गतः प्रवृद्धतां  
तावदस्य सुकरं विमूलनम् ॥ ३

गोपबालकममुं कृतानयं  
नैवं शास्म्यविगणय्य चेदहम् ।  
हीनवीर्यममरा विभाव्य मा-  
मापतेयुरिति यन्न तत्क्षमम् ॥ ४

रुद्धमूलगतिरल्पकोऽध्यरिः  
शिक्षितुं न खलु भूमजां क्षमः ।  
व्याप्तमाशु परितो वपुविषं  
न क्षमं हि भिषजां चिकित्सितुम् ॥ ५

हीनभावमवगम्य विद्विषो  
नाञ्चसा तमभियाति यो नृपः ।  
स प्रवृद्धनिजपक्षशालिना  
तेन हन्त परिभूयतेतराम् ॥ ६

मर्दितस्वसुहृदं रिपुं न यः  
 शास्ति तस्य नृपतेरनीतिजम् ।  
 दुर्यशः प्रसरति क्षमातले  
 तैलबिन्दुरिव विष्वगम्भसि ॥

७

मित्रमर्दनमहं विषहृ चे-  
 न्नैव हन्मि रिपुमुज्जितोद्यमः ।  
 भूमुजा नयवता सुहृज्जनाः  
 प्रोषिताः प्रतिकलं यथा यथा ॥

८

तं भजन्ति समये तथा तथा  
 कर्षकं कलमसञ्चया इव ।  
 विद्विषा सुमहताप्यनिर्जितः  
 स्वल्पकादभिभवं न मृष्यति ॥

९

तावदेव सुविनिग्रहे यथा  
 मज्जनिप्रसरणोन्मुखी गदा ।  
 खञ्जनः फणभुवाप्यविप्लुतः  
 किं सहेत करटस्य दुर्नयम् ॥

१०

पूर्वमर्दितसुहृद्रिपुः प्रभो-  
 नापराध्यति स यावदुच्छ्रृतः ।

स्वेष्वरेरसहमान उद्यमं  
 न्यक्क्रियां किमु सहेत तादृशीम् ॥ ११  
 स्पर्शमीषदनवाप्नुवन् बहिः  
 किं क्षमेत सहसा पदाहतिम् ।

.....

.....

१२

सोऽपि पादनिहिंति खरद्युते-  
 मृष्यते न खलु पावकोपलः ।  
 न्यक्क्रियां यदि सहे रिपोरहं  
 धिक्कृतोऽपि लघिमानमाप्नुयाम् ॥ १३

सव्यलीकमिव मित्रमज्जनात्  
 सङ्कुचत्यपि जडं सरोरुहम् ।  
 द्रोहिणं <sup>१</sup>सुहृदवैरिणं कथं  
 मर्षयेऽहमधुना विदन्नपि ॥ १४

प्राप्य दुर्नयमरेः सुहृज्जने  
 यस्तनोति कियदित्युदासिकाम् ।

1 अकारान्त : 'सुहृद' इति च प्रयोगः साधुरेव - Vide:  
 VAMA Shivaraman Apte's Dictionary - Page 1691.

तं भजन्ति न विभुं यथापुरं  
हन्त विश्लृथसमाधयः प्रजाः ॥ १५

अल्पके महति वा रिपौ नृपैः  
कल्प्यमाहितनयं विमर्शनम् ।  
कार्यमेव परमेनयोः पुन-  
र्वर्ततां समुचितस्सुमुद्यमः ॥ १६

अल्पके द्विषि विधातुमक्षमो  
भूभुजां समधिकं समुद्यमः ।  
साधनं समुचितं विना सुधीः  
कण्टकं परशुना किमुद्धरेत् ॥ १७

श्रीः सुहृज्जनमरक्षतः प्रभोः  
स्वावनं बत कथं भवेदिति ।  
शङ्कितेव चपला निसर्गतः  
स्थैर्यमत्र भजते न जातुचित् ॥ १८

अस्तु तद्वदवधीत् सबान्धवं  
हन्त तन्न विदितं मया तदा ।  
मर्षये कथमिदन्तु सांप्रतं  
यत्प्रशास्ति मधुरामरिस्स्वयम् ॥ १९

आहृताऽखिलसुरेन्द्रसंपदा  
संहृतोन्मिषदरातिना मया ।

तस्य गोपजनुषः कृतागसो  
नाऽधुना समुचितस्समाश्रयः ॥

२०

तप्तयोश्च समतामुपेतयो-  
स्साधुसन्धिरिति मन्वते बुधाः ।  
दुस्समाधिकलुषं विपर्ययं  
प्राप्तयोरिह कथं घटेत सः ॥

२१

योऽपि “कश्चिदि”ति यद्युदास्महे  
लब्धवृद्धिरिति [रति]दुस्सहो भवेत् ।  
मित्रसङ्ग्रहपरस्ततोऽपि चेत्  
वैद्यमप्रतिविधेयमापतेत् ॥

२२

यः प्रवीर इति कंसमर्दनात्  
नेहते कमपि तुल्यमात्मना ।  
तत्र विद्विषि निकामगविते  
सामदानविधिरक्षमो हि नः ॥

२३

किञ्च साहसिनि दण्डमन्तरा  
साधनवयमरौ बलाधिके ।

व्याहरन्त्यनुगुणं मनीषिण-  
स्तस्य किं समुचितोऽयमर्भकः ॥ २४

इत्थमेव विमृशन्मुहुर्मुहु-  
र्मद्दनं वरमर्रेविभावये ।  
यूथमत्र नयतत्व कोविदाः  
गौरवं वदत लाघवं तथा ॥ २५

कार्यमल्पमथवा महत्तरं  
मन्त्रिभिस्सह विमृश्य यन्मुहुः ।  
नानुतिष्ठति नृपः समुच्छ्रयं  
प्राप्य कीर्तिपदमस्तु तत्कथम् ॥ २६

अत्युदग्रमदमीलितेक्षणं  
सत्पथाऽभिमुखमेव भूपतिम् ।  
व्यातनोति किल मन्त्रिसत्तमः  
कुञ्जराधिपमिवाङ्कुशशिशतः ॥ २७

इत्युदीरितगिरं महीपर्ति  
नामतस्युमतिरर्थतोऽपि च ।  
सञ्जगाद स हि चाग्रनिर्मितं  
देवदेशिक इवामरेश्वरम् ॥ २८

यत्त्वया नरपते समीरितं

युक्तमेव तव शौर्यसम्पदः ।

तत्र किञ्चिदभिधीयते मया

विप्रतिप्रमति मासम मन्यथाः ॥

२९

यो विद्वन्नपि विचारतः पुमान्

भूमुजो नयविवर्जितां गिरम् ।

श्लाघते स नियतं मनीषिभिः

स्वामिधातक इति प्रणिन्द्यते ॥

३०

विप्रतीपवचनैरर्मणितां

भूपतेरविगणय्य यः पुनः ।

नीतिमार्गमनुवर्तते सुधीः

श्लाघ्यते स सचिवौ मनीषिभिः ॥

३१

यन्न साधु तदमात्यदुर्नयात्

साधुयद्भवति तत् स्वर्वभवात् ।

इत्थमेव निखिलं तदा तदा

कार्यतत्त्वमवगम्यते नृपैः ॥

३२

नीतिदुष्टमिदमित्युदाहरे-

द्विप्रतीपमिति हन्त कुप्यति ।

प्राप्नुयादथ पुनस्तटस्थता-

मन्यथा खलु विशङ्कुते नृपः ॥ ३३

एष कंसभगिनीतनूभवो

बन्धुरेव भवतोऽपि भूपते ।  
तं वृथा रिपुतया विभावयन्  
वैरमिच्छसि कथं बलीयसा ॥

३४

पूतनाशकटघेनुकामुरान्-

यः प्रलम्बमविलम्बमोजसा ।  
किञ्च दुष्टमवधीदरिष्टम-  
प्येष बाल इति मन्यसे कथम् ॥ ३५

स्वं निहन्तुमविलभितच्छलं

कंसमुज्जितनयं यदूद्ध्रहः ।  
जीवनावनकृते कृतोद्यमः  
सञ्जधान वद कोऽन् दुर्नयः ॥

३६

स प्रजाप्रणयसुस्थिरो मणि-

स्तप्तकाञ्चननियन्त्रितो यथा ।  
अत्पको न नियतं दुरुद्धरो  
न त्वया न जगतां त्रयेण वा ॥

३७

वाल इत्यरिमुदग्रेतेजसं  
योऽसमीक्ष्य सहसाऽभिगच्छति ।  
दीपपावकनिपातितात्मनः  
प्राप्नुयात् स शलभस्य दुर्दशाम् ॥ ३८

कंसमात्मजनकावमानिनं  
वान्धवद्विषममुं सुहृत्तया ।  
त्वं विभाव्य हृदयङ्गमं सतां  
मन्यसे कथमर्हि मुरद्विषम् ॥ ३९

दुष्टासुपगतस्मुहृत्परै-  
राहतो वरमुपेक्षितुं वुधैः ।  
अड्गुलिर्विषविसर्पदूषिता  
श्रेयसे हि भिषजा विखण्डता ॥ ४०

एप कंसमवधीद्वलानुजः  
मर्वथा न भवतः सुहृत्तया ।  
तस्य कर्तुमहितं समुद्यतः  
स्वावलेपफलमीदृगाप सः ॥ ४१

द्रोहमात्मजनके विधित्सुना  
येन चेतसि धूता न विक्रिया ।

सैष घोरचरितः कथं पुन-

वान्धवेषु विभूयान् दुष्टाम् ॥

४२

कंसमेनमनये कृतास्पदं

द्रोहिणं पितरि बान्धवेषु च ।

यत्प्रसहच मुरजिज्जघान त-

त्तर्कये स तव मित्रमित्यहम् ॥

४३

मित्रमीदृशमर्हि विभावयन्

यः स्वयं तमभिगन्तुमीहते ।

सोऽवसीदति हतोद्यमस्तथा

पङ्कमग्नचरणः करी यथा ॥

४४

लोककण्टकमनीतिभाजनं

कंसमाशु विनिहत्य तत्पदे ।

उग्रसेनमभिपिञ्चति स्म यः

सोऽयमुज्जितनयः कथञ्च न ॥

४५

सद्धूरिच्छति विरोधमेव यः

सन्धिमन्वहमसद्धूरीहते ।

तस्य याति चपलत्वमिन्दिरा

तत्प्रजा अभिभवन्ति विश्वथाः ॥

४६

यत्सुरासुरदुरासदौजसः

सर्वसम्मतगुणस्य शार्ङ्गिणः ।

संविधातुमुचितः समाश्रयः

का कथा तदिह सन्धिकर्मणि ॥

४७

उग्रसेनतनये जगद्विषि

द्वैधमत्र न बभूव यत्पुरा ।

तत्कथं भवति सम्प्रतं जग-

न्मित्रतामुपगते मुरद्विषि ॥

४८

दैन्यमत्र नवसामजं भवे-

द्वानजोऽपि न भविष्यति व्ययः ।

भेददण्डभययोः समुद्यम-

क्लेशयोस्सुहृदि सम्भवः कुतः ॥

४९

यः प्रविश्य नगरीमवन्तिका-

मध्यगीष्ट सकलाः कला गुरोः ।

इच्छतस्तदनु दक्षिणां हरि-

स्तत्तनूभवमजीवयन्मृतम् ॥

५०

यस्य सप्रणयमात्मनस्सदः

प्राभृतीकृतमभून्मरुत्वता ।

तत्प्रतीहितममानुषौजसं

नैव तेन कलहस्तव ऋमः ॥

५१

इत्थं समीरितगिरे सच्चिवाय भूपः

क्रुद्धस्स मर्दनमरेवरमित्यमंस्त ।

आप्तेरितं हितमपि व्यपवृत्तदैव-

योगस्य चित्तमधिरोहति नात्मनीनम् ॥ ५२

१। इति श्रीभगवन्तरायकृते महाकाव्ये मुकुन्दविलासे

अष्टमः सर्गः ॥



॥ नवमः सर्गः ॥

इति व्यवस्यन्मगधावनोपतिः

प्रचण्डकोपस्फुरिताधरस्तदा ।

आहूय सेनाधिकृतं बलानि नः

समाहियन्तामिति सन्दिदेश सः ॥

१

तथेति सेनापतिरुग्नेजसा

तेनानुशिष्ठो विजयाभिलाषिणा ।

बलानि सन्नाह्य विभुं न्यवेदयत्  
कृतो निदेशोऽयमशून्य इत्यसौ ॥ २

सवारबाणासितशैवलाकुलं  
धृतासिखेटव्रजमच्छकच्छपम् ।  
सितातपत्रोज्जवलफेनसान्द्रितं  
चलध्वजस्यन्दननौसमावृतम् ॥ ३

गजव्रजग्राहसमाश्रितान्तरं  
महात्वज्ञतुरज्ञौघतरज्ञसङ्कुलम् ।  
स्फुरन्प्रतापौर्वमपस्यदुद्धूटं  
बलार्णवं दुन्दुभिघोषगजितम् ॥ ४

घोटीखुरावद्वनविश्वथक्षमया  
धूलीव्रजापीतसुरापगापया ।  
भेरीध्वनिद्रावितदिक्करीन्द्रया  
समुच्चचाल त्वरितं स सेनया ॥ ५

सान्द्रावमदादिवनेस्समुत्थितं  
रजो वितानत्वमवाप्तमम्बरे ।  
निरुद्ध विष्वक् तपनातपव्रजं  
छायामिवायत्तबलस्य यास्थतः ॥ ६

क्षोणीमभिव्याप्य समन्ततस्तदा

भीमां प्रयान्तीं ध्वजिनीमवेक्ष्य ताम् ।

सृष्टिविघेरेव परेतनिश्चयं

जगाम लोको विमृशन्मुहुर्मुहुः ॥

७

तदीयनिस्साणखावकर्णनै-

विलोलकल्पोलकदम्बकैतवात् ।

प्रकम्पमापन्नभयः प्रकाशयां-

बभूव गम्भीरतरोऽपि कारिधिः ॥

८

वित्रस्तवाहारि कुलानि कानना-

न्युद्भ्रान्तहर्यक्षमृगाऽऽकुलानि च ।

तदा वभूवुर्मगधावनीपते-

र्जगत्रयव्यापिनि वाहिनीस्वने ॥

९

स्वामिन्नु[तस्मिन्नु]दग्रध्वजिनीपथोनिधौ

दिशो दश व्याप्य तदाऽभिगच्छति ।

तज्जन्यजन्यं कुतुकंदिदृक्षवः

सुरा विमानैस्त्वरितं प्रतस्थिरे ॥

१०

नास्याः पुरःस्थातुमलं सुरासुराः

किञ्चाम गोपास्त इमे हतौजसः ।

इति प्रकर्षन् महतीं तदा चमू-  
ममस्त हृष्टो मगधाऽवनीपतिः ॥ ११

नाशीरदेशप्रथमो हि योऽभवत्  
सोऽभूत्परेद्युः शिबिरस्यपृष्ठतः ।  
इति प्रकर्षन्महतीमनीकिनीं  
दिनैस्स कैश्चिन्मधुरां समासदत् ॥ १२

अथ स्वचारैः प्रथमं यदूद्धर-  
स्तदीयनिस्साणरवावकीर्णनैः ।  
ततः परं सैनिकनिस्वनैरपि  
क्षणेन जज्ञे युगपत्तदागमम् ॥ १३

वलं यदूनामखिलं पुराऽवने  
विभज्य सन्नाह्य च यन्त्रसञ्चयम् ।  
आतिष्ठ ? सन्नद्धतया त्वमित्यसौ  
तमुग्रसेनं सपदि न्यूयुजत् ॥ १४

दुरासदं धाम विचिन्त्य वैष्णवं  
समीक्ष्य सन्नाहममुष्य चामराः ।  
मुरद्विषेऽसौ मगधेश्वरस्स्वयं  
दातुं प्रपन्नो जयमित्यमंस्त ॥ १५

येनाऽवधीः कंसममुं त्वमोजसा  
तद्वर्षयाद्यात्र पुरस्थितस्य मे ।

इतीरितस्तन् मगधावनीभुजा  
समेत्य दूतो हरिमभ्यधादभीः ॥ १६

निशम्य तद्वाचिकमस्तुजेक्षणः  
स्मितेन तन्वन् विदिशो[धवला]दिशो दश ।  
कर्षन्यदूनां ध्वजिनी पयोनिधि  
रामेण सार्धं निरगात्पुराद्वहिः ॥ १७

मिथस्तदानीमुभयोरनीकयो-  
रावद्वरोपोद्वित्युध्यमानयोः ।  
हरिमहीयान् मगधावनीपते-  
वर्यलोकि लोकैर्महसा न सेनया ॥ १८

अहर्निशं व्याप्तजगथ्ये मुर-  
द्विपः प्रतापे परिजाग्रति स्फुटम् ।  
संभाव्य मार्ताण्डमतादृशद्युतिं  
रजो रुरोधाऽशु बलावमर्दजम् ॥ १९

हृतेव लोके रजसा विसारणा  
भेरीस्वनैश्चान्तरिते स्वनान्तरे ।

अभूद्धवजिन्या बलकृष्णकार्मुक-

ध्वनिर्महानात्मपरावब्रोधकः ॥

२०

सद्यस्समापद्य रजश्शनैश्शनैः

प्रतस्थिरे शोणितनिम्नगास्तदा ।

भृशानुरक्ताः पयसामधीश्वरं

प्रियं सलज्जा इव पञ्चजेक्षणाः ॥

२१

पीतासु छलीष्वसृगापगाव्रजै-

र्लब्ध्वाऽवलोका मगधेशसैनिकाः ।

अमर्षदष्टोष्ठमुदच्चितायुधा-

स्तदाभिपेतुर्यदुवीरवाहिनीम् ॥

२२

तामापतन्तीभवलोक्व भीषणा-

मभ्यद्रवद्यादववाहिनी द्रुतम् ।

मिथस्तदानीमुभयोरनीकयो-

रवर्ततायोधनमीदृशं महत् ॥

२३

सव्यापसव्यं भ्रमतां मुहुर्मुहु-

शिष्ठद्राणि चान्विष्यपरस्परं घनताम् ।

प्रचण्डकोपस्तिमितभ्रुवामभू-

दभूतपूर्वं रथिनां महन्मृधम् ॥

२४

प्रभग्नवाणासनकुन्ततोमरा

विचिन्तयन्तो गदिनो गदायुधाः ।

जघ्नुः प्रहारोद्यतहव्यवाहनं

व्याकृष्य दन्तानितरेतरं तदा ॥

२५

ममाधिनाथो जयतुं प्रकाम-

मितीरयन्तो धृतखड्गखेटकाः ।

निवृत्य चाऽपत्य पुनः पुनर्मिथो

रोषादयुध्यन्त तुरङ्गसादिनः ॥

२६

वीरोऽसि चेत् प्राक् प्रहर त्वमागतो

हन्यामहं त्वामथ दृष्टविक्रमम् ।

इत्यालपन्तोऽनुपदं पदातय-

स्तदाऽभिपेतुस्तरसा परस्परम् ॥

२७

क्षये तनोः स्वस्तरुणीसमागमं

विपर्यये प्राप्नुत निस्तुलं यशः ।

तत्संप्रहारान्न विरम्यतामिति

क्षोणीस्थितानन्विशिष्न् विमानिनः ॥

२८

तदुत्तमाङ्गं करयोरिदै द्वयं

कबन्धमेतच्चरणावमू मम ।

इत्याजिभूमि परितो निजाङ्गका-  
न्यदर्शयन्नप्सरसो विमानिः ॥

२९

उन्मीलिताक्षं विवृताननं स्फुटी-  
भवद्रदं कीर्णशिरोरुहावृतम् ।  
मुण्डौधर्वमालोक्य भयङ्गरं शिवाः  
द्रातुं वत द्रागभवन्नोश्वराः ॥

३०

श्येना रणक्षमाभिगम्य विक्षतै-  
योधाङ्गकैः सङ्कुलितां समन्ततः ।  
चञ्चूविकृष्टामिषखण्डगद्गद-  
स्वरं मुहुः स्वास्तरुणीस्समाह्नयन् ॥

३१

इति प्रहर्त्त्रोरुभयोरनीकयोः  
श्लथोद्यमा यादववीरवाहिनी ।  
वेगं जरासन्धबलस्य दुस्सहं  
विभावयन्ती शनकैरपाद्रवत् ॥

३२

दृष्ट्वा द्रवन्तीं चतुरङ्गिणीं निजा-  
न्यासाद्य चास्त्राणि सहाग्रजन्मना ।  
विशान्ममन्थ द्विषतां बलं हरि-  
निथि जलानामिव मन्दराचलः ॥

३३

- मुरद्विषस्तस्य तदा पत्रिणा-  
मादानसन्धानविमोक्षणक्रमः ।  
नादृश्यतादृश्यत किन्तु संस्थितो  
रिपुर्विमाने सुरसुभ्रुवा युतः ॥ ३४
- च्यापाद्यमाने मुरवैरिणा निजे  
बलं बली वीक्ष्य स मागधेश्वरः ।  
त्वं प्राकृतैर्वीरं नयोद्धुमर्हसी-  
त्युदीरयन् वैरिणमभ्ययादद्वृतम् ॥ ३५
- तमापतन्तं रथिनं रथी तदा  
सक्रोधमभ्यापतदम्बुजेक्षणः ।  
मुक्ताइकुशाधातभयं मदोद्धतं  
विधुर्मृगाणामिव वन्यवारणम् ॥ ३६
- तयोश्शराऽच्छादितभानुबिम्बयो-  
रस्त्रौजसा स्तम्भितसर्वलोकयोः ।  
अभूद्यदायोधनमुद्धतं चिरा-  
ददृष्टपूर्वं ददृशे सुरासुरैः ॥ ३७
- अथाव्यनेत्रेण हृताश्वसारथिः  
धर्वजातपत्राक्षरथाङ्गकूवरः ।

तदा गदापाणिरभूदवस्थितो  
धीरो धरण्यां मगधावनीपतिः ॥ ३८

करादृतं तेन विलोक्य जिष्णुना  
चक्रं निसर्गद्युतिभास्वरं निजम् ।  
अमोघतां तस्य विभावयन्नसून्  
रिरक्षिषुस्सोऽयमपाद्रवद्द्रुतम् ॥ ३९

अन्यं समारुद्ध्य रथं तदा जरा-  
सन्धस्तमभ्यद्रवदुद्यतायुधः ।  
मर्मस्वनेन प्रहृतः शरोत्तमैः  
हताश्वसूतः पुनरप्यमाद्रवत् ॥ ४०

इत्थं जितोऽष्टादशकृत्व ऊर्जितो-  
प्यसावनीशः पुरतोऽस्य वर्तितुम् ।  
स्मरन्मुहुस्तत्सचिवेरितं वचः  
पलायत स्वां मगधाधिपः पुरीम् ॥ ४१

स्वपाञ्चजन्यस्य स वादनच्छलात्  
गाढं समाश्लिष्य रणे यशःश्रियम् ।  
चुम्बनिवाम्भोरुहलोचनः पुन-  
र्हृष्टस्सराम्भो मधुराम्भीविशत् ॥ ४२

सगर्भमानैर्यदुभिविमानितो-

ज्ञानस्तदुच्छेदगति स मागधः ।

संप्राप्य कालं यावनोत्तरं पुनः

सखायमहीरकरोदथोद्यमम् ॥

४३

तथाविधं तस्य रिपोस्समुद्यमं

विभावयन् यादववीरदुस्सहम् ।

भयं न कस्मादपि यत्र सर्वथा

स तादृशं स्थानमयाचताम्बुधिम् ॥

४४

स्थाने वितीर्णेऽभिमते पयोधिना

स द्वारकास्यामरिदुस्सहां पुरीम् ।

निर्माय तस्यां च निवेश्य यादवा-

न्पुनर्मुरारिर्मधुरापुरीमगात् ॥

४५

पुरीं निरुद्धां यवनेन सेनया

विहाय तामाशु पलायनच्छलात् ।

विनिर्गतस्सोऽयमनुद्गुतोऽमुना

विवेश घोरां मुरजित्तदा गुहाम् ॥

४६

तस्मिन्निविष्टेऽनुविशन् हरिभ्रमात्

द्वारि प्रसुप्तं मुच्चकुन्दमङ्गिणा ।

निघ्नन् स तत्क्रोधकृशानुहेतिभि-

स्तूर्णं समानीयत शालभीं दशाम्

४७

ततो मुकुन्दो मुचुकुन्दवन्दित-

स्तस्मै वितीर्णोत्तमशाश्वतस्थितिः ।

बिलाद्विनिर्गत्य समृद्धसंपदं

स द्वारकां हृष्टमनाः समाययौ ॥

४८

सर्वप्रयत्नेन हतोद्यमो जरा-

सन्धो विषण्णस्सुतरां मुरद्विषम् ।

सुरासुरैरप्यविषह्यविक्रमं

विभावयन्नात्मपुरीमथासदत् ॥

४९

स्वज्ञातिसन्दर्शनलालसञ्चिरं

रामः प्रपन्नोऽथ स नन्दगोकुलम् ।

आश्वास्य गोपीर्मुरजिद्वियोगतः

स्वबान्धवैःसाकमरीरमद् भृशम् ॥

५०

शेषस्य साक्षाद्मुर्मशमूर्जितं

विभाव्य रामं वरुणेन वारुणी ।

तत्प्रीतिहेतोः प्रहिता सती तदा

प्रादुर्बभूवाऽशु कदम्बकानने ॥

५१

सौरभ्यपूराहृतषट्पदव्रजां

हृद्यगनवद्यां मदिराङ्गरीं बलः ।

अन्वग्रहीद्वज्ञवपल्लवाधरा-

उमृतेन सार्वं मुदितो मुहुर्मुहुः ॥ ५२

अथ व्रजाम्भोरुहलोचनास्सुरां

हलायुधः पाययति स्म तास्तदा ।

नेत्राननन्यकृत्तर्किशुकश्रियो

मुक्तव्यवस्था विविधं व्यजहिरे ॥ ५३

परिष्कृतां तामनुरूपवस्तुभिः

पीत्वा सुरां भूरिवलेन पायिताम् ।

आमन्ति गायन्ति नटन्ति सुभ्रुवः

क्रन्दन्ति मुह्यन्ति हसन्ति च स्म ताः ॥ ५४

सुरां पिबन्त्यश्वकेषु बिम्बिता-

न्यालोक्य काश्चित् घदनानि सुभ्रुवः ।

तेष्वादधानास्सरसीरुहभ्रमं

गृहीतुमीषुः श्रुतिभूषणाशया ॥ ५५

काश्चिज्जजल्पुः शिथिलाक्षरं भुहः

काश्चिद्विचेरुस्स्वलिताइघिवारिजम् ।

काश्चिद्विमुक्तश्रुति शिश्यरे मिथो  
व्यलम्बयन् काश्चिदवाप्तविक्रियम् ॥ ५६

हु.... लेष्वनुरागभूरुहा-  
मब्जेक्षणाभिर्विहिता नवाङ्कुराः ।  
सिक्तास्सुराभिः समदर्शयन्मुहु-  
विलोलशोणाक्षिमिषेण पञ्चवान् ॥ ५७

सुरां निपीय व्रजपञ्चजेक्षणा  
निरस्तयावद्रवदन्तवाससः ।  
गृहीतरागाननलोचनाम्बुजाः  
परां तदानीमभजन्त निर्वृतिम् ॥ ५८

अथाऽनिलं मल्लिशिरीषपाटलं  
प्रसूनसौरभ्यज्ञरीपरिष्कृतम् ।  
रामस्समाघ्राय विहर्तुमम्भसि  
व्रजाङ्गनाभिस्सममिच्छति स्म सः ॥ ५९

तत्रासमीक्ष्यानुगुणं जलाशयं  
कलिन्दकन्यां सविधे समाह्रयत् ।  
अनागतां तामवमानरोषितां  
क्रुद्धो हलेन प्रसभं चकर्ष सः ॥ ६०

व्याकृष्यमाणा बलिना बलेन सा  
 साक्षात्प्रपन्ना चकिता कलिन्दजा  
 रामं विनीता प्रणिपत्य सादरं  
 तस्याऽभिलाषं निरवर्तयत्तदा ॥ ६१

कलिन्दजामात्मवशे विधाय सः  
 ब्रजाङ्गनाभिर्विहरन् तदाऽम्भसि ।  
 अगान्मरालस्सुतरां मुदं बल-  
 स्तोषं मरालीभिरिवावृतश्चिरम् ॥ ६२

चलन्मणीकङ्कणमञ्जुशिञ्जितै-  
 रापूरिताऽशामुखरन्मुखास्तदा ।  
 मिथस्सलीलं सलिलानि चिक्षिपु-  
 र्मुहुर्मुहुर्वल्लवपल्लवाधराः ॥ ६३

स्त्रीणां कुचप्रच्युतचन्दनैर्जलं  
 यद्यामुनं प्रागभवत् सितप्रभम् ।  
 तल्लोचनाम्भोरुहविच्युताङ्गनैः  
 पुनस्तदानीं ददृशे यथास्थितम् ॥ ६४

किलन्नांशुकासु व्रजपङ्कजेक्षणा-  
 स्वङ्गानि तासां विशदानि सादरम् ।

पश्यन्निगूढस्मितमण्डलो हला-

युधस्ततस्तास्सुतरामलज्जयत् ॥

६५

प्रियेण वासस्सु हृतेषु लीलया

निषेदुषीणां भृशमाहितत्रपम् ।

पयो यदूरुद्धयसं मृगीदृशां

तदेव कण्ठद्धयसं ततोऽभवत् ॥

६६

स्वान् गोपकान्तांनयनाब्जतोऽधिकान्

विभावयन्तस्सहसा समुत्थिताः ।

अप्राप्य तैस्साम्यमथाश्रितव्रपं

मीनाः पुनर्द्रागपतन्निवाम्भसि ॥

६७

निरस्तपड़केरहसौरभेष्वमी

भृङ्गाः पतन्तो वदनेषु सुभ्रुवाम् ।

अन्याऽलिभीतिं कुटिलालक्रजे-

ष्ववादधानाः शनकैरपासृपन् ॥

६८

मुग्धाम्बुजाक्षीषु चिराय कासुचित्

भयादनीशासु विहर्तुमम्भसि ।

स्थिताः प्रतीरेषु करान् विघ्नन्वती-

स्ताः प्लावयामास हलायुधस्स्वयम् ॥

६९

स्ववाहुहारादृतकान्तकण्ठ्या

क्याचिदाश्लिष्टवपुर्हलायुधः ।

करेण तत्पीनकुचौ परामृशन्

नदीं तरीतुं कलशाविवाश्रयत् ॥ ७०

इत्थं वारिविहारनिर्वृतमनाः प्राप्तद्युतिः कृण्डली

म्लानाम्भोरुहदामनीलवसनो नीलोपलैर्मञ्जुलैः ।

दत्तैरिन्द्रिया विभूषितवपुसंप्राप्य स द्वारकां

रामो रैवतकेऽस्य तामुदवहृत्कन्यां

शुभां रेवतीम् ॥ ७१

गङ्गाधरार्यजनुरार्यनृसिंहाराय-

स्थार्यात्रियम्बकविभोरपि योऽनुजन्मा ।

काव्येऽमूना विरचिते भगवन्तनाम्ना

सर्गश्वाभोऽजनि मुकुन्दविलासनाम्नि ॥ ७२

॥ इति श्रीमुकुन्दविलासे महाकाव्ये भगवन्तरायस्य कृतिषु

नवमःस्सर्गः ॥



## ॥ दशमः सर्गः ॥

अथ कैशिकनाथस्य तनयां रुक्मणीं हरिः ।

चकमे रूपसम्पन्नां सा च तं गुणवत्तरम् ॥ १

याचितस्तेन वैदर्भस्तमनहं विभावयन् ।

अभाग्य इव संप्राप्तं भाग्यं प्रत्यक्षिपन्महत् ॥ २

शिशुपालाय तां कन्यामयाचन्मगधाधिपः ।

भीष्मकोऽप्यध्यवास्यत्तन्मुदितो वैरगौरवात् ॥ ३

श्रुत्वा तमुद्यमं तेषां नारदान्नीरजेक्षणः ।

जिवृक्षु रुक्मणीमेष विदर्भनगरीमगात् ॥ ४

स्थितः पुराद्बहिस्तत्र शच्याराधनहेतुना ।

प्राप्तां तामहरत्कन्यां हरिस्साक्षादिव श्रियम् ॥ ५

हृतायां स्वसरि स्वस्यां रुक्मणाऽनुद्रुतस्तु तम् ।

जित्वा तया पुरात्तस्मात् निर्ययौ विजयश्रिया ॥ ६

अथोग्रसेनो रुक्मण्या युक्तं मेने जनार्दनम् ।

नियत्याहितसाचिव्यं मनोरथमिवागतम् ॥ ७

वैवाहिकं स सन्नाहमन्यादृशमरीरचत् ।

तिरश्चकार येनास्य पुरी शातमुखीं पुरीम् ॥ ८

- उत्सुकैर्त्सवो दृष्टः सा सभा राजभिर्वृता ।  
वृतयाऽखिलदिकपालैरस्पर्धत् सुधर्मया ॥ ९
- अथाऽरोप्य समं वध्वा करिणां कमलेक्षणम् ।  
उग्रोऽपि वसुदेवेन राजमार्गमगाहत ॥ १०
- अध्यास्य करिणीं प्रीतः प्रियया पञ्चजेक्षणः ।  
रराज दिवमारुढो रोहिण्येव निशाकरः ॥ ११
- विवाहनैपथ्यभृतं प्रतोलीं प्रस्थितं हरिम् ।  
तन्माङ्गलिकमातोद्यं भुवनेभ्य इवाऽवदत् ॥ १२
- अथ विश्वम्भरास्वर्गबलिसद्वौकसस्तदा ।  
अभवन्नाऽनाःसर्वाः द्रष्टुमुत्सवमुत्सुकाः ॥ १३
- प्रासादान्मर्त्यवनिता विमानान्यमराङ्गनाः ।  
नागान्नाग्यस्समारुह्य ददृशुस्तौ वध्वरौ ॥ १४
- अदृष्टपूर्वं तद्द्वन्द्वं पश्यन्त्यसुरसुभ्रुवः ।  
अमंस्त चाऽनिमेषत्वं सफलं साम्प्रतं निजम् ॥ १५
- मुहुर्मुहुस्त्वन्त्यस्तन्मथुनं नागसुभ्रुवः ।  
वितीर्णरसनायुग्मं विधि चेतसि तुष्टुवुः ॥ १६
- सादरं मर्त्यसुदृशो दर्शं दर्शं वध्वरौ ।  
अनिमेषाक्षियुगलमन्वकुर्वन्सुराङ्गनाः ॥ १७

- रुक्मिण्या योजयन् कृष्णं तां च तेन स्तवास्पदम् ।  
विधिरासीज्जगत्यां हि श्लाघ्ययुक्तविधानतः ॥ १८
- अथाऽविश्विजागारद्वारं माङ्गलिकैर्घटैः ।  
जुष्टं करेणोश्चानकैरवतीर्याम्बुजेक्षणः ॥ १९
- मञ्जलालङ्कृतां रम्यां हरिः कौतुकवेदिकाम् ।  
अवाप सुदृशा साधीं प्रियः प्रीत्या प्रियामिव ॥ २०
- स वह्निसाक्षिकं तस्याः पाणिं जग्राह पाणिना ।  
आग्रद्वुरतिमुक्तायाः पञ्चवेनेव पञ्चवम् ॥ २१
- सा प्रियेण समादिष्टा विदर्भाधिपतेस्सुता ।  
जुहाव ज्वलने लाजान् लज्जाविनमितानना ॥ २२
- हुतं तया स वीताच्चिर्विर्जग्राह पावकः ।  
शान्ताकृतिरिवातिथ्यमतिथिर्विधिनान्वितम् ॥ २३
- लज्जासङ्कुचिताङ्गायाः प्रियायाः पादपञ्चजम् ।  
अदमन्यारोपयामास स्थैर्यमापादयन् हरिः ॥ २४
- इत्थं निर्वर्त्य विधिवद्विधिज्ञः पाणिपीडनम् ।  
रममाणस्तया साधीं निर्वृतोऽभूच्चिरं हरिः ॥ २५
- निर्वृता सा च सुश्रोणी रुक्मिणी रुक्मभूषिता ।  
प्रद्युम्नादीन्सुतानष्टावसूताऽशागजानिव ॥ २६

- अरीरमदसावष्टौ सत्यभामादिकाः स्त्रियः ।  
अन्याष्ठोश्शासाहस्रीश्चोपयम्याभुजेक्षणः ॥ २७
- प्रार्थितो जिष्णुना कृष्णः प्रतस्थे सत्यभामया ।  
सताक्षर्यो नरकात्त्रातुं भुवनं नरकादिव ॥ २८
- पुरं प्राग्ज्योतिषं प्राप्य निहतारातिसैनिकः ।  
चक्रेण नरकं चक्रे चक्रं चक्रधरो भुवः ॥ २९
- अभयं याचितस्तस्य सन्तत्यै धरया हरिः ।  
दत्त्वा तद् दातुं आपद् द्यां अदितेरथ कुण्डले ॥ ३०
- शक्रेण पूजिते कृष्णे शची सत्यामपूजयत् ।  
न तस्यै पारिजातस्य प्रसूनं मानुषीत्यदात् ॥ ३१
- शच्यवज्ञाकुपितया प्रेरितस्तस्यभामया ।  
धमन्याऽग्निरिव धमातस्तेजसा ववृधे हरिः ॥ ३२
- प्रविश्य नन्दनं शच्याः नन्दनं नन्दनन्दनः ।  
मन्दराचलधीरस्त मन्दारमहरद्दुमम् ॥ ३३
- ततोऽभियातो हरिणा पारिजाताहरो हरिः ।  
विनिजित्य पुनस्तस्मै प्रह्वः प्रादादनोकहम् ॥ ३४
- पुनरप्यपितं साम्ना शक्रेण मुरजिद्दुमम् ।  
आदाय हर्षयन्सत्यामाविशद्वारकां पुरीम् ॥ ३५

- उषया छन्नना पौत्रो हारितस्सत्यभामया ।  
बाणेन पाशैर्बद्धश्चेत्यश्रौषीन्नारदाद्धरिः ॥ ३६
- उपलभ्य ततः पौत्रप्रवृत्तिं कुपितो भृशम् ।  
बाणाय पञ्चबाणाय हरिर्हर इवाऽभवत् ॥ ३७
- वधाय प्रस्थितशशत्रोस्तस्याऽवनकृतं युधि ।  
संप्राप्तं प्रमथैस्सार्थं जिगाय वृषभध्वजम् ॥ ३८
- क्रोधाज्यपूरितः कृष्णकृष्णवत्मा व्यनीनशत् ।  
प्रचण्डबाणदोर्दण्डखाण्डवारण्यमोजसा ॥ ३९
- स्फुरच्चक्रस्ततशशत्रोशिशरच्छेत्तुं समुद्यतः ।  
याचितशशम्भुना साम्ना तं मुमोचानुकम्मया ॥ ४०
- विमुच्य पाशबन्धात्तमनिरुद्धं सहोषया ।  
द्वारकामाजगामाऽसौ नेता नीत्येव विक्रमम् ॥ ४१
- स्पर्धमानं ततस्तेन पौण्ड्रकं रूपलक्षणैः ।  
निन्ये स तत्पुरीं गत्वा चक्राग्नौ शालभीं दशाम् ॥ ४२
- अथ मित्रवधकुद्धे प्राप्ते काशीपतौ हरिः ।  
छित्वा चक्रेण मूर्धानं द्रुतं तस्याक्षिपत्पुरे ॥ ४३
- पुत्रो जनकशीर्षं तज्जन्यशीर्षिण मुरारिणा ।  
दृष्ट्वारिभीषणां मायामयाचत्तपसा हरम् ॥ ४४

- माययोत्थामथाकिलष्टामालोक्य द्वारकौकसा  
प्रेरितं तेन चक्रं तामदहत्तं च काशिपम् ॥ ४५
- जित्वा च वैरिणां बृन्दमविशद्वारकुं हरिः ।  
निहत्य करिणां कूटं गुहामिव मृगाधिपः ॥ ४६
- जातोऽथ जाम्बवत्पुत्रां जाम्बवत्यां जनार्दनात् ।  
साम्बो दुर्योधनसुतां मूर्तिमत्तां मुदाऽहरत् ॥ ४७
- संवृतं कौरवैः कन्याहारिणं साम्बमोजसा ।  
प्राप मोचयितुं साम्ना मुसली हस्तिनापुरम् ॥ ४८
- न्यकृतः कौरवैर्मत्तैरननुष्ठितवाच्छितः ।  
चुक्रोध रामस्सुतरां पादाहत इवोरणः ॥ ४९
- चकर्ष नगरं तस्य हलेन स हलायुधः ।  
हनूमानिव वालेन शृङ्गं द्रोणगिरेरिव ॥ ५०
- लाङ्गलेन बलात्कृष्टा सादृप्राकारतोरणा ।  
हस्तिनानगरी क्रोधं सेहे न हलिनस्तदा ॥ ५१
- ततस्तत्कर्मणा सर्वे सातङ्काः कुरवो भृशम् ।  
सप्रणामममुच्चन्त सजार्नि साम्बमञ्जसा ॥ ५२
- विवेश द्वारकाद्वारं समं साम्बेन लाङ्गली ॥ ५३  
अनुरागेण संपृक्तः प्रियमान इव प्रियः ? ॥ ५३

- हरिर्वद्धकुमाराभ्यां प्राप्तं रामममन्यत ।  
निजकीर्तिप्रतापाभ्यां मूर्तिमद्भ्यामिवावृतम् ॥ ५४
- अथ रामं वने स्त्रीभिः क्रीडन्तं द्विविदः कपिः ।  
वियोजयन्निवात्मानमसुभिर्द्विगदुद्रवत् ॥ ५५
- रामोत्तमाङ्गे कपिना पातितो धरणीधरः ।  
लघूपलं इवोदग्रग्राविण सञ्चूर्णितोऽभवत् ॥ ५६
- अथाऽपतन्तं प्लवगं मुष्टिना विनिहत्य च ।  
त्वरितं योजयामास स्वर्वद्धभिर्हलायुधः ॥ ५७
- इत्थं विश्वम्भभराभारमुद्धत्य बलकेशवौ ।  
श्रीयुतां द्वारकां द्विभिरानयेतामनेहसाम् ॥ ५८
- अथ संप्रार्थितो जातु मुरारिर्वृत्रविद्विषा ।  
वैकुण्ठं गन्तुमुत्कण्ठामकरोत् श्रीसमाहितः ॥ ५९
- स यदूनां कुलं सर्वमुपसंहृत्य कैतवात् ।  
प्राप्य प्रकृतिं रामः स्वरूपं स्वयमाददे ॥ ६०
- चतुर्भुजःश्रियाऽश्शिष्टः शार्ङ्गी कौस्तुभमण्डनः ।  
चक्री पीताम्बरो विष्णुर्विमाने प्रत्यदृश्यत ॥ ६१
- चित्राणि यानि यान्युवर्यां कर्माणि चक्रिरे स्वयम् ।  
स्थितो विमाने मानाहीं कमलां तान्यदर्शयत् ॥ ६२

- पश्यैतज्जाह्न वीतीरे युधिष्ठिरपुरं महत् ।  
यत्र प्रसह्याभिहतः शिशुपालो मया पुरा ॥ ६३
- अत्र चक्रुः कुरुक्षेत्रे युद्धं कौरवपाण्डवाः ।  
मदधीनौ तदा तेषामास्तां जयपराजयौ ॥ ६४
- पुरी सेयं समुत्तुङ्गवप्रगोपुरतोरणा ।  
साल्वः खल्वसुरो यस्या नेता निन्ये यमक्षयम् ॥ ६५
- दवीयानप्यहं भक्त्या स्मृतस्सकृदरक्षिषम् ।  
कृष्णां दुर्योधनत्रस्तां तदिदं हास्तिनं पुरम् ॥ ६६
- पुरी सेयं जरासन्धो यत्र भीमेन धातितः ।  
न चकास्ति विना तेन व्याघ्रेणवाद्रिकन्दरा ॥ ६७
- अस्त्रं पाशुपतं शम्भोः पार्थेन ग्राहितं मया ।  
प्रिये सोऽयं गिरिश्रेष्ठः कैलासं पश्य राजते ॥ ६८
- इत्थमन्यान्यपि स्वीयान्यासन् कर्माणि यान्यसौ ।  
प्रियायै दर्शयन्नेवं निजमध्यासदत्पदम् ॥ ६९
- ततस्स पुण्डरीकाक्षः सङ्गतैर्मुदितात्मभिः ।  
कृतप्रणामैरखिलैरित्थं अस्तूयतामरैः ॥ ७०
- व्रह्मात्मना सृजसि यो जगदेतदादौ ।  
विश्वम्भरत्वमधिगम्य ततो विभूषि ।

पश्चात्स्वयं हरसि हन्त ! हरात्मना त्वं  
तंस्मै नमो भगवते त्रिविधात्मकाय ॥ ७१

संसारपङ्कपरिलिप्तसमस्तदेहैः  
त्रय्यन्तवारिधिविगाहनशुद्धभावैः ।  
यो मृग्यसे नियमितात्मभिरात्मरूप-  
स्तस्मै पुराणपुरुषाय नमः परस्मै ॥ ७२

याऽखर्वगर्वपतनोच्चलदुच्चवीचिः  
नीता लयं निजजटाकुहरैकदेशे ।  
सा येन पावितजला प्रपदेन मुक्ता  
चित्ते स नो हरिहराकृतिरस्तु नित्यम् ॥ ७३

तैस्तैरुपप्लवशतैः परिपीडयमानं  
येन प्रकृष्टकरुणेन तदा तदाऽत्र ।  
विश्वं समुद्रतमभूदशधाऽवतीर्य  
नित्यं स नोऽस्तु शरणं पुरुषः पुराणः ॥ ७४

यस्तापयत्यनिशमात्मदृशाऽवलोकै-  
राह्लादयत्यपि पुनर्भवनं संमस्तम् ।  
स्वैरं स नो विदधतां [वितनुतात्] हृदये निवासं  
सूर्येन्दुचारुनयनो भगवान् मुरारिः ॥ ७५

कृष्णोऽपि कीर्तिधवलः परिपूतमूर्तिः

जारोऽपि सङ्गरहितोऽपि सहस्रदारः ।  
लक्ष्मीधरोऽपि 'विहितो दधिदुग्धचोरः

तन्निर्गुणं सगुणमप्यनिशं भजामः ॥ ७६

इति नुतिभिरमन्दानन्दसन्दोहसिन्धु-

प्रचलदमलवीचीशीकरासारसिक्तः ।  
दरमुकुलितनेत्रो नीरजाक्षः कटाक्षैः

स्ववसतिमधिगन्तुं निर्जरानादिदेश ॥ ७७

गङ्गाधराधरिसुतो नरसिंहसूरे-

र्यस्त्र्यम्बकाधरिमणेश्च सुधी कनीयान् ।  
काव्येऽमुना विरचिते भगवन्तनाम्ना

सर्गशुभोऽजनि मुकुन्दविलासनाम्नि ॥ ७८

॥ इति श्रीमुकुन्दविलासे दशमस्सर्गः ॥



## வேண்டுகோள்

கருணையுள்ளங்கொண்ட நம் முன்னோர்கள், அரிய பெரிய இலக்கியங்களையும், பிறவற்றையும், பண்யோலைகளில் எழுதிச் சுவடிகளாக நமக்குத் தந்தனர், அவை, பல்வேறு இடங்களில் முடங்கி உள்ளன. சுவடிகள் பழுதடைவதற்குமுன் சரசுவதி மகாலுக்கு அன்பளிப்பாகக் கொடுத்துதலினால், அவை மக்களுக்குப் பயன்படும்,

மகாலுக்குக் கொடுப்பதன் மூலம், சுவடி தந்தவர்களும், சுவடி எழுதி யோரும் அழியாப் புகழை, பெருமைசால் சரசுவதி மகால் உள்ளளவும் பெறுவர். அவை பதிப்பாகி வருமாயின் சுவடி தந்தார் பெயர் இடம் பெறுவதோடு, அப்பதிப்பில் ஜங்கு பிரதிகளும் பெறுவர்.

எனவே, “நாம் பெற்ற பேறு பெறுக இவ்வையகம்” என்ற எண்ணமுடைய நற்பண்பாளர்கள் தம்மிடமுள்ள சுவடி கடன் சரசுவதி மகாலுக்குத் தந்துதவ வேண்டுகிறேன்,


தஞ்சாவூர் } மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் இயக்குநர்,  
28-12-95 } சரசுவதி மகால் நூலகம்

## ॥ शुद्धिपत्रिका ॥

पृष्ठम्	पद्भवितः	अशुद्धम्	शोधितम्
4	11	पति	पीत
8	12	धनतां	धनतां
12	10	धनाधन	घनाघन
15	11	विदर्लितः	विदलितः
30	1	स प्रणामं	सप्रणामं
31	12	अनुवर्नं	अनुवनं
43	10	तत्पालिकश्चय	तत्पालिकाश्चय
47	3	पयोधि मग्न	पयोधिमग्न
61	11	ननुविरह	ननु विरह
63	7	तेभ्यः	तेभ्यः
64	14	क्षखं	क्षणं
74	2	नैर्घृण्यात्	नैर्घृण्यात्
89	18	विलोकिनाः	विलोकिनः
97	14	रक्षकाघैः	रक्षकौघैः ।

पृष्ठम्	पद्भिर्वितः	अशुद्धम्	शोधितम्
113	5	तत्व कोविदाः	तत्वकोविदाः
114	14	साधुयद्भवति	साधु यद्भवति
115	11	विलभित	विलभित
118	9	नव	तव
118	14	अध्यगीष्ट	अध्यगीष्ठ
120	4	मच्छ	मत्स्य
129	8	महा त्वज्ज त्	त्वज्जन्तुरज्जौघ
120	9	अषस्यत्	अपश्यत्
121	5	खावकीर्ण	रवावकर्णनैः
121	15	कुतुकंदिदृक्षव	कुतुकं दिदृक्षवः
122	3	नासीर	नासीर
122	4	शिबिरस्यपृष्ठतः	शिबिरस्य पृष्ठतः
122	8	खावकीर्णनै	रवावकर्णनैः ।
123	2	पुर स्थितस्य	पुरः स्थितस्य
123	7	ध्वजिनी पयोनिधि	ध्वजिनीपयोनिधि
123	17	विसारणा	विसारिणा
124	16	चान्विष्यपरस्परं	चान्विष्य परस्परम्

पृष्ठम्	पड्कितः	अशुद्धम्	शोधितम्
125	11	अनुपढं	अनुपदम्
126	18	निथि	निधिम्
127	7	नयोद्धुमर्हसी-	न योद्धुमर्यसी-
127	17	सारथिः ध्वजातपत्र	सारथिध्वजातपत्र-
128	10	....रप्यमा द्रवत्	....रप्यपाद्रवत् ।
131	8	व्यजहिरे	विजहिरे
135	10	आर्य	आर्य-
142	9	विश्वम्भरा	विश्वम्भरा



# OUR NEW SANSKRIT PUBLICATIONS

---



---

		Rs.
1	Bharatarnavam	100
2	Gita Govindam	25
3	Brahadeeswara Mahatmyam	43
4	Kantimati Parinayam	36
5	Mantra Sastra Sangraha	45
6	Prapancha Sara Sara Sangraha	120
	Part I	
	Part II will be released soon	
7	Maruti Vijaya Champus	30
8	Prayoga Ratnamala	55
9	Paramahamsa Charya	60
10	Rajamriganka (Ayurvedic Text)	45
11	Risya Sringa Samhita - Part I	100
12	,,	145
13	Sarabharaja Vilasam	15
14	Uddharakosam	23
15	Yaska's Niruktam - Part I	85
16	,,	100
	- Part II	

---



---

मुकुन्दविलासगतश्लोकानां

## ॥ अनुक्रमणिका ॥

---

श्लो.	पृष्ठम्	श्लो.	पृष्ठम्
अङ्गुलीयस्त्रिच	24	अथ कौशिक	55
अच्छतां	28	अथ चक्रुः	143
अतिशेषं	84	अथ तस्य	53
अत्यर्थं	17	अथ तां	46
अत्यर्थं	75	अथ दैत्यं	51
अत्यर्थं विरह	69	अथ मस्तकं	59
अत्यर्थं विरह	70	अथ मित्रवध	140
अत्युग्रैः	72	अथ रामं	142
अत्युच्चैः	68	अथ विनिहत	91
अत्युदग्र	22	अथ विश्वम्भरा	137
अत्युदग्र	23	अथ व्रजाम्भोरुह	131
अत्युदग्रमद	113	अथ सम्प्रार्थितः	142
अत्त्रानेतुं	92	अथ स्वचारैः	122
अथ काचित्	55	अथानिलं	132
अथ कासुचित्	53	अथापतन्तं	142

इलो.	पृष्ठम्	इलो.	पृष्ठम्
अथापरांशेन	4	अबिधं	104
अथाब्जनेत्रेण	127	अभयं याचित्	139
अथारोप्य	137	अभवद्रजसा	84
अथाविशत्	138	अभिमतविषय-	106
अथोग्रसेनः	136	अभ्युदीत इह	108
अदयोद्यत	87	अमुना सह	54
अदर्शनं	6	अमुना सुचिरं	58
अदृष्टपूर्व	137	अम्ब सूनुं	17
अधरीकृत	85	अम्भोदस्तनित	65
अधरोष्ठ	56	अम्भोराशि	108
अधिकृत्य	55	अम्भोराशे	104
अधिपूर्व	47	अर्ययम्णि	63
अधिरुद्ध	31	अल्पके द्विः	111
अध्यासीनं	97	अल्पके महति वा	111
अध्यास्य	137	अवनिं गगनं	83
अनुरागवतीषु	56	अवलोक्य	83
अनुरूप	50	अश्रान्त	35
अनुलिप्त	48	असितत्वं	82
अन्यं समारुद्ध	128	असिताम्बुरुह	81
अबिधं	101	असितासि	85

श्लो.	पृष्ठम्	श्लो.	पृष्ठम्
अस्तु तत्	111	आश्लिष्टः	30
अस्त्रं पाशुपतं	143	आसक्ता	66
अहं न हन्त्री	13	आहताखिल	112
अहर्निशं	123	इति तन्तुति	85
आकर्ण्य प्रमथनं	66	इति तामभितः	90
आकाशभूमौ	10	इति नुतिभिः	145
आकाशमच्छतरं	44	इति प्रहत्रोः	126
आगच्छन्तीः	101	इति विविध	60
आजिघ्रत्	62	इति व्यवस्थन्	119
आदाय सिन्धोः	7	इति सूक्ष्मिभिः	80
आनताः	21	इत्थं गुप्ते	46
आननाढ्ज	16	इत्थं चित्रां	97
आपीतानुपद	64	इत्थं जितः	128
आम्रपादप	39	इत्थं तदुक्तिं	13
आयान्तमेत्य	90	इत्थं तेन	100
आरुह्य शृङ्गाणि	11	इत्थं निवर्त्य	138
आरुढे सुरपथ	67	इत्थमग्रजनुषं	29
आलीभिर्नव	69	इत्थमन्यान्यपि	143
आलीभिर्मूदुल	4	इत्थमात्मरमणं	29
आवृता धवल	28	इत्थमेव	113

इलो.	पृष्ठम्	इलो.	पृष्ठम्
इत्थं प्रीत्या	106	उपलभ्य	140
इत्थं मुरारि	90	उल्लङ्घ्याथ	94
इत्थं वारि	135	उषया छवना	140
इत्थं विश्वम्भरा	142	एष कंस....	115
इत्थं समीरित	119	एष कंसमवधीत्	116
इत्याजिभूमि	126	औशीरव्यजन	68
इत्युदीरितगिरं	119	कन्दपर्हिव	62
इदमञ्जनं	52	कमठाकृति	83
इह साल	86	कमलेषु	79
ईदृक्षां विरहिजन	74	करसङ्कुलित	49
ईहितं मम	17	करादृतं तेन	128
उग्रसेनतनये	118	कर्तुं प्राक्	74
उच्चैरधीयान	36	कलहंस	81
उच्चैःशङ्खं	106	कलिन्दजां	133
उज्जित्वा	63	कस्तूरिका	4
उत्तिष्ठ	63	कान्तं यस्यां	93
उत्प्लुत्य	91	कान्ताभिः सह	67
उद्गच्छ	62	कार्यमल्पमथवा	113
उत्सुकैः	137	का वा सा	71
उन्मीलिताक्षं	126	काश्चिज्जजल्पुः	131

इलो.	पृष्ठम्	इलो.	पृष्ठम्
का सन्त्याज्या	61	क्रीडन्तीनां	93
किं वा त्वां	70	क्रीडन्तीनां	93
किञ्च साहसिनि	112	क्रोधाज्य	140
किन्विदं	20	विलग्नांशुकासु	133
किमु माधवनं	89	ववचिच्छिलीन्धैः	5
कुचशैल	57	ववचिन्नदन्तः	5
कुतुकेन ]	56	वव वायुदेव	
कुमुदे भजति	47	खञ्चः किं	32
कुमुदेषु	50	खुरघट्	47
कुर्वणिस्त्वं	73	गगनं तरतः	86
कुर्वणेषु ततः	45	गङ्गाधराध्वरि	14
कुसुमेषु	79	Do	30
कृतमेभिः	85	Do	46
कृष्णोऽपि-	145	Do	61
केशीति	65	Do	75
कंसतस्तदनु	14	Do	91
कंसमात्म	116	Do	107
कंसमेनमनये	117	Do	135
कंसः स्वसारं	2	Do	145
क्रीडन्तः	95	गजव्रजग्राह	120

श्लो.	पृष्ठम्	श्लो.	पृष्ठम्
गतिशिक्षित	54	चतुर्भुजः	142
गत्वा स्वर्गं	98	चन्द्र त्वं	72
गभाष्टिमत्वं	13	चम्पकस्य	35
गायत्रीं	65	चलन्मणी	133
गायन्ती	33	चालितो मधुर	76
गीर्वाणानां	96	चिकुरप्रकर	52
गुप्तं धेनुकं	31	चित्राणि यानि	142
गोकदभ्बकं	25	छायानुगच्छति	43
गोपानां	61	जगतो विजयार्थं	78
गोपालबालकं	108	जगद्विजेतुं	11
गोपिका	20	जम्बूद्रुमाः	7
गोपिकासु	19	जहि त्वं	31
गोविन्दाहृत	71	जातुचित्	19
ग्रीष्मेण तप्ता	12	जातोऽथ	141
ग्रीष्मेण सर्वं	44	जात्या विहीनस्यापि	40
ग्रीष्मे नितान्तं	41	जिघ्रन्तः	38
घनधूतकृति	48	जितमेघरवः	88
घोटी खुर	120	जित्वा स वैरिणं	141
चकर्षं नगरं	141	ज्वालाजालैः	101
चण्डानिल	45	झटिति त्रिभिः	84

श्लो.	पृष्ठम्	श्लो,	पृष्ठम्
ज्ञानाभ्योर्धि	99	तरवः प्रसमीक्ष्य	37
डोलिकां	2	तरितुं जनता	77
तटभूरुह	42	तस्मिन्निविष्टे	129
तटमेकं	82	तस्मिन्नुदग्ग	121
ततः कदाचित्	2	तं भजन्ति	109
ततस्तत्कर्मणा	141	ताभ्यां पुत्रः	106
ततः स पुण्डरीकाक्षः	143	तामापतन्तीं	124
ततःसरोजाक्षवचः	3	तावदेव	109
ततोऽभियातः	139	तावुभावपि	20
ततो मुकुन्दः	130	तीक्ष्णपर्ण	23
तत्रासमीक्ष्य	132	तीरसीम्नि	18
तथेति सेनापतिः	119	तुहिनप्रसृतिः	78
तथाविधं	129	तुहिनेन कृतं	76
तदीयनिस्साण	121	तेनानीतां	99
तदुत्तमाङ्गं	125	तैस्तैरुपप्लव	144
तप्तयोश्च	112	तौ श्रिया विजित	24
तप्तां मां	71	त्रस्ताः पक्षान्	103
तप्तास्तटिन्यः	42	त्राणाय विश्वस्य	12
तमापतन्तं	127	दर्शयन् किमपि	16
तयोः शर	127	दवीयानप्यहं	149

श्लो.	पृष्ठम्	श्लो,	पृष्ठम्
दानस्त्राव	96	धात्रा देवान्-	97
दानाम्बुधारा	6	वृत्काञ्चन	89
दारकैः स विहरन्	18	नट्यां नटन्त्यां	7
दिनेषु तस्याः	5	नन्दगोपजनुषा	107
दुरधमुरध	21	नन्दस्य कश्चित्	13
दुरासदं धाम	122	नन्वेतत्कुचयुगलं	73
दुष्टामुपगतः	116	नवकाञ्चन	87
दृप्तदैत्य	16	नवशाद्वल	77
दृष्ट्वा तं तदनु	66	नवाथ मासान्	12
दृष्ट्वा द्रवन्तीं	126	न शक्रकोपैः	8
दृष्ट्वा नृणां	98	नानारत्नेषु	103
दृष्ट्वा सर्वे	95	नानाविद्याः	100
देववल्लभतया	21	नाम्भोधेः	72
देशः स्वर्गः	97	नालं वेलां	103
दैन्यमत्र	118	नासोरदेश	122
द्रागामूल	98	नास्याः पुरः स्थातुं	121
द्रोहमात्मजनके	116	निक्षिप्तं हृदि	69
द्विजकूजित	81	निजगजित	48
द्विरेफश्रेणीभिः	39	निजतापघनं	48
धरणीधर	79	निजब्रिम्बं	55

श्लो.	पृष्ठम्	श्लो.	पृष्ठम्
नित्यं हृष्टाः	95	परिणद्ध	87
निन्दन्त्यः	75	परितः कुसुमानि	43
निबिडं तमसां	58	परितः पिहितानि	77
निरस्तपड्केरह	134	परितो नवपल्लवान्	37
निर्वृता सा च	138	परिमुच्य	80
निशम्य तद्वाचिकं	123	परिष्कृतां तां	131
नीतिदुष्टमिदं	114	पल्लवैः	20
नीत्वा तां	68	पल्लवैः	2
नीत्वाऽम्	70	पवनावद्यूत	34
नृहरित्वं	83	पश्चाधीं	70
नैर्घृण्यादियं	74	पश्चादौधीं	92
न्यकृतः कौरवैः	141	पश्यन्तौ तौ	105
पञ्चेषुः	73	पश्यतौ-	143
पत्नीं प्राप्य	37	पाटीराद्रि	40
पत्युर्नदीनां	9	पाण्डुतामथ	26
पथिकजन	32	पाथः सङ्गात्	92
परस्परं	8	पानीयशाला	43
परिखापयसि	86	पान्थानां	34
परिखाम्बुनि-	86	पारावारं	105
परिणतरुचि	33	पीतं परागं:	39

श्लो.	पृष्ठम्	श्लो.	पृष्ठम्
पीतासु ध्वलीषु	124	प्रविश्य नन्दनं	139
पीनोन्नतौ	4	प्रसभं विघुना	49
पीयुषत्विषि	61	प्रसारितोत्तुङ्गं	7
पुत्रो जनकशीर्षं	140	प्रस्तुतानतं	25
पूनरप्पर्पित-	139	प्राक् ताडितानां	9
पुरं प्राञ्ज्योतिषं	139	प्राक् प्रसादं	28
पुरि नीलपताकया	88	प्राज्यं पयोधे:	11
पुरीं निरुद्धां	129	प्राप्तावावां	102
पुरी सेयं	143	प्राप्तावुभौ-	90
पुलकस्फुरत्-	58	प्राप्तां पुरस्कृत्य	3
पुष्पौघ	40	प्राप्य दुर्नयं	110
पूतनाशकट	19	प्रार्थितो जिध्णुना	139
पूतनाशकट	115	प्रासादान्मत्यर्वनिताः	137
पूर्वजेन रहितः	29	प्रियेण वासस्यु	134
पूर्वमर्दित-	109	फालान्तर्विलसित	65
पूर्वमेकचरण	16	बकुलं कुसुमाकुलं	35
प्रचलति-	35	बन्धं यो	68
प्रभग्न	125	बर्हभूषणं	27
प्रलयाम्बुनिधे:	83	बर्हिबर्हं	24
प्रवालिता	33	बलं यदूनां	122

श्लो.	पृष्ठम्	श्लो.	पृष्ठम्
बहुतापं	59	मर्दितस्वसुहृदं	109
बाल इत्यरि-	116	मलयावनीध्रं	36
वृन्दारकाणां	3	महीतले-	8
ब्रह्मात्मना सृजसि	143	महेन्द्रकोपोज्ज्वलं	10
भयेन कंसात्	5	मानयन् ब्रज	14
भानोः पादैः	95	मां पूर्वं क्षणं	71
भान्ति पीवर	22	माया मुरारे:	12
भान्ति पूर्ग	23	मायायोत्थां	141
भुवमेणमद	87	माताण्डापतद्-	33
भूयो भूयः	101	मित्रमर्दनमहं	109
भ्रमराश्रित	80	मित्रमीदृशमर्ि	116
मधवद्विधु	89	मिथस्तदानीं	123
मञ्जलालङ्कृतां	1.8	मुक्तशौल-	28
मत्तषट्पद	41	मुखरीकृत	57
मत्तापमाजह्नुः	10	मुखरे निनदे-	51
मधुना मलयाचल	78	मुग्धाम्बुजाक्षीषु-	134
मधुप्रफुल्ल	38	मुरजेतरि	54
मध्ये तोयं	103	मुरजेतरि	56
मध्यो मूगाक्ष्या	5	मुरद्विषस्तस्य	127
ममाधिनाथः	125	मुष्णन् भृशोष्णं	44

श्लो.	पृष्ठम्	श्लो.	पृष्ठम्
मुहुर्मुहुः-	6	यस्याधस्तात्	95
मुहुर्मुहुः-	10	यस्याभोगं	104
मुहुर्मुहुः-	137	यस्यां दृष्टवा	96
मृद्वीशिरीष-	43	या खर्वगर्वं	144
यः प्रविश्य	118	याचितस्तेन	136
यः प्रवीरः	112	या चिरेण	
यत्तदा	15	या पश्यतो जलमिव	30
यत्ते चित्ते	100	यां त्वं	2
यत्र प्राप्ताः	96	यां सिताम्बुजं	27
यत्राधस्तात्	94	युक्त एव	18
यत्रोद्याने	94	येनावधीः	123
यत्क्षया	114	येषां प्रसूनानि	34
यत्सुरासुर	118	ये हिमांशु-	27
यद् दृष्ट्या	45	योऽपि कश्चित्	112
यदुवाच मुनिः	78	यो विद्वन्नपि	114
यद्भीतः स्मर	74	रजनीकर	50
यन्न साधु	114	रदनक्षत	60
यमुनासलिलैः	81	रभसेन	79
यस्तापयति	144	रम्यां प्रपां	34
यस्य सप्रणयं	118		

श्लो.	पृष्ठम्	श्लो.	पृष्ठम्
रविकान्तः	89	वाचं तां	98
रविणास्तं	48	वातकम्पित	21
रशनाकलन	53	वायुना विहरता	38
रसादिताभिः	37	वारुण्यादरण	63
रहिताभरणाः	52	विकसत्कुमुद	80
रामोत्तमाङ्गे	142	विकसत्कुसुम	80
रुक्मिण्या-	138	विज्ञायेत्थं	100
रुचयः शशिनः	50	विटपिच्छुतं	82
रुढमूलं	108	विश्रस्तवाह	121
लज्जासङ्कुचित	138	विद्याः सर्वाः	99
लताबला	36	विनिरुद्ध्य	79
लब्धो यस्मात्	105	विपिनेषु	34
लाङ्गलेन	141	विप्रतीपवचनैः	114
लोककण्टकं	117	विभाव्य	3
वकुलं कुसुमाकुलं	35	विमुच्य पाशबन्धात्	140
वधाय प्रस्थितः	140	विरहातिजुषां	77
वर्षतुलक्ष्मीं	12	विवशः सुहृदः	41
वलित्रयस्य	4	विवाहनैपथ्य	137
वसनं करपल्लवेन	60	विवेश द्वारका	141

श्लो.	पृष्ठम्	श्लो.	पृष्ठम्
विश्वस्य	8	शन्यवज्ञा	139
विष्णुना	26	शनकैः	32
विष्वक्	105	शनकरमुना	54
विहरत्कलहंस	82	शयितासु	53
विहरन् सः	57	शरदुज्ज्वल	51
वीक्ष्य प्राप्तौ	101	शशलक्ष्मणि	49
बीरोऽसि चेत्	125	शालिंगोप	26
वेणुवादन	25	शिथिलाम्बर	52
वेश्मानि	64	शिथिलालक	60
वैवाहिकं	136	शिवं शिवा	1
व्याकीर्ण	64	शिशुपालवधाय	136
व्याकृष्यमाणां	133	शीतरश्मि	25
व्याकोचत्	39	शीतांशुं	62
व्यातेने	68	शुक्तिषु	103
व्यापाद्यमानं	127	शृङ्गारं परिवर्धयन्	31
व्यावलगत्	42	शेषस्य	130
व्रजति द्रुतमेव	46	शैत्यं द्राक्	67
शक्रेण पूजिते	139	शैलोदग्रैः	102
शङ्खस्तोमाः	102	श्येना रणक्षमां	126

श्लो.	पृष्ठम्	श्लो.	पृष्ठम्
श्रवणोत्पल	55	सम्भूतिस्तव	72
श्रीः सुहृज्जन	111	सम्भूतो भवसि	73
श्रुत्वा तमुद्यमं	136	स यदूनां	142
श्रत्वैतत्	45	सर्वज्ञावपि	99
स गर्भमानैः	129	सर्वप्रयन्नेन	130
सखीजनस्य	2	स वह्निसाक्षिकं	138
सद्द्विरच्छति	117	सवारबाणासित	120
सद्यः समापय	124	सव्यापसव्यं	124
सप्तपर्णतरु	28	सव्यलीकमिव	110
स प्रजाप्रणय	6	संज्ञया यं	15
सप्रणामं	7	संवृतं कौरवैः	141
स प्रविश्य	29	संसारपञ्च	144
सभर्तूकां	2	सादरं मर्त्यसुदृशाः	137
समीरमान्त्रिक	44	सान्द्रपुष्प	22
समुपेत्य	32	सान्द्रप्रसून	37
सम्पन्नं	39	सान्द्रसञ्जत	23
सम्प्रति	107	सान्द्रस्फुरत्	36
सम्भूताननु	75	सान्द्रावमर्द	120
सम्भूतिर्ननु	71	सा प्रियेण	138

श्लो.	पृष्ठम्	श्लो.	पृष्ठम्
साम्बुर्भः	26	स्पर्धमानं	140
सायाह्ने	63	स्पर्शमीषद्	110
सारज्जास्तपन	67	स्पर्शेन चन्दन	40
सिन्धोस्तीरे	105	स्फुरच्चक्रं	140
सुरवर्त्म	47	स्मरसज्जर	58
सुराज्जनानां	9	स्मेरा वराज्जी	6
सुरां निपीय	132	स्स्तांस	64
सुरां पिबन्त्यः	131	स्वगृहीत	17
सैकतस्य	27	स्वं गृहीतुं	18
सोत्कण्ठं	65	स्वं निहन्तुं	115
सोऽपि पाद	110	स्वच्छता मम	26
सोऽयं हृद्यां	92	स्वज्ञातिसन्दर्शन	130
सौरभ्य	131	स्वपाच्चजन्यस्य	128
स्तुतिमाकलयन्	87	स्वबाहुहार	135
स्त्रीणां कुच	133	स्वमुदस्य	76
स्थाने वितीर्ण	129	स्वर्गे वात	99
स्थितः पुरस्तात्	136	स्ववशीकृत	55
स्थितमेक्ष्य	54	स्वर्वारिस्त्री	93
		स्वसुः क्रमेणैव	3

श्लो.	पृष्ठम्	श्लो,	पृष्ठम्
स्वाङ्कसीम्नि	18	हिमदीधिति	51
स्वान् गोप	134	हिममञ्ज	77
स्वामिन्ननु	121	हीनःसन्	73
स्वीयं यस्मिन्	97	हीनभावं	108
स्वैरं पयोधे:	10	हुतं तया	138
स्वैरं प्रगृह्य	38	हृतदाडिम	88
स्वैरं विहृत्य	44	हृतायां स्वंसरि	136
हृत्वाथ कारुं	90	हृतेव लोके	123
हृत्त स्वर्गे	93	हृत्वा मुरधाः	94
हरिचन्दन	52	हंसेषु	66
हरिणा	59	क्षणमप्यनवाप्य	85
हरितो	49	क्षये तनोः	125
हरिर्वद्ध	142	क्षितिभूत्	84
हलभृत्	84	क्षोणीभृद्धिः	102
हायनैः	24	क्षोणीमभिव्याप्य	121
हित्वा तं	75	क्षोणीसमालम्ब	42



## **AN APPEAL**

Manuscripts on Palm Leaf or Paper of the ancient works of the wise men of the past, are the great treasures, solely inherited by the Nation and it is the moral obligation of persons who possess them to preserve them safely for the future generations of mankind.


Probably you have some of these in your possession or you know friends or neighbours who possess them. You can make a great contribution to the cause of the preservation not only of our National Culture but also to the Culture of Humanity as a whole by arranging to present such manuscripts to the famous T. M. S. S. M. Library, Thanjavur.

The manuscripts so presented will be accepted and acknowledged with pleasure and gratitude by the authorities of the Library, preserved with meticulous care and made available to successive generations of readers and scholars for study and research. The hitherto unpublished works found among them, will be printed and published in due course, as facilities occur, with the expression of the Library's gratitude for your gift.

The great Scholar-King of Tanjore, Rajah Serfoji, has attained immortal fame by dedicating enormous time and wealth to the expansion and firm establishment of this World-famous 'Sarasvati Mahal Library'. It is open to you to share the honour of Serfoji, in your own measure by contributing your manuscripts to the great institution built by him.

This great Honour is beckoning to you to accept it. Will you hasten to take it up? The Library waits for your answer.

**DIRECTOR,  
Sarasvati Mahal Library, Thanjavur.**





---

**STAR PRINT & PACK**  
**THANJAVUR-7**

---